

निवेदन

ध्यान रखिये

पैरों तले व अपवित्र स्थानों में डालकर,
थूक लगाकर और अज्ञान बालकों के हाथों
में देकर पुस्तकों की आशातना नहीं करिये ।



इस पुस्तक का पुनः पुनः स्वाध्याय करिये,
स्तवनों को गाइये
व उनके अर्थ पर मनन करिये ।



इसे दूसरों को पढ़ने के लिये दीजिये, पढ़कर
उन्हें सुनाइये । इससे आपको आध्यात्म-ज्ञान व
भक्ति प्रसारित करने का महान् लाभ होगा ।



बीकानेर
एजुकेशनल प्रेस में मुद्रित

स

म

र्प

ण

परमपूज्य परमोपकारी
गुरु महाराज श्री सुखसागरजी

की

पवित्र स्मृति

में

सादर समर्पित

५

आज्ञानुवर्तिनी
विचक्षणश्री

प्रत्यक्ष प्रभावक पुज्य गुरुमहाराज.



5 भेरुदानजी वोथरा के पुत्र सुखलालजी की धर्मपत्नी वेरागन चंचळवाई तरफसे भे
गाम गोगोलाच (नागोर)
जन्म सवत १८७६ सरसा दीक्षा सवत १९०६ जयपुर - स्वर्ग सवत १९४० फलोदी

स

म

र्प

ण

परमपूज्य परमोपकारी
गुरु महाराज श्री सुखसागरजी

की

पवित्र स्मृति

में

सा द र स म र्पि त

ॐ

आज्ञानुवर्तिनी
वि च क्ष ण श्री

अनुक्रमणिका

	प्रास्ताविक कुछ	१-१८
१.	श्री सीमंधर जिन स्तवन बालावबोध	१
२.	श्री युगमंधर जिन स्तवन	१३
३.	श्री बाहु जिन स्तवन	२८
४.	श्री सुबाहु जिन स्तवन	४२
५.	श्री सुजातस्वामी जिन स्तवन	५३
६.	श्री स्वयंप्रभ जिन स्तवन	६६
७.	श्री ऋषभानन जिन स्तवन	८३
८.	श्री अनन्तवीर्य जिन स्तवन	९३
९.	श्री सूरप्रभ जिन स्तवन	१०५
१०.	श्री विशाल जिन स्तवन	१२४
११.	श्री वज्र धर जिन स्तवन	१३४
१२.	श्री चन्द्रानन जिन स्तवन	१४६
१३.	श्री चन्द्रबाहु जिन स्तवन	१७०
१४.	श्री भुजंग स्वामी जिन स्तवन	१७६
१५.	श्री ईश्वरदेव जिन स्तवन	१८६
१६.	श्री नमिप्रभ जिन स्तवन	१९८
१७.	श्री वीरसेन जिन स्तवन	२०६
१८.	श्री महाभद्र जिन स्तवन	२२२
१९.	श्री देवजसा जिन स्तवन	२३०
२०.	श्री अजितवीर्य जिन स्तवन	२३६
२१.	कलश	२४७

श्रीमद्देवचन्द्रजी रचित अप्रकाशित
स्तवन संग्रह

संग्राहक—अगरचन्द नाहटा

१.	ऋषभ स्तवन	२५३
२.	शीतल जिन स्तवन	२५४
३.	लीमट्टी शान्ति जिन स्थापना स्तवन	२५६
४.	पार्श्वनाथ गीत	--	...	२६०
५.	श्री मौनेकादशी नमस्कार	२६१
६.	श्री पद्मनाभ जिन स्तवन	२६२
७.	अष्ट रुचि सज्जाय	२६४
८.	पद	२६६
९.	मेरे पित क्युं न आप विचारो	२६७
१०.	चारित्र सुख वर्णन द्वादश दोधक	२६७
११.	हीयाली	२६८
१२.	उदय स्वामित्व पंचाशिका	२६६

प्रास्ताविक कुछ

अन त ज्ञानी दृष्ट भूगोल में असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन आता है । उनमें भी मनुष्यों का निवास जबूद्वीप, धातकी खंड, आधा पुष्कर द्वीप ऐसे ढाई द्वीपों में है । ढाई द्वीपों के महाविदेहों की विजयों में वीस विचरते हुए तीर्थंकर भगवान अपना परम पावन धर्म शासन प्रवृत्तिमान कर रहे हैं उन वीस विहरमान भगवानों के स्तवन अध्यात्म रसिक महापण्डित श्रीमद्देवचन्द्रजी महाराज ने अपनी ओजपूर्ण सरस भाषा में गाये हैं । जो इस प्रस्तुत पुस्तक में पाठकों की सेवा में उपस्थित हैं ।

महापण्डित श्रीमद्देवचन्द्रजी महाराज कौन थे ? कब हुए ? कहाँ हुए ? ये प्रश्न सहजिक भाव से पैदा होते हैं । "पुरुष विश्वासे वचन विश्वासः"—इस लोकमान्य सूत्रानुसार उनके प्रति विश्वास पैदा कराने के लिये उन प्रश्नों के उत्तर अध्यात्म-योग निष्ठ प्रभावक आचार्य श्री बुद्धिसागर सूरिजी महाराज ने महापरिश्रम से संपादित अपने—श्रीमद्देवचन्द्र भाग पहले और दूसरे में बड़े विस्तार से दिये हैं । इसी प्रकार का विशिष्ट प्रबन्ध भीयुत मणिलाल मोहनलाल पादराकर ने भी "श्रीमद्देवचन्द्र जी जीवन चरित्र" नाम की पुस्तक में किया है । साधारण रूप से जैन समाज का बंधा २ श्रीमद्देवचन्द्रजी महाराज के नाम से परिचित है ।

राजस्थान के बीकानेर इलाके में ओसवाल लूणिया गोत्र के साह तुलसीदासजी और उनको धर्मशीला धर्मपत्नी श्रीमती धन्नाबाई रहते थे । स० १७४६ में उनके शुभ स्वप्न सूचित पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ । नाम देवचन्द्र रखा गया । उपाध्याय राज सागरजी के पुनीत उपदेश से १७५६ में मां बाप की आज्ञा से श्री देवचन्द्रजी दीक्षित हुए । श्रीजिनचन्द्रसूरिजी से बड़ी दीक्षा प्राप्त हुई । राजविमल नाम रखा पर लोकों में देवचन्द्र नाम ही अधिक प्रसिद्ध हुआ । बिलाडा में आपने सरस्वती मंत्र जाप से सिद्धि प्राप्त की । स्व पर शास्त्रों के विशद अभ्यास से जैन दर्शन के प्रौढ़ विद्वान हुए । स० १७६६ में ध्यान-दीपिका और १७६७ में द्रव्य प्रकाश नाम के अद्भुत ग्रंथों की रचना की ।

माईजी और अमाईजी नाम की सेठ विमलदास की पुत्रियों के प्रबोधार्थ आगमसार नामक ग्रंथ की रचना की । पाटण में पूर्णिमागच्छीय भावप्रभसूर के सदुपदेश से श्रीमाल वंशीय तेजसी जेतसी ने सहस्रकूट जिन बिंब स्थापन किये । श्रीदेवचन्द्रजी ने सहस्रकूट जिन बिंब परिचय पूछने पर सेठ ने अपनी अनभिज्ञता दिखाते हुए ज्ञानविमल सूरिजी से प्रश्न किया उनने भी कहा कि शास्त्रों में तो इसका अवा-पता नहीं है, तब श्रीमान ने सहस्रकूट का शास्त्रीय परिचय कराया । तब सूरिजी बहुत प्रसन्न हुए । दोनों में अद्भुत धर्म-स्नेह का उद्भव हुआ । क्रियोद्धार किया । १७७८ में नागौरी सराय

अहमदाबाद में भगवती सूत्र का व्याख्यान किया। लोगों को प्रभु पूजा में स्थिर किये।

अहमदाबाद में श्रीशक्तिनाथजा की पेल में सहस्रकूट जिन बिब की प्रतिष्ठा की। १७७६ में खभात में चौमासा किया। सिद्धाचल पर जीर्णोद्धार का कारखाना खुलवाया। प्रतिष्ठित श्रावकों ने ८१ ८२-८३ में श्रीमान के सदुपदेश से चतुर सलावटों से सिद्धाचल पर जीर्णोद्धार करवाया। १७८८ में श्रीमान के गुरुदेव श्री दीपचन्द्रजी पाठक का स्वर्गवास हुआ। अहमदाबाद के सुषा श्रीरत्नचन्द्रभडारी की प्रार्थना से स्लेग मिटाया। विरोधी राजा के साथ युद्ध में भंडागीजी ने गुरु के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की। धोलका में एक योगी ने श्रीमान से जैनदर्शन पाया। जामनगर में जिन पूजा विरोधियों से विजय पाई। पडधरी के ठाकुर को धर्मनिष्ठ बनाया। राणाबाव के राजा का भगंदर रोग आपके आशीर्वाद से शांत हो गया। भावनगर के महाराजा को आपने सत्संग से धर्मानुरागी बनाया। पालीताना में प्लेग को शान्त किया। लीम्बडी, ध्रांगध्रा और चूडा में प्रभु प्रतिमा की आपने प्रतिष्ठाएं करवाईं।

श्रीमान देवचन्द्रजी महाराज के शिष्य मनरूपजी एव न्याय शास्त्र के पाठक पंडित विजयचंद्रजी थे। मनरूपजी के शिष्य वक्तूजी और रामचन्द्रजी थे। सं० १८१२ में अहमदाबाद में गच्छ नायक आचार्य ने आपकी अद्भुत आत्म शक्ति अनुपम पाण्डित्य-सफल उपदेककर विधि को देखकर बड़ेस मारोह

के सथ आपको वाचक पद प्रदान किया। अहमदाबाद में ही स० १८१२ भादो महीने की अमावस्या के दिन आत्म ध्यान में लीन होते हुए परमेष्ठी स्मरण करते हुए, सूत्र पाठों को सुनते हुए आपका स्वर्गवास हुआ। सघ ने आपका भारी सन्मान किया।

वाचक श्रीदेवचंद्रजी ने अपनी प्रकाण्डप्रतिभा से छोटे मोटे कई ग्रंथ सस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिन्दी आदि अनेक भाषाओं में निर्माण किये, जिनका संग्रह—श्रीमद्देवचंद्र भाग १ और २ में श्रीमान के अनन्य अनुरागी अध्यात्मयोगनिष्ठ प्रभावक आचार्य श्री बुद्धिसागर सुरिजी महाराज ने किया है। अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मंडल पादरा से जिनका प्रकाशन हुआ है। उन्हीं ग्रंथों में यह “विहरमान जिन वीसी”—अपना विशिष्ट स्थान रखती है। आपके ग्रंथों की अनेक विशिष्टताओं को बताने का यह स्थान नहीं है। केवल प्रस्तुत “बीली” की ही कुछ खुशियां बताना ठीक मानता हूँ।

श्रीमान ने सीमंथर स्वामी के पहले स्तवन में—आध्यात्मिक साम्यवाद की झांकी दिखाई है—जैसे—

जे परिणामिक धर्म तुम्हारे, तेहवो अमचो धर्म।

श्रद्धा भासन रमण वियोगे, वलग्यो विभाव अधर्म ॥

भगवान के समान ही अपना धर्म बताना यह जैन दर्शन का साम्यवाद है। उस ढंग की श्रद्धा-दर्शन और प्रवृत्ति के अभाव में ही विषमता दीखती है। वह भी नैमित्तिक होने से मिट सकती है—इसीलिये तो श्रीमान ने गाया कि—

शुद्ध निमित्त रमे जब चिद्वन—

कर्त्ता भोक्ता धरनो ॥

×

×

×

×

शुद्ध देव आलंवन करतां—

परि हरियें पर भाव ॥

×

×

×

×

आनम गुण निर्मल नीपजतां—

ध्यान समाधि स्वभावे ।

पूर्णानंद सिद्धता साधौ

देवच द्र पद पावे ॥

विषमता मिटने पर आत्मगुणों में निर्मलता होने से ध्यान समाधि प्राप्त होती है । उसीसे पूर्ण आनन्द की सिद्धि होती है । तभी आत्मा परमात्मा हो जाता है ।

दूसरे श्रीयुगमंधर प्रभु के स्तवन में—कर्त्तृत्व—कारण और कार्य की चर्चा बड़े सुन्दर भावों में निरूपित की गई है । ईश्वर कर्त्तृत्व को न माननेवाले जैन दर्शन की पुण्य पद्धति इन्हीं शब्दों में श्रीमान ने बताई है—

कार्य रुचि कर्त्ता थये रे

कारक सवि पलटाय रे । दयाल० ।

आतम गते आतम रमे रे,

निज घर मंगल थाय रे । दयाल० ।

कर्त्ता—आत्मा मोक्ष कार्य की रुचिवाला होता है, तभी सभी कारक आत्म रूप हो जाते हैं । आत्मा जब आत्मा में

रमण करता है तभी आत्मा में मगल हो जाता है ।

अगर यही बात है तो ईश्वर को क्यों मानना चाहिये ?
इसके जवाब में श्रीमान फरमाते हैं--

त्राण शरण आधार छो रे,

प्रभुजी भव्य --सहाय । दयाल० ।

देवचंद्र पद नीपजे रे,

जिन पद कज सुपसाय रे । दयाल० ।

त्राण—शरण और आधार रूप भगवान को मानकर भव्यात्मा देवचंद्र पद पैदा करते हैं । उपकारी के उपकार को याद करना कृतज्ञता मानी जाती है । जैनदर्शन भगवान को निमित्त रूप से मानने की प्रेरणा करता है । इसीलिये मंदिर और तीर्थों में भगवान की स्थापना की जाती है ।

तीसरे श्रीबाहु तीर्थकर भगवान के स्तवन में जैन दर्शन की परम अहिंसा का स्वरूप श्रीमान ने इस प्रकार गाया है--

द्वय थकी छ्काय ने,

न हणै जेह लगार प्रभुजी ।

भाव दया परिणाम नो,

एहिज छे आधार प्रभुजी ॥

जैन दर्शन पृथ्वी १ पानी २ आग ३ वायु ४ वनस्पती ५ और चलते फिरते-जस ६ इन छह जीव निकायों को मनसा वाचा कर्मणा न मारने का उपदेश देता है । जब कि दूसरों की अहिंसा केवल मानव प्राणी तक ही सीमित है । किसी भी जीव को किसी भी तरह से न मारना--भाव दया है । भाव दया ही

परमात्म पद का आधार है ।

आज का लुद्ध मानव अपने स्वार्थ के खातिर बंदर, हिरण, कुत्ते, मछली आदि को मारना अपना कर्त्तव्य मानने लगा है । तब जैन दर्शन छोड़ो जीवनिकायों की रक्षा करने का उपदेश फरमाता है ।

जैन दर्शन में तीर्थ कर भगवान जब तक जीवित रहते हैं तब तक अरिहंत रूप में अपने पूर्वकृत पुण्य कर्म फलों को भोगते हैं । भव्यात्माओं को धर्म को आराधना में सहायक होते हैं । ऐसे उन परमोपकारी प्रभु के नाम गुणों के स्मरण से मिथ्या दोषों का नाश होता है ।

इससे यह सिद्ध होता है कि अनादि अनंत ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता । जैन दर्शन मान्य ईश्वर का स्वरूप सादि अनंत भाव वाला होता है साथ ही ईश्वर को सहायक मात्र माना जाता है कर्त्ता रूप से नहीं । इसीलिये तो श्रीमान ने गाया है कि--

कर्म उदय जिनराज नो,

भविजन धर्म सहाय ।

नामादिक संभारतां,

मिथ्या दोष विलाय ॥

चौथे सुबाहु भगवान के स्तवन मे--भगवान के केवल ज्ञान का स्वरूप, अपनी स्थिति और भावना, साथ ही साधन विधान बताते हुए सीधा रास्ता बताया है जैसे कि--

जिनवर वचन अमृत आदरिये,

तत्त्व रमण अनुसरिये ।

द्रव्य भाव आश्रव परिहरिये ।

देवचंद्र पद वरिये ॥

राग द्वेष को जीतनेवाले को जिन कहते हैं उन जिनवर के वधनों का अनुसरण करना चाहिये । छोड़ने योग्य जानने योग्य और आदरने योग्य तत्त्वों को समझ कर द्रव्य भाव से पाप कारणों को त्याग देना चाहिये । तभी मोक्ष पद प्राप्त होता है । कितना सीधा रास्ता है ।

पांचवें सुजात स्वामी के स्तवन में नयों का विचार प्रौढ़ पाण्डित्य पूर्ण भाषा में बड़े सुन्दर ढंग से किया है ।

अंश नय मार्ग कहाया,

ते विकल्प भाव सुणाया ।

नय चार ते द्रव्य थपाया,

शब्दादिक भाव कहाया ॥

अनंत धर्मात्मक वस्तु की एक अंश की जानकारी एवं स्वरूप व्याख्या को नय कहते हैं । नैगमादिक चार नय द्रव्य पदार्थ को बताते हैं और शब्दादिक तीन नय पर्याय--अवस्था विशेष को बताते हैं ।

इसी स्तवन में अपेक्षा से पदार्थ को देखने की प्रेरणा करते हुए श्रीमान ने गाया है की ।

स्याद्वादी वस्तु कहीजे—

तसु धर्म अनंत लहीजे ।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आइंस्टिन का (रिसंटिविटी) अपेक्षावादी सिद्धान्त क्या नया है ? हजारों वर्ष पहले से ही जैनदर्शन ने प्रत्येक वस्तु को अनंत धर्मात्मक बताई है और उसे समझने के लिये अपेक्षावाद—स्याद्वाद सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । सियाद्वाद सायद्वाद या संशयवाद नहीं है । वह निश्चयात्मक रूप से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है ।

छट्टे श्री स्वयंप्रभ स्वामी तीर्थंकर के गुणानुवाद में श्रीमान ने जीवकर्म के संबंध को बताते हुए क्रमिक विकास का वर्णन किया है—

उपशम भावे हो मिश्र क्षायिकपणो ।

जे-निज गुण प्राग भाव ।

पूर्णावस्थाने नीपजावतो ।

साधन धर्म स्वभाव ।

प्रवाह रूप से अनदि कर्म संबंध के कारण निज गुणों की पूर्णावस्था का जो प्राक् अभाव था और इसी से ससार अवस्था बनी हुई थी । पर साधन धर्म के स्वभाव से कर्मों का उपशम क्षयोपशम क्षय होने पर क्रमिक विकास की पराकाष्ठा हो जाती है । तभी स सारी अवस्था का प्रध्वंस होकर अभाव हो जाता है । जिसको जैन परिभाषा में सादि अनंत कहा है ।

सातवें श्री ऋषभाननप्रभु के स्तवन में प्रभु भक्ति में मस्त श्रीमान् ने अपने अंगों की सार्थकता बताते हुए कितने

सुन्दर भाव कहे हैं—

जे प्रसन्न प्रभु सुख प्रहे—

तेहिज नयन प्रधान जिनवर ।

जिन चरणे जे नामिये,

मस्तक तेह प्रमाण जिनवर ।

अरिहा पद कज अरचिये

सलहीजे ते हृत्थ जिनवर

प्रभु गुण चितन में रमे,

तेहिज मन सुखयत्थ जिनवर ॥ श्री.

भक्त अपने जीवन को प्रभु भक्ति से ही सार्धक मानते हैं ।

भक्ति से भक्त भगवान बन जाता है ।

आठवें श्री अनंतवीर्य भगवान के स्तवन में—जीवशक्ति का स्वरूप बड़े सुन्दर ढंग से बताया है—

यद्यपि जीव सहु सदा,

वीर्य गुण सत्तावत रे ।

पण कर्म आवृत चल तथा,

बाल बाधक भाव लह त रे । मन० २ ।

जो कि सारे संसारी जीव वीर्य-गुण का सत्तावाले हैं, पर कर्मों से धिरे होने से वह वीर्य गुण विकारी, चञ्चल, बाधा पैदा करनेवाला हो रहा है । भगवान की भक्ति से वह वीर्यगुण विकार मुक्त होता है ।

नवमै श्री शूरप्रभू भगवान के स्तवन में भगवान की शूरता का ध्यान करने सुंदर शब्दों में श्रीमान ने किया है—

शूर जगदीशनी तीक्ष्ण अति शूस्ता,
तेषु चिरकाल नो मोह जीत्यो—

अनादि काल के मोह को जीतना ही ज्ञानियों की दृष्टि में सच्ची
वीरता होती है ।

दशवें श्री विशालप्रभुजी के स्तवन में प्रभु ने जैन दर्शन
सम्मत कर्तृत्व भाव का श्रीमान ने सुन्दर निरूपण किया है—

भव अटवी अति गहन की
पारग प्रभुजी सत्यवाह रे ।
शुद्ध मार्ग देशक पणो,
योग क्षेमकर-नाह रे ॥ अरि० ।

संसार रूप मीमाटवी से शुद्ध मार्ग को बताते हुए भगवान
भव्यात्माओं के योगों में कल्याण करनेवाले सार्थवाह स्वामी
हैं । जैन दर्शन को भगवान् उपदेश कर्तृत्व मानने में कोई
आपत्ति नहीं ।

ग्यारहवें श्री वज्रधर भगवान के स्तवन में श्रीमान ने
अपनी दयनीय दशा का बड़े मार्मिक शब्दों में चित्रण किया है—

आश्रव बंध विभाव—
करू रुचि आपणी ।
भूल्यो मिथ्या वास—
दोष धू पर भणी ।

पार कर्मों को कर के पाप संस्कारों के बंधन से अपना
स्वरूप भूलकर उल्टे काम में करता हूँ । उल्टे कामों का उल्टा

ही परिणाम होता है । तब इसका दोष मैं दूसरों को देता हूँ ।
आह ! कैसा आत्म प्रकाश है ?

अवगुण ढांकण काज करू जिन मत क्रिया,
न तज् अवगुण चाल अनादिनी जे प्रिया ।
दृष्टि रागनो पोष ते समकित हूँ गणु,
स्यादवाद नी रीत न देखुं निजपणुं ॥

यहाँ तो श्रीमान ने बहुत सीधे सादे शब्दों में अपना साग दिला खोल दिया है—सम्यक्त्व का लक्षण है—सच्चा सो मेरा—पर हमारी दशा इसके विपरीत हो रही है—मेरा सो सच्चा—। जीवन निरूपण में स्याद्वाद से—सबकी अपेक्षा समझने की शक्ति पैदा हो तभी परमपद का अनुगमन होता है ।

वारहवें श्रीचद्राननप्रभु के स्तवन में समाज की वर्त्तमान दशा का चित्रण कितना स्वाभाविक किया है—

द्रव्य क्रिया रुचि जीवडा,

भाव क्रिया रुचि हीन ।

उपदेशक परम तेहवा,

शु करे जीव नवीन ॥ चद्र० । ३ ॥

प्रायः जीव भाव क्रिया से हीन दिखावटी क्रिया की रुचिवाले हैं । उपदेशक भी उसी ढंग के हैं इस हालत में जीव क्या नवीनता पैदा कर सकता है ।

इसी स्तवन में गुरु और धर्म की वर्त्तमान विडंबना दिखाते हुए वाडाबधी के लिये कुछ नाराजगी भी- प्रदर्शित की है—

गच्छ कदाग्रह साचवे
 माने धर्म प्रसिद्ध ।
 आत्म गुण अकषायता
 धर्म न जाणै शुद्ध ॥ चद्रा ॥

तेरहर्ने चन्द्रबाहु भगवान के स्तवन मे श्रीमान् ने भगवान जब कि वीतराग हैं, भक्त और विरोधी पर समान भाव वाले हैं, तो उनकी पूजा वंदना से क्या लाभ ? इस प्रश्न का सुन्दर जवाब दिया है—

परमेश्वर आलबना,
 राच्या जेह जीव ।
 निर्मल साध्यनी साधना,
 साधे तेह सदीव ॥ चंद्र० ॥

वीतराग परमेश्वर की पूजा, वंदना भक्ति के आलबन को जो जीव स्वीकारते हैं वे कर्ममल रहित मोक्ष साध्य की साधना साधते हैं ।

चौदहवें श्री भुजग स्वामी भगवान के स्तवन में श्रीमान् आत्म द्रव्य के सामान्य विशेष गुण-पर्यायों की विवेचना करते हुए जड़ चेतन का सुन्दर विवेक कराया है—

जड द्रव्य चतुष्के हो
 कर्ता भाव नहीं ।
 सर्व प्रदेशे हो के,
 वृत्ति विभिन्न कही ॥ २ ॥

चेतन द्रव्यने हो के,
सकल प्रदेश मिले ।
गुण वर्त्तना घर्त्ते हो के
वस्तुने सहज षले ॥ ३ ॥

धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और
पुद्गलास्तिकाय ये चार जड़ द्रव्य हैं । इन चारों जड़ द्रव्यों में
कर्त्तृत्व भाव नहीं है । जड़ द्रव्यों के प्रत्येक प्रदेश में
जुदी २ वृत्तियां हैं । पर चेतन द्रव्य में सारे प्रदेशों में
एक वृत्ति की ही वर्त्तना होती है । इसमें कारण केवल
वस्तु का अपना धर्म ही है । वस्तु स्वरूप समझाने की कितनी
सुन्दर सारणी है ।

पन्द्रहवें श्रीईश्वर स्वामी तीर्थकर के स्तवन में श्रीमान् ने
भगवान् को अनंत शक्तिमान् बताते हुए जैनेतरों के मान्य
सर्वशक्तिमत्त्व विशेषण को अमान्य किया है—

कर्त्ता भोक्ता हो भाव
कारक ग्राहक हो ज्ञान चारित्रता ।
गुण पर्याय अनत,
पाम्या तुमचा हो पूर्णता ॥

भगवान् के अपने गुण और उनकी अवस्थाएं अनंत
पूर्ण होती हैं । संसार के सब पदार्थों की शान्ति का उनमें
अभाव होता है । सर्वशक्तिमत्ता के रहते संसार में दुःख
संताप आदि बने रहते हैं तो दो बातें सिद्ध होती हैं ।

पहली बात या तो विशेषण गलत है, या ऐसा कोई भगवान नहीं है। दूसरी बात अगर है तो वह निर्दयी या कंजूस है जिससे कि सर्वशक्ति के रहते शक्ति का सदुपयोग नहीं करता।

सोलहवें श्री नमिप्रभु स्वामी के स्तवन में श्रीमान् ने नवतन्त्रों का विवेचन-कर्मवाद का स्वरूप और परमात्मा पद की विशेषता बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त की है।

सतरहवें श्री वीरसेन भगवान के स्तवन में श्रीमान् ने ध्याता ध्यान और ध्येय की विशिष्टता बताने में कमाल कर दिया है।

अठारहवें श्री महाभद्र भगवान् के स्तवन में भगवान के आध्यात्मिक साम्राज्य का वर्णन रूपकों में किया है। जिसमें क्षात्रिक अनंत वीर्य शक्ति अव्याबाध-समाधि कोश-स्वजाना, गुण सपत्ति से हरे भरे असंख्यात प्रदेश, चारित्र्य रूप किला, क्षमादिक धर्म-गुणों का सैन्यबल, आचाब उपाध्याय, साधु श्रावक आदि अधिकारी, सम्यग्दृष्टि जीवरूप प्रजा को बताने में श्रीमान् ने अपना ललित-कौशल व्यक्त किया है।

उन्नीसवें श्री देवजसा भगवान के स्तवन में प्रभु दर्शन की लालसा, प्रभु के प्रति अनन्य प्रेमानुराग, व्यक्त करते हुए अपनी दशा का विचार और सम्यग्दृष्टि देवताओं से प्रार्थना बड़े मार्मिक भावों में की है—जैसे—

होवत जो तनु पांखड़ी

आवत नाथ हजूर लाल रे ।

जो होती चित्त आंखड़ी

देखत नित्य प्रभु नूर लाल रे ।

अपने स्नेही से मिलने के लिये शरीर में पाखों की मांगनी तो दुनियां करती है पर चित्त में आंखों की मांगनी करना श्रीमान् की अनुपम सुभक्त का ही परिणाम है ।

शासन भक्त जे सुरवरा,

विनवूँ शीष नमाय लाल रे ।

कृपा करो मुक्त उपरे,

तो जिन वदन थाय लाल रे ।

बीसवें श्री अजितवीर्य भगवान के स्तवन में श्रीमान् ने अमृत क्रियानुष्ठान बताते हुए भव्यात्माओं को अमृतत्व के दर्शन कराये हैं—

जिन गुण अमृतपान थी रे मन० ।

अमृत क्रिया सुपसाय भवि० ।

अमृत क्रिया अनुष्ठान थी रे मन० ।

आत्म अमृत थाय रे भवि० ।

भगवान् के गुण अमृत पान से अमृत क्रिया को करके आत्मा अमृत हो जाता है । कितना सीधा रास्ता है ।

श्री अरिहंत भक्ति की अपूर्वता दिखाते हुए श्रीमान् ने कितना ठीक कहा है—

नाथ भक्ति रस भाव थी रे मन० ।

तृण जाणुं पर देव रे भवि० ।

चितामणि सुरतरु थकी रे मन० ।

अधिकी अरिहंत सेव रे । भवि० ॥ ६

मायावी देवों को कुछ न मानते हुए अरिहंत की सेवा को चितामणि और कल्पवृक्ष से भी बढ़ कर मानी है । ऐसा करके श्रीमान् ने अपने अनुपम विवेक को व्यक्त किया है ।

इस प्रकार यह “विहरमान जिन स्तवन वीसी” एक आध्यात्मिक पुरुष के अनुपम आध्यात्मिक भावों से संपन्न जैन दर्शन की विशिष्टता को दिखाती है ।

इसकी रचना श्री सिद्धाचल तीर्थाधिराज पर चतुर्मास करते हुए श्रीमान् देवचंद्रजी महाराज ने की है । आपकी गुरु परंपरा आपने इसी वीसी के अंतिम पद में इस प्रकार दी हैं ।

खरतर गच्छ जिनचंद सूरिवर,

पुण्य प्रधान मुण्डो ।

सुमतिसागर साधुरंग सुवाचक

पीधो श्रुत मकरदो ॥ जिन० ॥

राज सार पाठक उपकारी

ज्ञान धर्म दिण्डो ।

दीपचंद्र सद्गुरु गुणवतः

पाठछ धीर गदंढो ॥ जिन० ॥
 देवचद्र गणि आतम हेते
 गाया वीस जिगांदो

x

x

x

इस वीसी के भावों को समझाने के लिये दाहोद के रहनेवाले श्रावक पंडित मनसुखलालजी के शिष्य श्रीसतोष चदजी ने गुजराती अनुवाद किया है जो साथ ही छपा है। अनुवाद भी बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है।

इस वीसी को पढ़ने पर अध्यात्म रुत, जैन दर्शन-नुरागी लोगों को भारी बोध लाभ प्राप्त होगा। श्रीमद्देव चन्द्रजी महाराज के साहित्य का विशिष्ट प्रकाशन अध्यात्म प्रसारक मंडल पदरा ने किया है। कुछ अपशिष्ट कृतिया-परिशिष्ट रूप में इस वीसी के पृष्ठ भाग में अत्रित है। इस पुस्तक का प्रकाशन करके भी प्रकाशकों ने एक प्रकार से दर्शन की ही सेवा की है। इसी प्रकार दर्शन सेवा का लाभ हमारा समाज को मिलता रहे यही एक अभिलाषा रखता हुआ--

उपाध्याय कवीन्द्रसागर

बीकानेर (राजस्थान)

॥ उँ नमः सिद्धेभ्यः ॥

॥ अथ श्री महोपाध्याय देवचंद्रजी विर-
चित्त विरहमान जिन स्तवनानि बालावबोध
सहित ॥

॥ दोहरा ॥

जयति ज्योति शुद्धात्मनी, करति परम
उद्योत; दूर करे सहु विघ्नभय, करे,
अखिल सबोध. (१)

दुःखहर सुखकर सद्गुरु, “श्री मनसुख”

मति पूर;

स्वपर समय ज्ञाता सदा, मम मति
करे सनूर. (२)

स्याद्वाद जिन वचनने वंडुं धरि सन्मान
हृदय वदन राखुं सदा, सहज लहुं
शुभ ध्यान. (३)

देवचंद्र मुनिवर रचित, स्तवन वीश
अभिराम;

विरहमाम जिनवर तणां, अति गंभिर
गुणधाम. (४)

पूर्ण अर्थ में नवि लह्यो, पण निजमति
अनुमान;

अथ लखुं हुं एहनो, हृदय धरि सन्मान. (५)

द्रव्यानुयोग दूरे करे, करम भरसनो खेल;
सुमति सखि आवी मले, लहे सुगुण
रंगरेल. (६)

शिवमगमां पग ते धरे, करे सुतत्त्व
विचार;

शिव संपति शाश्वत लहे, तरे सहज
संसार. (७)

ध्यावे ते पावे सदा, परम महोदय सार;
तिणे धरि थिर अप्रमत्तता, शिव साधो
जयकार. (८)

प्रथम श्री सामंधरजिन स्तवनं ॥ सिद्धचक्रपद
वंदो ॥ ए देशी ॥

॥ श्री सामंधर जिनवर स्वामी, वीनतणी
अवधारो ॥ शुद्ध धर्म प्रगटयो जे तुमचे,

प्रगटो तेह अम्हारो रे स्वामी, विनविणे
मन रंगे ॥१॥

अर्थ:-सहज अनंत सुख निधान शुद्धात्म परिणति, तेनो घात करनार मिथ्यात अज्ञान अने कषाय रूप अनादिकालना महान् शत्रुओने जेणे सम्यकपराक्रम वडे जीत्या छे ते "जिन" मां वर अर्थात् प्रधान-शिरोमणि तथा शारीरिक अने मानसिक अनंत असह्य दुःखना हेतुभूत आ भयानक ससार समुद्रमां परिभ्रमण करी दुःखी यता दीन जीवोनुं परम करुणाभाव वडे रक्षण करनार तथा अन्य जीवोने पण अहिंसानो उपदेश आपी तेओ पासे पण रक्षण करावनार तथा अबाध्य सिद्धांत वडे संमोचीन् मोक्षमार्गानो उपदेश करी आत्मिक सहज स्वतंत्र परमानंदना दातार होवाथी "स्वामी" तथा अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख अने अनंतवीर्यरूप आत्म लक्ष्मीना मालीक, देहातीत आत्मसत्ताभूमिमां निरंतर विरहमान हे श्री सी-मंथर देव ! आपने समर्थ जाणी आप प्रति अत्यंत उलसित चित्ते नम्रभावे विनंती करुंछु के सरस

संवर जलना, प्रवाह बडे ज्ञानावरणादि कर्म रूप
मल धोवाई जवाथी स्फटिक मणि समान अत्यंत
शुद्ध केवलज्ञान दर्शनात्मक जेस आपनो स्वधर्म
सर्वथा प्रगट-व्यक्त थयोळे, “तेमज अमारो पण
सत्तागते रहलो (ज्ञानावरणादि कर्म बडे लिप्त
थएलो) लोकालोक प्रकाशक अनंत सुखनिदान
आत्मधर्म संपूर्ण रीते प्रगट थाओ” ए उक्त विनंती
प्रार्थना हे भगवंत ! असो दीन उपर करुणाद्रष्टी
करी अवधारो-चित्तमां धारो ॥१॥

जे परिणामीक धर्म तुमारो, तेहवो अमचो
धर्म ॥ श्रद्धा भासन रमण वियोगे, वलग्यो
विभाव अधर्मरे ॥ स्वामी० ॥२॥

अर्थ:-सर्वे द्रव्य “उत्पाद् व्ययध्रौव्य युक्तं
सत्” लक्षणवंत होवाथी प्रति समये परमभाव
अनुयायी नवा नवा पर्याये परिणमे छे अर्थात्
वर्तमान पर्याय तीरोभूत थाय छे अने नूतन
पर्यायनो आवीर्भाव थाय छे अने द्रव्य ध्रुव रहे छे.
तेथी आपनो आत्म द्रव्य, ज्ञान दर्शन चारित्रादि
अनंत शुद्ध पर्याय रूप निरंतर परिणमे छे-सहज

परमानंदना अनुभवमां निमग्नपणे वर्ते छे. तेमज
अमारो आत्म द्रव्य पण कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध
द्रव्यार्थिक नये (शुद्ध संग्रह नये) आपना सदृश
सत्त वंत छे. “जारिस सिद्ध सहावो तारिस

भावो हु सव्व जीवाणं” तथापि अनादिर्था
कनकोपल न्याये अशुद्ध होवाथी शुद्ध परिणतिनी
श्रद्धा (प्रतीती), भासन (विज्ञान), रमण-आचरण
स्थिरताना वियोगथी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान,
मिथ्याचारित्र रूप अधर्मे परिणमे छे. अर्थात्
आत्माथी परवस्तु जे पुद्गल द्रव्यथी बनेला विल-
क्षण धर्मवंत शरीरमां, आत्मपणानी श्रद्धा करे छे.
तेनेज आत्म रूप जाणे छे तेथी ते पौद्गलीक भा-
वस पोताना आत्म परिणामने स्थित करे छे-तल्लीन
करे छे एटले पुद्गल द्रव्यमां इष्टानिष्ट कल्पना करी
अनिष्टने दूर करवामां अने इष्टने प्राप्त करवामां
तथा स्थिर राखवामां पोतानी आत्म परिणतिने
निरंतर रोकी राखे छे ॥२॥

वस्तु स्वभाव स्वजाति तेहनो, मूल अभाव
न थाय । पर विभाव अनुगत परिणतिथी,

कर्म ते अवरायरे स्वामी ॥ वि० ॥३॥

अर्थः—द्रव्य, अस्तित्व नास्तित्व स्वभावधत होवाथी अन्य द्रव्यनो परिणाम तेमां कदापि काले प्रवेश करी शके नहीं अने अस्तित्पणे रहेला जे अनंत अन्वय गुणो तेमांथी कोइनो पण कोई पण काले अभाव थाय नहीं कारण के द्रव्य मात्र द्रव्या-र्थिक नये नित्य छे अने “तदभावाव्ययं नित्यमं” एम नित्यनी व्याख्या श्री तत्त्वार्थ सूत्रमां प्रति-पादन करेल छे तथा वली “अणोणं पार्वसंता दिंता ओगास मण मणस्स । मेलंताविय णिच्चं, सग सग भावं ण विजहंति” ए न्याय अनुसार आत्मामां रहेला ज्ञान दर्शन चारित्रा-दिनो समूल अभाव थवानो बिलकुल असंभव छे तथा वली पंचास्ति द्रव्य मात्र उर्धता तथा तिर्यग-प्रचयवंत होवाथी पण तेमज सिद्ध थाय छे. परंतु अनादि अज्ञान वशे आत्म परिणतिने परकर्तृत्व, परभोक्तृत्व, परग्राहकत्व, परव्यापकत्व, पररमणता, परआधाराधेयता आदि परानुयायी पणे प्रवर्त्ताव-

थी शुद्धात्म परिणति ज्ञानावरणादि दुष्ट अष्ट
कर्मव अवराय छे—व्याघात पामे छे एम शुद्ध
परिणतिनो विद्योग रहे छे ॥३॥

जे विभाव ते पण नैमित्तिक, संतति भाव
अनादि । परनिमित्तते विषय संगादिक, ते
संयोगे सादिरे स्वामी ॥ वि० ॥४॥

अर्थ—मनोज्ञ अमनोज्ञ पुद्गलीक विषयमां
इष्टानिष्ट कल्पना करवाथी, धन धान्यादि सचित्त
अचित्त मिश्र परिग्रहमां ममत्व बुद्धि ग्रहणबुद्धि
करवाथी आत्मा राग द्वेष रूप विभावे परिणमे छे
तेथी ते विभाव नैमित्तिक छे तथा सादि सांत छे
तथापि प्रवाहे संतति अनादिनी छे. जेम आपणे
वर्तमान समये एक पुरुषने जोइये छिये ते पुरुष
तेना पिताबडे उत्पन्न थयेल छे तेथी ते आदि
सहित छे अने तेनो नाश पण छे तेथी ते पुरुष
सादिसांत भांगे छे परन्तु ते पुरुष तेना पिताथी
उत्पन्न थयो छे तेम तेनो पिता पण बली तेना
पिताथी उत्पन्न थयो छे एम तेनो वंश अनादि
सिद्ध छे ॥४॥

अशुद्ध निमित्ते ए संसरता, अत्ता कत्ता
परनो ॥ शुद्ध निमित्त मे जव चिदघन,
कर्ता भोक्ता घरनो रे स्वामी ॥ वि० ॥५॥

अर्थः-ज्ञानावरणादि कर्म उदय रूप अशुद्ध
निमित्त पामी अज्ञान मिथ्यात कषाय रूप अशुद्ध
परिणामे परिणामी भव समुद्रमां संसरण-परिभ्रमण
कर्ता आत्मा परद्रव्यादिकना कर्तापणानुं ममत्व,
अभिमान करेछे अर्थात् मे असुक जीवने मारयो,
असुकने उगारयो, असुकने सुखी करयो, असुकने
दुःखी करयो ने असुक राखयो, असुकने चलाव्यो
तथा घटपटादिक में बनाव्या अथवा घर हाटादिकनो
में नाश करयो, असुक इष्ट पदार्थोनो में लाभ
मेलव्यो, तेअने में माहरा भोगमां लीधा. तेऊने
में राख्या, दूर जवा नहि दीधा, असुक वस्तु में
शुभ मनोज्ञ करी, असुक वस्तु में अशुभ अमनोज्ञ
करी. एम हुं करुं छुं, भविष्यतमां एम करीश ए
आदि पुद्गल रूप त्रण योगनी, क्रियामां ममत्व
करे छे एम अज्ञान वशे पर द्रव्यादिकनो कर्ता बनी
पुनः ज्ञानावरणादि नष्टां कर्म बांधे छे अने चली ते

बांधेला कर्मना उदय काले पण जपर प्रमाणे वस्ती पुनः ज्ञानावरणादि कर्म बांधे छे. एम परना कर्ता-पणानुं ममत्व करी निरंतर सात आठ कर्म बांधती आ संसार समुद्रमां परिभ्रमण करे छे अने जन्म जरा मरण तथा रोग शोक भय आदि अनेक दुःसह दुःखनो असाप भार पोताना शिरऊपर उपाडी ले छे.

पण ज्यारे सम्यक्ज्ञान सम्यक्दर्शन सम्यक्-चारित्र रूप शुद्ध निमित्तमां रमण करे अर्थात् तेमां तल्लीन थाय, पोतानी आत्म परिणतिने तेमां स्थित करे, पर द्रव्यादिथी उदासिन्न वृत्ति धारण करे त्यारे पोतानाज स्वभावनो कर्ता भोक्तादि थाय, निर्मल प्रशमरतिनो विलास पामे अने राग स्नेहथी रहित वर्तवाथी कर्म रूप रज तेने स्पर्श करवा पामे नहि तथा पूर्वे बांधेला संचित कर्मनो क्षय निर्जरा थाय ॥६॥

जेहना धर्म अनंता प्रगटथा, जे निज परिणति वारिया ॥ परमात्म जिन देव अमो-ही, ज्ञानादिक गुण दरियारे स्वामी० ॥६॥

अर्थः—आत्मानो परमभाव जे ज्ञान, तदनु-
 श्यायी दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, कर्तृता, भोक्तृता,
 आहकता, व्यापकता, रक्षणता, रमणता, आ-
 चाराधेयता विगरे अनंत स्वधर्मो जे अनादिकालथी
 कर्ममलबडे लिस थएला हता-बाधक भावे परिण-
 मता हता, ते शुक्लध्याननी तिक्षण आंच घडे
 कर्ममल भस्म थइ जबाथी संपूर्ण प्रगट थया अर्थात्
 निराबाध—स्वतंत्र पणो पांतपोताना कार्यभावे
 परिणमवा लाग्या एटले शुद्ध परिणति रूप अनु-
 पम लक्ष्मीने वरया—तेना स्वामी थया. तेज
 परमात्म जिनेश्वर देव, क्रोध मान माया लोभ आदि
 भोन हीय कर्मनी अठावीश प्रकृतिथी रहित तथा
 ज्ञानादिक गुणना दरिया अर्थात् ज्ञानादि गुणना
 अखूट निधान छे. एटले जेम दरियामांथी जल
 खूटे नहि तेम तेमनामांथी कोइ पण काले ज्ञानादि
 गुणो—पर्यायो खुटवाना—क्षीण थवाना नथी, अनंत-
 काल सुधी एक सरखी रीते परिणम्यांज करशे ॥६॥

अवलंबन उपदेशक रीते, श्री सामंथर
 देव । भजीये शुद्ध निमित्त अनोपम, तजीये

भव भय देवरे स्वामी ॥ वि० ॥७॥

अर्थ-श्री सीमंघर देवमां साध्य पद पूर्ण पणे प्रगट होवाथी तेज पुष्ट-अनुपम निमित्त हेतु छे (साध्य साध्य धर्म जेमांहे होवे रे ते निमित्त अति पुष्ट, तथा च-पुष्ट हेतु जिनेंद्रोय, माक्ष सद्भाव साधने) तथा सर्वज्ञ अने वीतराग होवाथी प्राप्तमोक्षमार्गना साक्षा उपदेशक तथा सर्व आत्मरिद्धि संपूर्ण पणे प्राप्त होवाथी परम आधार भव समुद्रमां वृद्धता भव्य प्राणीयोने जहाज समान, भवाटवीमां सथ्यवाह समान छे. न्याय पूर्वक एम सिद्ध होवाथी तेउनी भक्ति करीये अर्थात् तेमनी आज्ञा आपणा शिर उपर चढावीए सन्मानीये. कथुं छे के "आणाकाशी भक्तो, आणा छेइऊ अभक्तात्ति" माटे तेमनी आणा प्रमाणे वर्तीए. मिथ्यात, अज्ञान, कषाय, प्रमाद, अबिरति रूप भयंकर भव भ्रमणनी देवनो त्याग-परिहार करीये ॥ ७ ॥

शुद्ध देव अवलंबन करतां, परिहरीये

परभाव । आत्म धर्म रक्षण अनुभवतां,
प्रगटे आत्म भावरे स्वामी० ॥८॥

अर्थ-जे अज्ञान कषाय विषय आदि दूषणोथी भरपूर छे अर्थात् जे सर्वे द्रव्यना त्रिकालवर्ती पर्यायोने हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष पणे जाणी शकता नथी, पोताना आत्म द्रव्यने पण सर्व नथे प्रत्यक्ष पणे जाणता नथी तथा तैथी पोतानी आत्म रिद्धि थी परांगमुख होवाथी निरंतर जे विषय कषायने आधिन वर्ते छे. चाह दाहमां प्रज्वलीत थइ रह्या छे, भव समुद्रसां बूडेल छे तैसां देवपणुं केम मनाय पण जे अज्ञान आदि समस्त अधर्म रूप दूषणोथी सर्वे नथे मुक्त होवाथी परम निष्कलंक शुद्ध देव छे. ते श्री सीमंधर स्वामीनुं शरण ग्रहण करतां पर-द्रव्यनी ममता, ग्राहकता, रमणता आदि सम्स्त परभावनो परिहार-त्याग थाय अने ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप शुद्धात्म भावमां रमण करतां--तेमां तल्लीन थतां-तृप्त थतां--संतुष्ट थतां--तेनो आस्वा-दन अनुभव लेतां ज्ञानादि आत्म धर्म, कमे लेपथी रहित-शुद्ध प्रगट थाय ॥ ८ ॥

आत्म गुण निरमल नीपजतां, ध्यान
समाधि स्वभावे ॥ पूर्णानंद सिद्धता साधी,
देवचंद्र पद पावेरे स्वामी० ॥ ९ ॥

अर्थ-शुद्ध साध्य सन्मुख लक्ष राखी (यस्मात्
क्रिया प्रति फलन्ति न भाव शुन्या) धमे
शुक्लध्याननुं सेवन करतां तज्जन्य समाधिमां लीन
यतां आत्म गुण निर्मल अर्थात् मल रहित परम-
पवित्र थाय. एम पूर्णानंदमय सिद्ध पद साधी
देवमां चंद्रमा समान अर्थात् देवाधिदेवपदने प्राप्त
थइए ॥ ६ ॥

॥अथ द्वितीय श्री युगमंधर जिन स्तवन ॥
नारायनी देशी ॥

श्री युगमंधर विनवुरे, विनतडी अवधाररे
दयालराय ॥ ए पर परिणति रंगथारे, मुजने
नाथ उगाररे ॥ द० श्री० ॥१॥

अर्थ-प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण.

અદત્તાદાન વિરમણ, મૈથુન વિરમણ તથા પરિગ્રહ સંગ્રહ વિરમણ રૂપ પંચમહાવ્રત તથા ક્ષાંતિ, માર્દવ, આર્યષ, મુંત્તિ, તપ, સંયમ, શૌચ, સત્ય, અર્કિંચન તથા બ્રહ્મચર્ય આદિ સર્વે ધર્મોમાં અનુવૃત્તિ ધરાવનાર અહિંસા-દયા ધર્મ છે. જેમાં સર્વે ધર્મનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ઉક્તંચ-સઠ્ઠાઠાંબિ નડ્ડં, જહ સાયરંમિ નિવડંતિ । તહ ભગ, વર્ડ અહિંસિં, સઠ્ઠે ધમ્મા સમિહ્હન્તિ ॥ તથા જેને સર્વ મતાવલંબીઠં સ્વિકારે છે-સન્માને છે “અહિંસા પરમો ધર્મ, હિંસા સર્વત્ર ગર્હિતા” પરન્તુ જૈન શિવાય અન્ય મતાવલંબીઠં અહિંસા-દયામાં વર્ત્તી શકતા નથી કારણ કે તેઠં હિંસ્ય હિંસા તથા હિંસાના કારણોને યથાર્થ સંપૂર્ણ ંલ્લખતાં નથી.

સર્વજ્ઞ તીર્થંકર દેવ દ્રવ્યહિંસા તથા ભાવહિંસા એમ હિંસાનાં બે પ્રકાર પ્રરૂપે છે-૧૫થીકાય, અપકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને ઘનરૂપતિકાય એમ પંચ સ્થાવરકાયિક એકેંદ્રિ જીવો તથા ષેંદ્રિય આદિ ત્રસ જીવોનાં પાંચ ંદ્રિયો, મનોબલ, વચનબલ, કાયબલ,

श्वासोश्वास तथा आयुप्राण ए दश द्रव्यप्राणने
 मारवुं, कापवुं, छेदवुं, दुःखवुं तथा तेनो बियोग
 करवो ते द्रव्यहिंसा छे, पोताना द्रव्यप्राणनी हिंसा
 करवी ते स्वद्रव्यहिंसा अने अन्य जीवना द्रव्य-
 प्राणनी हिंसा करवी ते परद्रव्यहिंसा छे तथा ते
 कायमां ममत्त्व करी रहेला जीवोना ज्ञान, दर्शन,
 चरित्र, तप, वीर्य उपयोग विगेरे भावप्राणनो
 मिथ्यात, अज्ञान तथा कषाय घडे घात करवो ते
 भावहिंसा छे अर्थात् मिथ्योपदेशादिवडे कोइ
 जीवना दर्शनगुणना घात करी मिथ्यास्व रूप परिण-
 माववो, सम्यकज्ञानथी चूकावी अज्ञान रूप परिण-
 माववो तथा क्षमा गुणनो घात करी क्रोध रूप
 परिणमाववो तथा विनय गुणनो घात करी मान
 रूप परिणमाववो तथा आर्यव (सरलता) गुणनो
 घात करी मायारूप परिणमाववो मुक्ति गुणनो घात
 करी लोभ रूप परिणमाववो, ए विगेरे तेनी शुद्ध
 परिणतिनो घात करी अशुद्ध परिणामे परिणमाववो
 ते भावहिंसा छे. तेमां पोताना भावप्राणनी सिंहा
 करवी ते निजभाव हिंसा छे अने परजीवना भाव-
 प्राणनो हिंसा करवी ते परजीव भावहिंसा छे अने

मिथ्यास्व, अविरति, कषाय, प्रमाद तथा योगेन
सेवन करवुं ते हिंसानां कारणो छे ते कारणो सेव-
वाथी हिंसा थाय छे कहुं छे के “कारण जोगे

कारज निपजेरे, एहमां कोइ न वाद । पण कारण
विणुं कारज साधीए रे, ते निज मति ऊन्माद”

एम स्याद्वाद नय युक्त जिन प्ररूपित द्रव्यहिंसा
तथा भावहिंसाना स्वरूपथी अजाण तथा तेना
कारणोथी अजाण मिथ्याद्रष्टी जीवो एक समय
मात्र पण अहिंसाभावमां वत्ती शकवाने अपमर्थ
छे तथापि मोहमद्यमां बेभान थयेला हिंसामां
वर्त्तता छतां हमे दया पालीए छीए-दयालु छीए
एम पोताना जीव्हाग्रथी जल्पना तथा मनमां
कल्पना करे छे पण तेथी शुं ? सांची दया पाल्या
शिवाय तेना परमोत्तम फल मोक्ष सुखने पामी शके
नहि ।

पण जे स्याद्वाद नय युक्त जिन प्ररूपित द्रव्य-
हिंसा तथा भावहिंसाना स्वरूपनुं तथा तेना कार-
णोनुं सम्यक्ज्ञान धरावे छे-जे परमोत्तम फलना
उत्सुक छे हिंसानुं फल जे भवभ्रमण तेथी उद्विग्न

भयभीत है एवा सम्पक्द्रष्टी जीवोज अहिंसा मां
 वर्ती शकवाने, समर्थ है “(पदमं नाणं तउं-
 दया)” जे जे अंशे अहिंसाभावमां वर्ती छे तेने
 तेदला अंशे अहिंसक कहिए भाटे बोधा गुणस्था-
 नथी मांडी उपला उपला गुणस्थामोमां अहिंसक-
 दशा नय प्रमाण अधिकी अधिकी वर्ती छे पण हे
 भगवंत ! आप हिंसाना सर्वे कारणोथी दूर वर्ती
 होवाथी सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वदा अहिंसक भावमां
 वर्ती, छो राग द्वेष रहित होवाथी सर्वे जीवो
 ऊपर एक सरखी रीतें दया राखोछो, तेथी सर्वे
 दयालु जीवोमां आप राजा समान शिरोमणि छो,
 तेथी हे दयालुराय श्री गगनधर स्वामी ! कल्याण
 निधान तथा समर्थ जाणी आप प्रति चिन्तनी
 उचारुं छुं कारणके दयालु तथा समर्थ होय तेज
 सेवकनी चिन्ति मनोर्थने परिपूर्ण करे आटे मुज
 सेवकनी चिन्तनी कल्याण भावे चित्तमां धारी—“ए
 परपरिणति रंगथी मुजने नाथ उगार”- हे नाथ !
 हे स्वामी ! अनादि विभाव वशे पुद्गल पर्याप
 जे शरीरादिक लेमां अहंपणुं मानी छे ऊपर अत्यंत
 राग करी लेमां तद्धीन थड गयो छुं तथा ते शरी-

रादिकने प्रशस्त-हितकारी कुटुम्बी जनो मित्रबर्ग
 नोकर चाकर तथा धन धान्य मणि औषधी आ-
 शास आदि अनेक पुद्गल पर्यायोमां तथा पंचेंद्रिना
 अनेक मनोज्ञ विषयमां राग वशे तल्लीन थइ रह्यो
 छुं, तेने मेलववा राखवा साटे अनेक प्रयास करूं
 छुं, अनेक विकल्प जाल रचु छुं, तेनी तृष्णारूपा
 आगभां निरंतर प्रज्वलित थाऊं छुं, तेनो वियोग
 धाय ते साटे भय भोगवु छुं, तेना वियोगे शोरू
 संताप आक्रंद विगेरेनो भोक्ता बनूं छुं, अने पोतानी
 सहज अनंत स्वतंत्र, अप्रथग् भूत स्वक्षेत्रवर्ती
 अविनश्वर सुख निदान आत्म परिणतिथी वियोगी
 रहूं छुं साटे हे भक्त वत्सल प्रभु ! एवी दुष्ट परप-
 रिणतिना रंगथी मुजने हवे शीघ्रमेव उगारो ॥ १ ॥

कारक ग्राहक भोग्यताये, में कीधी महा-
 राथरे, दयालराय ॥ पण तुज सरीखो प्रभु
 लहीरे, साची वात कहाथेरे, दया० ॥२॥

अर्थ--सर्वे द्रव्यो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व,
 प्रमेयत्व अगुरुत्वघुत्व अने सत्त्व स्वभाषवंत होवा-
 धी पोताना गुणपर्यायोना कर्ता, ग्राहक, व्यापक

आदिपणे पोतानी सत्ताभूमिमां सर्वदा वर्त्ते छे,
 तथा वली “क्षेत्र काल भावानाम् एक समुदा-
 यित्वं द्रव्यत्वम्” क्षेत्र काल भावनं एक समुदा-
 यिपणुं ते द्रव्यत्व छे माटे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव
 परस्पर अभेद छे- अप्रथग भूत छे तेथी कोइ द्रव्य
 बीजा द्रव्यना क्षेत्र काल भावमां प्रवेश करवा
 सर्वथा असमर्थ छे माटे निश्चय नये कोइ द्रव्य
 अन्य द्रव्यनो कारक कर्ता, भोक्ता, ग्राहक, व्यापक,
 आधार, आधेय विगरे थइ शकै नहि, तथापि जीव-
 मां अनादि विभाव स्वभाव होवाथी हुं मिथ्यात
 अज्ञान वशे परपरिणति-पुद्गल पर्यायी विषे कर्ता
 भोक्ता, ग्राहक, व्यापक आदि बुद्धि करी मारी
 आत्मीक स्वतंत्र रिद्धिथी वियोगी रख्यो पण हे
 युगमंभर स्वामी ! आपने संपूर्ण नये पोताना परि-
 णामना कर्ता, ज्ञाता तथा तेमांज रमण करनाइ
 तथा तेनोज आस्वादन-अनुभव लेनार होवाथी
 साधा प्रभु जाणी आप प्रति हुं मारी साथी कथा
 निवेदन करुं छुं ॥ २ ॥

यद्यपि मूल स्वभावमेरे, पर कर्तृत्व

विभावरे ॥ दयालराय ॥ अस्ति धर्म जे माह-
रेरे, एहनो तथ्य अभावरे ॥ दयाल-
राय ॥ श्री० ॥ ३ ॥

अर्थ-अनादि कालथी जां के माहरा ज्ञान
दर्शन चारित्ररूप आत्म गुणमां परकर्तृत्वादि विभा-
वनो सरलेश थयेलो छे तेथी हुं अनादिकालथी
परकर्तृत्वादि विभाव रूप परिणमुं छुं तो पण सत्ता-
गते रहेला माहरा अस्तिधर्ममां-सामान्य स्वभाव-
मां खाखर ते विभावनो अभाव छे कारण के सा-
मान्य स्वभाव सदा निगवरण छे; माटे जो हुं मा-
हरा अस्तिधर्म तरफ लक्ष आपुं तेने प्रगट करवा
रुचि धरुं तो निश्चय कर्मजन्य उपाधि रूप विभा-
वनो समूल नाश करी संपूर्ण शुद्ध सुखनिधान
अस्तिधर्मनो भोगी थांड, सादिअनंतकाल सुधी
ए अवस्थामां अवस्थित रहुं ॥ ३ ॥

पर परिणामिकता दशारे, लहि पर कारण
योगरे, दयालराय ॥ चेतनता परगत थईरे,
राची पुद्गल भोग रे, दयालराय ॥ श्री० ॥ ४ ॥

अर्थ-ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा भावकर्मना उदय वशे पर परिणामिक दशाने प्राप्त थयो छुं, अर्थात् पर द्रव्यना परिणामने पोतानो परिणाम मानुं छुं एटले मन खचन अने कायानी क्रियाने आत्म क्रिया मानुं छुं तेथो मारी चेतनता पर परिणाम-मां व्यापी-परगत थई-पुद्गल पर्यायोने भोगववा-मां राची-आत्मक्त थई-लीन थई-त्यांज स्थित थई तेथी आत्म परिणामनो भोग लेवा अषकाश मल्यो नहीं ॥ ४ ॥

अशुद्ध निमित्त तो जड अत्रेरे, वीर्य शक्ति विहोनेरे ॥ ६० ॥ तुं तो वारज ज्ञानयारे, सुख अनंते लीनेरे ॥ ६० ॥ श्री० ॥ ५ ॥

अर्थ-आत्माने अशुद्ध परिणामे अर्थात् अज्ञान, मिथ्यात अने कषाय रूप परिणमवामां शुभाशुभ कर्मोदय वडे पुद्गल द्रव्य गुण पर्यायनो संबध ते निमित्त छे पण ते शुभाशुभ कर्मोदय, जड-चेतनता रहित तेमज वीर्य शक्ति रहित होवाथी तेउं आत्माने अशुद्ध परिणामे परिणमाववामां पोतानी मेले कारण बनवाने असमर्थ छे, तथा कारण पद तो

उत्पन्न पर्याय छे माटे ज्यारे कर्ता कार्य साधवानो रुचीवंत थइ तेने निमित्तमां वापरे त्यारे तेमां कारण पद उत्पन्न थाय छे. “ए कारका कर्तृराधिना” जो आत्मा प्रमाद भावमां वर्त्ते तो ते शुभाशुभ कर्मोदय अशुद्ध परिणामनुं निमित्त थाय पण पोते सचेत थइ पोताना शुद्ध कार्यनो कर्ता थाय त्यारे कारकचक्र सुलटे अने शुभाशुभ कर्मोदये अशुद्ध परिणामे परिणमे नाहं तो ते पुद्गलो निमित्त पण थइ शके नहि. जेम कुंभार घट कार्यनो रुचिवान थाय नहि, तथा दंड चक्रादिने ते घट कार्य साधवामां वापरे नहि, तो दंड चक्रादि तेवारे घट कार्यना निमित्त कहेवाय नहि. पण हूं अनादि विभाव वशे राग द्वेषे परिणमवानी द्रढ टेबथी ते पुद्गल जडमां कारण पद उत्पन्न करी अशुद्ध परिणामे परिणामुं छुं, तेथी आत्मिक शुद्ध कार्य करवामां आत्म वीर्य अस्यंत हीन थइ रह्ये छुं, अर्थात् अनंतज्ञान अनंत-दर्शन अनंतसुखरूप अनुपम आत्म व्यक्तिथी रहित कंगाल बनी अस्यंत पराधिन, दरिद्र-दयामणि अवस्थाने भोगवुं छुं पण हे प्रभु ! तमे तो अनंत ज्ञान वीर्यना परिपूर्ण पणाथी—पूर्ण व्यक्तिथी सहज,

अकृत्रिम, स्वतंत्र, एकांतिक, अंतातीत, अव्याबाध
 आत्मीक सुखमां लीन-संतुप्त-निमग्न थइ रह्या
 छो ॥ ५ ॥

तिण कारण निश्चय करथो रे, मुज निज
 परिणति भोगरे । द० । तुज सेवाथी नीप-
 जेरे, भांजे भव भय शोगरे ॥द० ॥ श्री० ॥६॥

अर्थ-तेथी न्याय युक्त ज्ञानद्रष्टिथी मने एवो
 निश्चय थयो छे के हे भगवंत ! कर्म रूप रजथी
 सर्वथा निर्लेप स्फटिक समान तमारा संपूर्ण, निर्मल
 पवित्र गुणोनुं सेवन करतां-भक्तिकरता माहरी आत्म
 परिणति रूप अबाध्य अखूट स्वतंत्र पूर्णानंदमय
 सहज आत्म संपदाना भोगनी मने प्राप्ति थशे
 तथा. "भांजे भव भय सोग" अनादि कालथी
 चार गतिरूप भवसमुद्रमां अज्ञान वशे अनेक
 दुःसह दुःखो तथा तज्जान्य भय, शोक, संताप,
 आक्रंद विगेरे सहं छुं, तेनो सहज लीलामात्रमां
 नाश थशे ॥ ६ ॥

शुद्ध रमण आनंदता रे, ध्रुव निस्संग

स्वभाव रे ॥ द० ॥ सकल प्रदेश अमूर्त्ततारे,
ध्यातां सिद्धि उपायरे ॥ द० ॥ ७ ॥

अर्थ-अचल, अबाधित, निरावरण, शुद्ध
परमात्म पद रमण-अनुभवजन्य आनन्दने तथा
पोताना ध्रुव अर्थात् पोताना द्रव्य क्षेत्र काल भावे
सदा सत् (द्वयं गुण समुदाय, स्थितं ओगाह
वदृणा कालो । गुण पञ्चाय पवति भावो
निश्च वत्थु धम्मो सो) अनंत अन्वय गुणना
पिंड तथा निस्संग-सकल परभाव, परिग्रहथी
अस्तीत एवा आत्मभावने तथा अलेशी, अस्पर्शी,
अगंधी अवर्णी, अरसी, अक्रोधी, अमायी, अमानी,
अलोभी, अवेदी आदि अनेक व्यतिरेक गुणना
समूहरूप सकल प्रदेश अमूर्त्ति पिंड आत्म द्रव्यने
सर्वे परद्रव्यनी मूर्च्छाथी पोतानी आत्म परिणति
वारी पोतानी आत्म भूमिमां स्थित करी-लीन
करी पोतानी सर्वे वीर्य शक्ति एकत्र करी एकाग्र
चित्ते ध्यातां अमूर्त्त परमात्मपदनी सिद्धि थाय-
ध्याता ध्येयनी एकता थाय ॥ ७ ॥

सम्यक् तत्त्व जे उपदिश्योरे, सुणतां
 तत्त्व जणायरे ॥६०॥ श्रद्धा ज्ञाने जे ग्रह्योरे,
 तेहिज कार्य करायरे ॥६०॥ श्री० ॥८॥

अर्थ—द्रव्यना सर्व पर्यायना ज्ञान विनाना
 एकांत वादीयो (मिथ्या वादीयो) (एकांते होइ
 मिथ्यतो) ना विडंबनारूप भव भ्रमणना हेतुभूत
 दुर्नयधी परिपूर्ण अज्ञान जन्य सिद्धांतधी उपजता
 अज्ञानरूप अंधकारना समूहनो नाश करनार
 सकलनय तथा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणधी अबाधित
 स्याद्वाद युक्त, अव्याप्ति अतिव्याप्ति तथा
 असंभवादि सकल दूषणो रहित जीवादि तत्त्वोनुं
 सत्य स्वरूप प्रतिपादन करनार जिनेश्वरना परम
 कल्याणकारी वचनो श्रवण मनन निधिध्यासन
 करतां शंसय विपर्यय अने अनध्यवसाय रहित
 तत्त्व स्वरूपनु सम्यक्ज्ञान थाय अने सम्यक्दर्शन
 सम्यक्ज्ञान युक्त जो आत्म स्वरूप जाणीये—
 ग्रहण करीये तोज परमात्म सिद्धिना साधक वनी
 शकीए ज्यांसुधी आत्मद्रव्यनु सम्यक्ज्ञान सम्यक्
 दर्शन थयुं नथी त्यांसुधी आदरेलुं चारित्र ते सम्यक्
 विशेषणने प्राप्त थइ शके नहि अने सम्यक्चारित्र

विना कदापि काले मोक्षनी प्राप्ति थइ शके नहि.
 कह्युं छे के “विरथा सावइज्ञाउं, कषाय हीणा
 महव्वय धरावी । सम्मदिठी विहूणा, कयावि
 सुखं न पावंति” तथा “ नयगम भंग
 पमाणेहि, जो अप्या सायचार्य भावेण ।
 मुणइ मोख्ख सख्वं समादिट्ठ सो नेउं” ॥८॥

कार्यं रुची कर्त्ता थयेरे कारक सवि
 पलटायरे ॥ ८० ॥ आतम गते आतम रमेरे,
 निज घर भंगल थायरे ॥ ८० ॥६॥

अर्थ-ज्यांसुधी जीव मिथ्यात गुणस्थाने बर्त्ते
 छे-सम्यक्दर्शननी प्राप्ति थइ नथी, त्यांसुधी
 अनात्म वस्तुमां आत्मबुद्धि-अहंपणुं माने छे
 अर्थात् पुद्गल स्कंधोधी बनेलुं चैतन्यशून्य जे शरीर
 तेमां लोलीभूतपणे परिणमि पोतानुं आत्म अंग
 माने छे तथा ते शरीरने जे प्रशस्त, हितकारी
 पदार्थो-स्त्री धन कुटुंबादिने पोतानां हितकारी
 माने छे, तैजंमां रागरसे रीके छे. संसार भ्रमण
 परिपाटीने वधारे छे (जो अपसत्थो रागो, वहुई
 संसार भ्रमण परिवाडी । विसयाइसु सयणा-

इसु ईठत्तं पुग्गलाईस) अने ते शरीरादिने पोता
ना साध्य जाणी निरंतर तेने साधवा माटे अनेक
प्रयास करे छे-तेनेज पोतानुं कार्य जाणे छे एम
अज्ञान वशे पोते पर कर्तृत्व भावे परिणमे छे. तेथी
कारकचक्र शुद्ध स्वभावथी विरुद्ध बाधकभावे
परिणमे छे. पण ज्यारे आत्मा योग्य कारण वडे
सम्यक्ज्ञाननो लाभ पामे, अनंत परमानंदमय
संपूर्ण सुखना हेतु परमात्म पद रूप पोताना शुद्ध
साध्यने उलखे, न्यारे पर साध्य तरफथी अरुची
थाय अने पोतानुं शुद्ध साध्य साधवानी रूची थाय
शुद्ध कार्य करवानो अभिलाषी थाय न्यारे जे
कारकचक्र बाधकभावे अर्थात् आत्माना ज्ञान
दर्शन सुख वीर्यनी घात करवा रूप कार्य परिणमंतु
हतुं ते साधक भावे एटले शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख
वीर्य साधवा रूप परिणमे एटले आत्म पोताना
शुद्ध परिणामे वर्त्ते-तेमां रमण करे-त्यांज स्थित
थाय एम थतां आत्माना सर्वे प्रदेशी मंगल थाय
अर्थात् कर्म रूप रज गली जाय-अत्यंत सुख
निधाननो लाभ थाय ॥ ९ ॥

प्राण शरण आधार छोरे, प्रभुजी भव्य
सहायरे ॥ ६० ॥ देवचंद्र पद नीपजेरे, जिन

पदक्रज सुपसायरे द० ॥ श्री० १०॥

अर्थ-हे प्रभुजी ! आप चार गति रूप भव
अमणना दुःखथी त्राण अर्थात् रक्षण करनार तथा
महान् दुःखदायी ज्ञानावरणादि प्रचंड अष्ट कर्म
शत्रुंथी डरता भव्य प्राणीउंने शरण छो तथा भव
समुद्रमां वृडता भव्य प्राणीउंने हस्तावलंबन रूप
छो तथा भव्य जीवोने मोक्षलक्ष्मी वरवामां परम
सहायभूत छो, तैथो हे गुण सागर ! आपना निमैल
चरण कमलना पसायथी देवमां चंद्रमा समान
परमात्म पदनी प्राप्ति थाय ए निर्विवाद छे ॥१०॥

(संपूर्ण)

॥ अथ तृतीय श्री बाहुजिन स्तवनं ॥

संभवजिन अवधारीये ॥ ए देशी ॥

बाहुजिणंद दयामयी, वर्तमान भगवान
प्रभुजी ॥ महाविदेहे विचरता, केवलज्ञान
विधान ॥ प्रभुजी ॥ वा० ॥१॥

अर्थ-महाविदेह क्षेत्रमां विहरमान वर्तमान
भगवान्, सङ्ख पङ्ख विद्वंसन धर्म युक्त पौद्गलीक
शरीरथी अत्यंत विलक्षण महान् आत्म सत्ता-

भूमिमां (अर्थात् जे भूमिमां अन्य कोइ पण द्रव्यनो प्रवेश थइ शके तेम नथी तेथी बीलकुल संकडांश वगरनी परम रमणीय स्वतंत्र एवी आत्म सत्ता-भूमिमां) निरंतर पोताना पर्यायोमां परिणमता पोताना गुण पर्यायो सहित सदा सत् लक्षणवंत होवाथी वर्तमान, आत्मीक अविचल अखंड लक्ष्मीनां स्वामी होवाथी भगवान, सामान्य कैवलीओमां इंद्र समान हे श्री बाहुस्वामी ! आप सर्व प्रदेशो सर्वे काले सर्व भावे दयामयी छो अर्थात् आपना सर्वे प्रदेशथी हिंसाना हेतुनो अभाव थयलो छे तथा हवे ते हेतुउंनो समूल क्षय होवांथी कोइ पण काले हिंसकभावे परिणमनार नथी तथा ज्ञानादि सर्वे धर्मो सर्वे नये पूर्ण पवित्र थया छे तेथी कोइ पण भाव हिंसकभावे परिणमे तेम नथी. तेथी आप सर्वांगे सर्वोत्कृष्ट अनुपम दयाना भंडार छो तथा जे ज्ञानमां जीवाजीव सर्वे द्रव्यो पोताना त्रिकालवर्ती सर्वे पर्यायो सहित प्रत्यक्षपणे भासे छे उक्तंच तत्त्वार्थे- (सर्वे द्रव्य पर्यायसु केवल-स्य) एहवा केवलज्ञानना निधान के० अखूट खाण छो. कारण के द्रव्य ते गुण पर्यायनुं भाजन छे, कृतीपर्याय तथा सामर्थ्यपर्यायनो आधार छे तेथी

कोई पण काले द्रव्य ते पर्यायथी हीण क्षीण थाय
 नहि. कारण के तीरोभावे रहेला पर्यायो आवीर्भावे
 थाय छे अने ते पाछा तीरोभूत थाय छे एम परावर्त्त
 चक्रे परिणमे छे. उक्तंच- संमत्ति ग्रंथे-“द्व्वं
 पज्जाय विउञ्चं, दव्व वियुत्ताय पज्जाया नच्छि
 उप्पायव्वय भंग्गाइ दविय लरकणं एयं” तथाच
 पंचास्तिकाय समयसारे-“दव्वं सल्लरकणियं,
 उप्पादव्वय धुवत्त संजुत्तं । गुण पज्जाया सयं
 वा, जं तं भस्मांति सव्वणहु” ॥ १ ॥

द्रव्यथकी छकायने; न हणे जेह लगार ॥
 प्रभुजी ॥ भावदया परिणामनो, एहिज छे
 व्यवहार ॥ प्रभुजी ॥ बा० ॥ २ ॥

अर्थ-पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय
 वनस्पतिकाय अने त्रसकाय ए छ कायना जीवना
 द्रव्यप्राणने हणवा हणाववा तथा हणतानी अनु-
 मोदना करवी ए द्रव्यहिंसा छे ते द्रव्यहिंसामां
 भावहिंसाना कारणनी भजना छे. तेथी भाव-
 हिंसानो स्यागी द्रव्यहिंसा आदरे नहि-थवा दे
 नहि-सावचेत पणे वर्त्ते-समिति पूर्वक वर्त्ते अर्थात्

द्वकायना जीवोनी द्रव्यहिंसानो त्याग करवो ते
 भावदयानो तथा भावदयाना परिणामीनो व्यवहार
 छे. द्रव्यअहिंसा ते भावअहिंसानो व्यवहार-कारण
 छे ॥ २ ॥

रूप अनुत्तर देवथी, अनंतगुणुं अभिराम
 ॥ प्रभुजी ॥ जोतां पण जग जंतुने न वधे
 विषय विराम ॥ प्रभुजी ॥ वा० ॥ ३ ॥

अर्थ-सर्वे जीवोने आ संसार जन्य जन्म जरा
 मरणादि रूप भयंकर दुःखथी छोडावी रत्नत्रय
 पमाडी अनंत आत्मीक परमानंदना भोक्ता करुं
 एवी उत्कृष्ट भावदयाना योगे अत्यंत तीव्र शुभ
 परिणाम वडे-सर्वोत्कृष्ट पुण्यानुबंधी पुण्याना उदये
 हे बाहु जिनेंद्र ! आपनुं रूप लावण्य कांति, विजय
 विजयंत जयंत अपराजीत अने सर्वार्थसिद्धि
 विमानवासी देवो करतां पण अनंतगुणुं अभिराम,
 प्रतिशययुक्त, सर्वोपरी, मनोहर, रमणीय, आ-
 ह्लादकारी छे. उक्तंच-“जाकी देहदुतिसो दसो
 दिशा पवित्र भई; जाके तेज आगे सव तेज-
 वंत रुके है । जाको रूप निरखी थकितु महा

रूपवत; जाकी वपुवाससो सुवास और लुके
 है ॥ जाको दिव्य धुनी सुनि श्रवनको सुख
 होत जाके तन लच्छन अनेक आइ दुके है ।
 तेइ जिनराज जाके कहे विवहार गुन, निहचै
 निरखि शुद्ध चेतनसों चुके है ॥ ” एवं अत्यंत
 देदिप्यमान अनुपम औदारिक आपनुं मनोहर रूप
 जोतां-निरखतां छतां पण विषयातुरताने अवकाश
 मलतो नथी परंतु आपनी शांत, दांत, गंभीर अने
 निश्चल मुद्रानुं दर्शन पामी विषयोर्था उपशान्त
 चित्त थाय छे ॥ ३ ॥

कर्म उदय जिनराजनो; भविजन धर्म
 सहाय ॥ प्रभुजो ॥ नामादिक संभारतां,
 मिथ्या दोष विलाय ॥ प्रभुजी ॥ बा० ॥४॥

अर्थ- “सवि जीव करुं शासन रसी; इसि
 भाव दया मन उलूसी” एहवा अत्यंत तीव्र शुभ
 वाग युक्त भावदयाना परिणाम वड़े बंधायला
 तीर्थकर नामकर्मना उदय वड़े हे त्रिलोक पूज्य !
 आ पारावार दुःखनिधान संसार समुद्रमां बृद्धता
 भव्य प्रणियोनो उद्धार करवा माटे सर्वे दूषणो

रहित अने पांत्रीश गुण सहित, नय निक्षेप पक्ष प्रमाण युक्त जीवा जीवादि तत्त्वानो सम्यक प्रकारे उपदेश आपो छो ए आपनो कर्म उदय निर्विवाद पणे “भवि जन धर्म सहाय” अनादि कालथी ज्ञानावरणादि कर्म रज वडे मलिन थएला-लिस थएला भव्य जीवोना आत्म धर्मने एवंभूत नये प्राप्त थवा सहाय-निमित्तभूत छे. तथा हे तीर्थ-नाथ ! आपना नामादिक चार निक्षेप संभारतां-स्मरण करतां-लक्षमां लेतां मिथ्यास्वादि दुष्ट दोषोनो तत्काल अत्यंत अभाव थाय. “ तीर्थ-संसार निस्तरणो-पायं करातीति तीर्थकृत्” इति वचनात्. जन्म मरण रूप संसार सागरथी तरी जवानो उपाय जे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ते तीर्थ छे. उक्तंच तत्त्वार्थ सूत्रे “ (सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः)” ते रत्नत्रयरूप तीर्थने भव्य जीवोना हृदयमां स्थापन करनार पुष्ट निमित्त होवथी आप तीर्थकर नामने संप्राप्त छो. तथा आपना निर्मल असंख्यात् आत्म प्रदेशमां ते रत्नत्रय भरपूर अभेद्य पणे वसी रह्यां छे ते स्थापनानिश्चयो. तथा आपनो आत्म द्रव्य ते

ज्ञान दशन चारित्र रूप भावनु सर्वदा कारण छे
 ते द्रव्यनिक्षेपो. अने घातीकर्मना क्षयथी अनंत
 चतुष्टय अनंत शुद्ध पर्याय पणे प्रगट्या ते आपनो
 भाव ते भावनिक्षेपो. एम आपना चार निक्षेप
 आपथी तन्मय पणे एक क्षेत्रे रह्या छे. उक्तंच-
 “ इह भावोच्चिय वच्छु, तद सुनेहिं किंच
 सेसेहिं, नामादयो विभावा, जं ते विहु वच्छु
 पज्जाया ” तथा वली-“अहवा वच्छुभिहाणं
 णामं ठवणाय जो तयागारो । कारणयासे
 देव्वं, कज्जय वन्नं तयं भावो ॥ अने आप पण
 जीव द्रव्य छो अने हुं पण जीव द्रव्य हुं माटे स्व
 जाती हुं तेथी आपनुं स्वरूप यथार्थ पणे जाणतां
 माहिंरुं स्वरूप पण यथार्थ जणाय जो जाणइ
 अरिहंतं, दव्व गुण पज्जवतेहिं । सो जणाइ
 अप्पाणं, मोहो खलु जाइ तस्स लयं ” अने
 षोताना आत्म स्वरूपनी प्राप्ति थतां मिथ्यात्व
 अज्ञान आदि दोषो तत्काल विलयमान थाय, कर्म-
 बंधनो नाश थाय, मोक्ष पदवीनी प्राप्ति थाय.
 उक्तंच-“ दर्शन मात्म विनिश्चित, रात्म परि-

ज्ञान मिष्यते बोध । स्थिति रात्मनि चारित्रं
 कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥” तथा “योगात्
 प्रदेश बन्धः स्थिति बन्धो भवति तू कषायात् ।
 दर्शन बोध चरित्रं, न योग रूपं कषाय रूपं
 च ।” ॥ ४ ॥

आत्म गुण अविराधना, भाव दया
 भंडार ॥ प्रभुजी ॥ क्षायिक गुण पर्यायमें,
 नवि पर धर्म प्रवार ॥ प्रभुजी ॥ बा० ॥५॥

अर्थ-ज्ञान दर्शन चारित्रादि अनंत आत्म
 गुणो ते भावप्राण छे अने ते भावप्राणनो विषय
 कषायादिके घात करवो ते भावहिंसा छे. अने ते
 भावप्राणनुं समिति गुप्ति आदि संवर बडे रक्षण
 करवुं घात न थाय एम अप्रमत्त भावसां वर्त्तवुं ते
 भावदया छे. ते भावदयाना आप भंडार-निधान
 छो. कारण के भावप्राणना घातक मिथ्यास्वादि
 दुष्ट हेतुंउनो आपना आत्म प्रदेशमांथी सर्वदा
 नाश थयो छे, क्षायिक लब्धिने पाम्या छो. तेथी
 आपनी सत्ताभूमिमां मिथ्यास्वादि-दोषोनो रंभ

मात्र पण प्रवेश-प्रचार थई शके तेम नथी अने तेथी आपसां भावहिंसानो विलकुल अभाव छे तेथी आप निर्बिवाद पणे भावदयाना भंडार छो ॥ ५ ॥

गुण गुण परिणति परिणमे, बाधक भाव विहीन ॥ प्रभु० ॥ द्रव्य असंगी अन्यनो, शुद्ध अहिक पीन ॥ प्रभुजी ॥ बा० ॥ ६ ॥

अर्थ-आपनो आत्म द्रव्य ज्ञान दर्शन चारित्र दान लाभ भोग उपभोगादि अनंत गुणनो पिंड छे (द्वं गुण (समुदाओ) ते सर्वे गुणो बाधकभाव रहित पोताना शुद्ध परिणामे परिणमे छे कारण के "सर्वे सपज्जवा गुणा, अपज्जवे जाणणा नच्छि" पण ते गुणो जो बाधकभावे एटले ज्ञान अज्ञानपणे, दर्शन अदर्शनपणे, चारित्र मिथ्याचरण रूप एका परिणमे तो आत्म स्वगुणनो रोध करे-शुभाशुभ कर्मबंध करे-आत्मीक सहज अबाधित सुखनी हाणी करे " (सायासायं दुःखं, तविवरहंमि य सुहं जउत्तेण । देहिं-दियेसु दुःस्कं, सुखं देहिंदिया भावो) "

पण आपना सर्वे गुणो अबाधकभावे परिणमे छे
 तेथी आत्म अनंत गुणना आनंदना भोक्ता छे,
 ज्यांसुधी आत्मा बाधकभावे परिणमे त्यांसुधी
 अशुद्ध छे पण ज्यारे सर्वे परद्रव्यना राग-संग रहित
 वर्ते त्यारे शुद्ध छे, अहिसक छे, कर्मबंधनो अकर्ता
 छे तथा पोताना अनंत आत्म वीर्य वडे पुष्ट छे.
 उक्तं च “ परद्वव रजं वज्जइ; विरउं सुचेइ
 मठ कम्मेहिंसो जिन उवएसो. समासउं
 बंध मोखवस्स ” ॥ ६ ॥

क्षेत्रे सर्व प्रदेशे; नहिं परभाव प्रसंग
 ॥ प्रभुजी ॥ अतनु अयोगी भावथी; अव-
 गाहना अभंग ॥ प्र० ॥ वा० ॥ ७ ॥

अर्थ-जेम सोनुं खाणमां पथर माटी विगेरे
 अनेक कुधातुंथी मलेकुं होय छे पण ज्यारे योग्य
 युक्ति वडे तेने सर्वथा जूडुं पाडी गाली शुद्ध सोनुं
 करी लइए त्यार पछी ते सोनाने काट लागी शके
 नहिं.

तेमज अनादिकाळथी आत्म प्रदेशे लागेला
 ज्ञानावरणादि कर्मनो आपे शुक्लध्यान रूप अग्नि-

बडे सर्वथा नाश कर्षो छे, सर्वे प्रदेशो शुद्ध निर्मल परम पवित्र थया छो तैथी आपना कोइ पण प्रदेशो परभाव-राग द्वेषादिनो- विषय कषायादिनो रंच मात्र पण संश्लेष नथी, थवानो संभव पण नथी.

ज्यांसुधी आत्मा औदारिकादि शरीरमां तेमज मन वचन काय योगमां ममत्व करी वसे छे तैथी ते चल पुद्गल योगे आत्म प्रदेश सकंप थाय छे पण ज्यारे सर्वथा तेनुं ममत्व त्याग करे त्यारे शुद्धात्म भावे अरूपी भायक स्वरूप प्रगटे. उक्तंच आचारांगे-से णदीहे ण हस्ते ण वट्टे ण तंसे ण चउरंसे ण परिमंडले ण किन्हे ण णीले ण लोहिए ण हालिहे ण सुकिले ण सुरहिगंधे ण दुरहिगंधे ण तिन्ने ण कडुए ण कसाये ण अंविले ण महुरे ण कख्वेड ण मनुए ण गुरुए ण लहुए ण सीए ण उण्हे ण णिधे ण लुख्व ण काऊ णं रूहे ण संग ण इत्थी ण पुरिसे ण अन्नहा परिणे सण्णे उवमा ण विज्जाए अरूवी सत्ता अपथस्स पयं णत्थि से ण सहे ण रूवे ण गंधे ण रसे ण फासे

इच्छेतावात तिबेमि ” एम अतनु अयोगी आत्म
 अंग आत्म भावमां स्थिर थाय त्यारे कोइ पण
 आत्म प्रदेश रंच मात्र पण सचल थाय नहि. अभंग
 अवगाहनाने प्राप्त थाय. ॥ ७ ॥

उत्पाद व्यय ध्रुव पणे, सहजे परिणति
 थाय ॥ प्रभुजी ॥ छेदन योजनता नहि,
 वस्तु स्वभाव समाय ॥ प्रभु० ॥ बा० ॥ ८ ॥

अर्थ—स्वभाव भावे परिणमवामां अन्य द्रव्यनी
 सहाय जोइति नथी. जेम अग्नि सहजे दाहकभावे
 परिणमे छे तेम सर्वे द्रव्यो उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त
 सदाकाल होवाथी सहजे पोताना स्वभाव पर्याय-
 मां परिणमे. अन्य द्रव्यनी मदद जोइए नहि.
 उक्तंच “ दवियदि गच्छदि ताइं, सबभाव
 पज्जयइंजं; दवियं तं भणंते अणणभूदं तु
 सत्तादो ” वस्तुने सहजे परिणमवामां कंइ पण
 दूर करवानी तथा कंइ पण संयोग करवानी
 आवश्यकता नथी कारण के द्रव्य तथा पर्यायनो
 अभेद भाव छे. जेम अग्निने दाहक परिणाम
 बगरनी तथा अग्नि बगर दाहक परिणामने आपणे

कदापी काले जोता नथी अर्थात् अग्निने ज्यारे जोइए त्यारे दाहक परिणाम सहितज होय छे तेम सर्वे द्रव्य सदाकाल पोताना परिणामे वर्त्तताज होय छे. परिणाम वगर द्रव्य अभाव-शून्यपणाने पामे. उक्तंच-पज्जय विजुदं दव्वं दव्व विजुदाय पज्जयाणच्छि दोण्हं अणाणभूदं; भावं समणा परूविंति ॥ ” वर्त्तमान पर्यायनो व्यय थाय अने नूतन पर्यायनो उत्पाद् थाय तो पण द्रव्यार्थिक नये द्रव्य सदा ध्रुव छे. जेम सोनानुं कडु भांगी मुकुट वनावीए तेमां कडानो नाश अने मुकुटनो उत्पाद् थता छतां पण सोनुं द्रव्य सदा ध्रुव छे. उक्तंच-“ भावस्स णत्थिणासो, णत्थि अभावस्स चैव उप्पादो । गुण पज्जयेसुं भावा, उप्पाद वये पकुव्वंति । ” ॥८॥

गुण पर्याय अनंतता, कारक परिणति तेम ॥ प्रभुजी ॥ निज निज परिणति परिणमे, भाव अहिंसक एम ॥ प्रभुजी. ॥ वा० ॥६॥

अर्थ-ज्ञान ते सम्यक्ज्ञान रूप, दर्शन ते

सम्यक्दर्शन रूप, चारित्र्य ते स्वभावाचरण रूप
 एम ज्ञानानुयायी आपना अनंत गुणो पोताना शुद्ध
 परिणामे परिणामे छे कारण के आपनुं कारक चक्र
 ते शुद्ध अबाधक पणे सदा परिणामे छे (१) स्वधर्म
 कर्ता ते कर्त्तापणुं (२) स्वधर्म परिणाम ते कार्य
 (३) स्वधर्मानुयायी चेतना शक्ति ते करण (४)
 साध्य गुण शक्तिनुं प्रगटवुं ते संप्रदान (५) पूर्व
 पर्यायनुं निवर्त्तन ते अपादान (६) स्वगुणनो आधार
 आत्म सत्ताभूमि ते अधिकरण-एम गुण पर्यायनी
 तथा कारक परिणतिनी अनंतता छे तेथी कोइ पण
 आत्म धर्मने विराधक पणे रंच मात्र-समय मात्र
 पण परिणमता नथी तेथी आप सदा अहिंसक
 नामनुं सर्वोत्कृष्ट विरुद्ध धरावो छो ॥ ९ ॥

एम अहिंसकता मर्या, दीठो तुं जिनराज
 ॥ प्र० ॥ रक्षक निज पर जीवोनो, तारण
 तरण जिहात्र ॥ प्र० वा० ॥१०॥

अर्थ:-एम स्वपर जीवना द्रव्य भाव प्राणनुं
 रक्षण करनार तथा अगाध कषाय रूप जलथी
 भरेला संसार समुद्रमांथी तारण तरण जहाज
 रूप हे जिनेश्वर ! हे करुणा निधान ! आ जगत्
 त्रयमां सर्वांगे दयामय में आपनेज जोया ॥१०॥

परमात्म परमेश्वर, भाव दया दातार
 ॥ प्रभुजी ॥ सेवो ध्यावो एहने, देवचंद्र
 सुखकार ॥ प्रभुजी० ॥ वा० ॥ ११ ॥

अर्थ:-आत्मानो परमभाष जे ज्ञान तेनी शुद्ध-
 ता तथा संपूणताने सर्वे नये प्राप्त थयेला होवाथी
 परमात्मा. तथा अनंत अविनश्वर स्वाधीन परमा-
 नंद मय शुद्धात्म ऐश्वर्यताने प्राप्त थएला होवाथी
 परमेश्वर, अने भावदया रूप जे परमधर्म (आत्म
 गुण रक्षणा तेह धर्म, स्वगुण विद्वंसना ते
 अधर्म) तेना उपदेष्टा, दातार तथा भव भ्रमण
 जन्य शारीरिक तथा मानसिक दुःखनो अत्यंत
 अंत करी सहज परमोत्कृष्ट आत्मीक सुखना दातार
 त्रिलोक पूज्य श्री बाहुजिनेश्वरने सेवो, ध्यावो,
 तेमना गुणनुं ध्यान करो, तेथी एकाग्र चित्त करो,
 एम श्री देवचंद्र मुनि मित्र भावना वडे भव्य जीवो
 प्रति हित शिक्षा आपे छे ॥ ११ ॥

(संपूर्ण)

॥ अथ चतुर्थं श्री सुवाहुजिन स्तवनं ॥

॥ माहरो वहालो ब्रह्मचारी ॥ ए देशी ॥

श्री सुबाहुजिन अंतर जामी, मुज मननो
 विशरामी रे ॥ प्रभु० ॥ आत्म धर्म तणो
 आरामी, पर परिणति निःकामी रे ॥ प्रभु
 अंतरजामी ॥ श्री० ॥ १ ॥

अर्थः—शुद्ध अने तिक्षण उपयोगमां परम
 स्थिरता एकाग्रता धारण करी राग द्वेष रूप महान्
 शत्रुउंने जीतेला हे श्री सुबाहु स्वामी ! केवलज्ञान
 दर्शन उपयोग वडे मारा तेमज सर्वे द्रव्योना
 अंतर्गत भावने 'द्रियादिकनी सहाय विना प्रत्यक्ष
 जाणवा देखवावाला तथा सर्वदा परम संवरमां
 लीन होवाथी अंतर्यामी छो.

स्त्री पुत्र मित्रादि परिजनो तथा धन धात्य
 हिरण्य क्षेत्रादि परद्रव्यना मनोज्ञ पर्यायोने आप
 सुख हेतु जाणता नथी परंतु तेउंने जलना बुद्बुद्-
 वत् तथा बिजलीना चमत्कारवत् क्षणीक, पराधीन
 अतृप्तिना हेतु, तथा आत्म धर्म रोधक राग द्वेषना
 निमित्त, संसार परिभ्रमणना निमित्त साक्षात् पणे
 जाणो छो माटे ते विषयोनी आपने कामना केम
 थाय ? कदापि न थाय; तथी आप सदा निःकामी

साहिब मलियो, तिणे सवि भवभय टलियो
रे ॥ प्रभु अंतरजामी ॥ ३ ॥

अर्थ--जो के हुं मोहादि वडे ठगायो, परपरिण-
तिमां तल्लीन थई रह्यो, पण हवे तमारा जेवा
साहेबनी वाणी सांभली मने प्रतित, थवाथी मारो
सर्वे भवभय दूर थयो. जो के मोह अज्ञान मिथ्या-
त्वादि दुष्टोए मने वश करी मारी ज्ञानादि संपदा
ठगी लीधी छे, माहरा सहज अनुपम सुख भोगथी
मने वियोगी कर्पो छे, तेथी हुं ते दुष्टोना वशमां
षडी अत्यंत कंगाल अवस्थाने भोगवुं छु.

परपर्याय--शरीर स्वजन परिजन तथा धन
धान्यादिमां अहं ममत्त्व करी तेनेज सुख तथा
सुख हेतु जाणी तेनीज इच्छा कामना करी जेम
खींचडामां वसतो कीडो लीमडाना रमनेज मधुर
मानी तेमां तल्लीन रहे छे, त्यांथी निकलवा चाहातो
नथी, तेम हुं तेमां तल्लीन थई रह्यो, तेथी विरत
थयो नहिं, पण हवे हे करुणानिधे ! सर्वज्ञ अने
वीतराग आप जेवा समर्थ स्वामीनी मने प्राप्ति
थई--आपनुं दर्शन पास्यो तेथी अनंत रोग शोक
भय क्रोध मान माया लोभ अरति आदि के भरेला
भव समुद्रमां अमण करवानो भय दूर थयो. कारण

के ते भव भ्रमणी हवे अवधि आधी. उक्तंच-
 “अतो मुहुत्त मित्तंपि फासिअं हुइ जेहिं
 सम्मत्तं, तेसि अवह् पुगल, परिअहो चव
 संसारो ” ॥ ३ ॥

ध्येय स्वभावे प्रभु अवधारी; दुर्ध्याता
 परिणति वारी रे ॥ प्र० ॥ भासन वीर्य एकता
 कारी; ध्यान सहज संभारी रे ॥ प्र० ॥
 श्री० ॥ ४ ॥

ध्याता ध्येय समाधि अभेदे; पर परिणति
 विच्छेदे रे ॥ प्र० ॥ ध्याता साधक भाव उच्छेदे,
 ध्येय सिद्धता वेदे रे ॥ प्र ॥ श्री० ॥ ५ ॥

अर्थ:-प्रभुपदने पोतानुं शुद्ध ध्येय जाणी
 पोताना हृदयमां स्थापना करी, दुर्ध्यान रूप परिष्क-
 तिने निवारी, पोताना ज्ञान वीर्यनी संपूर्ण एकता
 अभेदता करनारुं सहज आत्म ध्यान संभारे; तेथी
 पर परिणतिनो समूह विच्छेद थाय, त्यारे ध्याता
 ध्येय समाधिमां तल्लीन थाय अने ध्येय पदनी
 सिद्धि प्राप्तिने वेदे-भोगवे. त्यारे ध्यातामांथी

छो. जे सुग्द प्राणीउं ते विषयोने सुख हेतु जाणे तेउंने नेनी कामना थाय अने तेज तेनी चाहरूप दाहमां प्रवेश करी पोताना आत्म भोगने दग्ध करे पण आप तो केवल सम्यक्ज्ञानी होवाथी शुभा-शुभ-शाता अशाता बनेना उदयने आत्मगुणना रोधक होवाथी दुःख रूपज जुउंछो तेथी आपने तेनी कामनानो बिलकुल संभव नथी, निरंतर निष्कामी छो. तथा शुद्धात्म ज्ञान दर्शन चारित्र्य गुणने स्वाधीन अविनश्वर तथा परमानंदना हेतु जाणी निरंतर तेमांज रमण करवावाला तथा तेनाज भोगमां परम संतुष्ट छो. एवी आपनी परमोत्कृष्ट अवस्था जोइ ते पद साधवानी मने रुची थइ तथा ते पद साधवानो समीचीन मार्ग पण आपे बताव्यो तेथो खरेखर मारा मनने परम विश्रामना हेतु आपजछो. ॥ १ ॥

केवलज्ञान अनंत प्रकाशी, भविजन
कमल विकाशी रे ॥ प्र० ॥ चितानंदघन
तत्त्व बिलासी, शुद्ध स्वरूप निवासी रे
॥ प्र० ॥ श्री० ॥ २ ॥

अर्थ-अनंत केवलज्ञान रूप सूर्यनो प्रकाश करी भव्य जीवोना हृदयकमलने चिक्श्वर करनार ज्ञानानंदना समूह आत्म तत्त्वमां विलास करनार तथा तेज शुद्ध स्वरूपमां निवास करनार छो.

अनादि कालथी ज्ञानावरणादि कर्मवडे आच्छादित थयेला अनंत केवलज्ञान रूप जलहलाटमान अद्वितीय सूर्यने, कर्म पडलनो नाश करी संपूर्णपणे प्रकाशमान करी अज्ञानरूप अंधकार वडे आश्रुत थएला भव्य जीवोना हृदयकमलने ज्ञानकिरणो वडे परम प्रफुल्लित करनार छो. रूप रस गंध स्पर्शादि परद्रव्यना पर्यायनो भोग, रमण, आस्वाद, भूछ्छा, कामना बिगोरेनो समूख नाश करी राग-द्वेषादि विभावो परिहार करी पोताना सहज अविनश्वर ज्ञानसमूह आत्म तत्त्वमां विलास करनार अर्थात् तेना भोगमां निमग्न छो. तेज शुद्धात्म स्वरूपमां सदा निवास करो छो अर्थात् आपनो उपयोग त्यांथी समय मात्र पण चलतो नथी-परद्रव्यादि तरफ जतो नथी ॥ २ ॥

यद्यपि हूं मोहादिके छलियो, पर परिण-
तिशुं भलियो रे ॥ प्र० ॥ हवे तुज सम मुज

साहिव मलियो, तिणे सवि भवभय टलियो
रे ॥ प्रभु अंतरजामी ॥ ३ ॥

अर्थ-जो के हुं मोहादि वडे ठगायो, परपरिण-
तिमां तल्लीन धई रह्यो, पण हवे तमारा जेवा
साहेबनी वाणी सांभली मने प्रतित थवाथी मारो
सर्वे भवभय दूर थयो. जो के मोह अज्ञान मिथ्या-
त्वादि दुष्टोए मने वश करी मारी ज्ञानादि संपदा
ठगी लीधी छे, माहरा सहज अनुपम सुख भोगथी
मने विद्योगी कर्षो छे, तेथी हुं ते दुष्टोना वशमां
पडी अत्यंत कंगाल अवस्थाने भोगवुं छु.

परपर्याय-शरीर स्वजन परिजन तथा धन
धान्यादिमां अहं ममत्व करी तेनेज सुख तथा
सुख हेतु जाणी तेनीज इच्छा कामना करी जेम
लींबडामां वसतो कीडो लीमडाना रमनेज मधुर
मानी तेमां तल्लीन रहे छे, त्यांथी निकलवा चाहातो
नथी, तेम हुं तेमां तल्लीन धई रह्यो, तेथी विरत
थयो नहिं, पण हवे हे करुणानिधे ! सर्वज्ञ अने
वीतराग आप जेवा समर्थ स्वामीनी मने प्राप्ति
धई-आपनु दर्शन पास्यो तेथी अनंत रोग शोक
भय क्रोध मान माया लोभ अरति आदि के भरेला
भव समुद्रमां भ्रमण करवानो भय दूर थयो. कारण

के ते भव भ्रमणनी हवे अवधि आधी. उक्तं च—
 “अतो मुहुत्त मित्तं पि फासिअं हुइ जेहिं
 सम्मत्तं, तेसि अवहु पुग्गल; परिअट्ठो चैव
 संसारो ” ॥ ३ ॥

ध्येय स्वभावे प्रभु अवधारी; दुर्ध्याता
 परिणति वारी रे ॥ प्र० ॥ भासन वीर्य एकता
 कारी; ध्यान सहज संभारी रे ॥ प्र० ॥
 श्री० ॥ ४ ॥

ध्याता ध्येय समाधि अभेदे; पर परिणति
 विच्छेदे रे ॥ प्र० ॥ ध्याता साधक भाव उच्छेदे,
 ध्येय सिद्धता वेदे रे ॥ प्र ॥ श्री० ॥ ५ ॥

अर्थः—प्रभुपदने पोतानुं शुद्ध ध्येय जाणी
 पोताना हृदयमां स्थापना करी, दुर्ध्यान रूप परिष्-
 तिने निवारी, पोताना ज्ञान वीर्यनी संपूर्ण एकता
 अभेदता करनारुं सहज आत्म ध्यान संभारे; तेथी
 पर परिणतिनो समूह विच्छेद थाय, त्यारे ध्याता
 ध्येय समाधिमां तल्लीन थाय अने ध्येय पदनी
 सिद्धि प्राप्तिने वेदे--भोगवे. त्यारे ध्यातामांथी

साधकपद दूर थाय.

ज्ञानावरणादि सकल कर्मना संबन्धधी सर्वथा मुक्त केवलज्ञान दर्शन चारित्र्य धीर्यमय सहज आत्म गुणना समूह रूप श्री सुबाहु स्वामीना परमात्म पदने शब्द ध्येयं (ध्यावया लायक वस्तु) धारी-ज्ञान पूर्वक निश्चय करी, जन्म जरा मरण रूप संसार भ्रमणना हेतु भूत, शुद्ध परिणतिधी विमुख आर्त्त रौद्र परिणाम धारे--दूर करे, (कारण के ज्यांसुधी दुर्ध्यान परिणाम वर्त्ते त्यांसुधी शुद्ध ध्यानने अवकाश मले नहि जेम तलीन वस्त्र ऊपर केशरनी रंग लागे नहि अने पर परिणामानुगत थयेला पोताना आत्म धीर्यने समेटी मात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र्य परिणाममां आत्म धीर्यने एकत्र तल्लीन करे-अभेद करे एवं सहज आत्म ध्यान आदरे, जेथी ध्येय समाधि अर्थात् शुद्धात्म अनुभव रूप निर्विकल्प निराकुल निरूपचरित स्वतंत्र परम समाधिमां मग्न-तल्लीन थाय; ते धारे आत्म परिणति मनोज्ञ अमनोज्ञ कोइ पण पर द्रव्यमां राग द्वेष रूप अशुद्ध परिणामे वर्त्ते (गमन करे) नहि, ते धारे ध्येय पदनी अर्थात् शुद्ध पर-मात्म पदनी सिद्धि थाय. तेना अचल अनंत भोग

उपभोगनो स्वामी थाय. उक्तंच-एको मोक्ष पथो.
 य एष नियतो, द्रज्ञति वृत्त्यात्मकः स्तत्रैव
 स्थिति मेति यस्तमलिशं, ध्यायेच्चतं चेतसि,
 तस्मिन्नैव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराण्य
 स्पृशन् । सोवश्यं सम्यस्य सारमचिरान्नित्यो-
 दयं विन्दति ।

अर्थः-सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्यात्मक मोक्ष
 मार्गमां जे पुरुष स्थित थाय छे, तेनेज जे निरंतर
 ध्यावे छे वली तेनेज जाणे, छे तेनेज अनुभवे छे
 वली तेनाज विषे विहार करे छे-प्रवर्त्ते छे पण
 अन्य द्रव्यमां रंच मात्र स्पर्श करतो नथी ते अल्प
 कालमां नित्योदय परमात्म पदने पामे छे तयारे
 ध्यातामांथी साधक भावनो उच्छेद थाय छे; कारण
 के ध्येयनी संपूर्ण सिद्धि थया पछी साधवानुं कंइ
 बाकी रह्युं नथी. ज्यांसुधी कंइ साधवानुं बाकी
 होय त्यांसुधी साधक भाव कहेवाय जेम (कारण
 पद उत्पन्न, कार्य थये न लह्योरी). ॥४॥ ॥५॥
 द्रव्य क्रिया साधन विधि याची, जे जिन
 आगम वाची रे ॥ प्र० ॥ परिणति वृत्ति-विभावे

राची, तिण नवि थाये साची रे ॥ प्र० ॥
श्री० ॥ ६ ॥

अर्थः-शुद्ध ध्येय जे परमात्म-मोक्ष पद तेनुं
यथार्थ स्वरूप श्रद्धान पूर्वक में न जाण्युं तथा
साध्य सापेक्ष आचरणा न आदरी त्यांसुधी माहरी
चित्त वृत्ति विभावमां राची रही अर्थात् आ लोक
संबंधी पंच इंद्रियोना मनोज्ञ भोग्य पदार्थी तथा
परलोक संबंधी स्वर्गादिना भोगमां आशक्त रही-
तेनी मनोकामना रही तेथी आपना सत्य प्रमा-
णिक आगममां बतावेली समिति गुप्ति परिषद्
सहन तथा चारित्र तप नियमादि परमात्म पदनी
साधन भूत द्रव्य क्रियाउं पण विष गरल अने
अन्योन्य अनुष्ठान रूप होवाथी परमार्थ-मोक्ष पदने
आपवा समर्थ थई नहि. ज्यांसुधी सम्यग्ज्ञानमी
प्राप्ति थई नथी त्यांसुधी सर्वे क्रियाउं शुद्ध भाव
विनानी अशुद्ध विष गरल अन्योन्य अनुष्ठान रूप
जाणवी उक्तंच “ शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुद्गल
आवर्तने अद्र रे ” ॥ ६ ॥

पण भय नहि जिनराज पसाये, तत्त्व रसा-
यण पाये रे ॥ प्र० ॥ प्रभु भगतें निज

चित्त वसाये, भाव रोग मिट जाये रे

॥ प्रभु० ॥ श्री० ॥ ७ ॥

अर्थ:- पण हवे मने भय नथी कारण के जिन-
राजना वचन पसाये तत्त्व रसायणनी प्राप्ति थई
छे तेथी माहरुं चित्त प्रभुनी भक्तिमां वसवाथी
भाव रोग मटी जशे. पण हवे हे तरण तारण श्री
सुबाहु जिनेश्वर ! बत्रीश दोष रहित तथा वाणीना
पांश्रीश गुण सहित परमामृत रूप आपना वचनोना
पसाये ज्ञानावरणादि कर्म रोगने अस्थंत दूर करी
आत्म वीर्यनी संपूर्ण वृद्धि पुष्टि करनार देवतत्त्व,
गुरु तत्त्व, अने धर्मतत्त्वनी मने प्राप्ति थई छे तेथी
माहरी चित्त वृत्ति मनोज्ञ अमनोज्ञ पर द्रव्यथी
निवृत्त थई प्रभुनी आज्ञा पालवा रूप भक्तिमां लीन
थशे तेथी माहरा ज्ञानावरणादि सर्वे भाव रोगो
सूर्यथी जेम अधकार नष्ट थाय तेम तत्काल विना-
प्रयासे नष्ट थई जशे. एवा निश्चयथी मारो भव
अमणनो अस्थंत भय दूर थयो छे ॥ ७ ॥

जिनवर वचन अमृत अनुसरिये, तत्त्व
रमण आदरिये रे ॥ प्र० ॥ द्रव्य भाव

आह्वय परिहरिये, देवचंद्र पद वरियेरे ॥प्र०॥
श्री० ॥ ८ ॥

अर्थ:-जिनेश्वरना अमृत समान वचन अनु-
सारे वर्तीए, तत्त्व रमणना आहक थईए, द्रव्यास्त्रव
तथा भावास्त्रवनो त्याग करीए तो देवमां चंद्रमा
समान सिद्ध पद वरिये-

हे सुषाहु जिनेश्वर ! आप सर्वज्ञ अने वीतराग
होवाथी साचा आस छो. आपनांज वचन आचार
गति रूप अत्यंत भयंकर पारावार भव"समुद्रथी
पार उतारी शिव स्थानके पहोंचाडवाने अद्वितीय
नौका समान छे तथा दुष्ट ज्ञानावरणादि कर्म रोग
बडे पीडाता दुर्बल आत्म वीर्यथी हीण थएलाने
ते रोग दूर करी आत्म वीर्ये संपूर्ण पुष्ट करवाने
अमृत समान छे. माटे जो आपना वचनने हमे
अनुसरीये-ते प्रमाणे वर्तीए अने शुद्धात्म तत्त्वनुं
रमण करीए-तेमां लीन थईए तथा अभिनिवेशादि
पांच मिथ्यास्त्र, हिंसादि पांच अत्रत, तथा क्रोधा
दिक कषाय, विकथादि प्रमाद तथा औदारिक काय
योग आदि योगनो परिहार करीए-राग द्वेषादि
विभावनो त्याग करीए तो नवां कर्म आवतां बंध
थाय अने पूर्व संचित कर्मनी निर्जरा थाय तेथी

देवमां चंद्रमा समान परमात्म पदनी प्राप्ति थाय
 अतीन्द्रिय अव्याबाध अनंत सुखनी प्राप्ति थाय
 उक्तंच “ पंचासब्ब बिरत्ता, विषय विजुत्ता
 समाहि संपत्ता, राग दोष विमुत्ता, मुणिणो
 साहंति परमच्छ ” ॥ ८ ॥

(संपूर्ण)

॥ अथ पंचम श्री सुजात स्वामी जिन स्तवन ॥
 देहुं देहुं नणद हठीली ॥ ए देशी ॥

स्वामी.सुजात सुहाया, दीठा आणंद उपाया
 रे, मन मोहना जिनराया । जिणे पूरण तत्त्व-
 निपाया, द्रव्यास्तिक नय ठहराया रे, मन
 मोहना जिनराया ॥ स्वामी० ॥ १ ॥

पर्यायास्तिक नय राया, ते मूल स्वभाव
 समाया रे, मन मोहना जिनराया । ज्ञानादिक
 स्व परजाया, निज कार्य करण वरतायारे,
 मन मोहना जिनराया ॥ स्वामी० ॥ २ ॥

अर्थः-हे सुजात स्वामी ! सर्वे स्वपर्यायर्नु
कारण द्रव्य हे पण द्रव्यनुं कारण अन्य द्रव्य होइ
शके नहि तैथी आप स्वयं सिद्ध छो. स्वयं बुद्ध छो,
सर्व पर-द्रव्यनी कामनाथी रहित परम संतुष्ट छो,
तथा अतीन्द्रिय अव्याबाध, अनुपम, निरूपचरित,
स्वाधीन, अपृथग्भूत, अनंत; सहज, आत्म सुखना
निरंतर भोक्ता, अनुभव लेनार छो, सुखात्मा छो,
उक्तंच " जादो सयं स चेदा, सवण्डू सव्व
भोग दरसीय । पप्पोदि सुहमणंतं, अब्वावाहं
सगम मुत्तं " ॥ माहरा चित्तने सुहंकर लाग्या
छो, अनंत गुणना निधान आप स्वजातिनुं दर्शन
थतां अपूर्व आनंद रूप जल वडे माहरुं चित्त सरो-
वर भरपूर थयुं, अज्ञान कषायना पात्र पर द्रव्या-
दिनी चाह दाहमां निरंतर प्रज्वलित थतां शुद्धात्म
अनुभव रूप सुगंधथी रहित हरिहरादि कुदेवोने
करीरादि वृक्षोनी पेठे त्यागी शुद्धात्म अनुभव रूप
अनंत सुगंधथी भरपूर आपना पद कमलमां माहरुं
मन मोहित थयुं छे, त्यांथी रंच मात्र पण खसवा
चाहातुं नथी; माटे हे जिनेश्वर ! जगत् त्रयमां
आपज भव्य जीवोना मन मोहन छो. जे आपे
अनादि कालथी लागेला आत्म गुण रोधक ज्ञाना-

वरणादि कर्म मलने बाह्य अभ्यंतर तप वडे दूर
 करी पोताना आत्म तत्त्वनी एवंभूत नये सिद्धि
 करी छे अर्थात् सर्वे आत्म गुणो संपूर्ण निर्मल तथा
 स्वाधीन करी लीधा छे माटे हवे कई पण करवानुं
 आपने बाकी रहुं नथी तेथी आप निष्क्रिय बिरुदने
 संपूर्ण प्राप्त थया छो, अनंतानंदना स्वामी थया छो
 तथा आत्म धर्मने मलिन करवाना तथा भव भ्रम-
 णना निमित्त अज्ञान मिथ्यात्व कषाय अने योगनो
 सर्वथा अभाव कर्यो छे तेथी आपनो कोइ पण गुण
 पर्याय हवे कोइ पण काले रंचमात्र पण मलिन
 थवानो नथी तथा तेमज ते सिद्धि अवस्थाथी आप
 कोइ पण काले व्यूत थवाना नथी. द्रव्यास्तिक
 नये आप सदा अवस्थित रही चेतनतामां समाता
 पोताना शुद्ध अनंत पर्यायनुं राज्य भोगवो छो.
 ज्ञानादिक सर्वे पर्यायोने स्वकार्य करवामां निरंतर
 प्रवर्त्तावो छो अर्थात् ज्ञान गुण वडे अनंत द्रव्यना
 त्रिज्ञानवर्ती अनंत गुण पर्यायने समकाले प्रत्यक्ष पणे
 जाणो छो, दर्शन गुण वडे सर्वे द्रव्यना अस्तित्वादि
 सामान्य स्वभावने समकाले देखो छो, चारित्र गुण
 वडे सर्व परभावथी निवृत्त पणे अनंत ज्ञानादिक
 स्वधर्ममां निरंतर रमण करो छो अने आपनुं आत्म

ने जोनारा एहवा हे प्रभु ! आपेज नय अने प्रमाणना मार्ग वडे दुर्नय मार्गने दूर कर्यो छे ते नयना विस्तारथी अनेक भेद छे (व्यासतो नेक विकल्पः) कारण के वस्तु अनंत धर्मात्मक छे अने ते अनंत धर्मेनुं निरूपण करवाने वचन मार्ग पण अनंत होय माटे जेटलां वचन तेटला सर्व नयवाद कहेवाय “जावइया वयण पहा, तावइया चेव हुन्ति नयवाया” तो पण ते सर्वे नयवादोनो संग्रह करनारा एहवा सात अभिप्रायनी कल्पनाना द्वारे करीने सात नयो प्रतिपादन करेला छे तेनां नामनैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ अने एवंभूत. तेमांथी प्रथमना चार नयो द्रव्यार्थिक नयमां अने शब्दादि त्रण नयोने पर्यायार्थिकमां समाय छे ते त्रण भावनय छे.

समासतो द्विभेदः द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः तत्र द्रव्यार्थिकश्चतुर्धा नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र भेदात् पर्यायार्थिकस्त्रिधा शब्द समभिरूढ एवंभूत भेदात्”

श्री सिद्धसेन दिवाकर रुजुसूत्रनयने पर्यायार्थिकमां,

गणे छे माटे तेमना अभिप्राये नैगमादि त्रण नय
 द्रव्यार्थिक अने खजुसूत्रादि चार नय पर्यायार्थिक
 छे. द्रव्यने सामान्यपणे निरूपण करनारा प्रमाताना
 अभिप्रायो जेओनो आद्यना चार नयमां समावेश
 थाय छे ते द्रव्यार्थिक छे अने जे अभिप्रायो शब्दना
 अर्थनी मूख्यता धरावे छे ते शब्दादिक त्रण नय
 पर्यायार्थिक छे माटे आदिना चार नय ते अविशुद्ध
 छे अने शब्दादिक त्रण नय ते विशुद्ध छे उक्तंच-
 आद्य नय चतुष्टय माविशुद्ध पदार्थ प्ररूपणा
 प्रवणत्वात् अर्थ नया नाम द्रव्यत्व सामान्य
 रूपा नयाः शब्दादयो विशुद्ध नयाः शब्दाव-
 लंबार्थ मूख्यत्वात्

तथा च स्याद्वादमंजरौ ये केचनार्थं, निरूपण
 प्रवणाः प्रमात्र भिप्रायास्ते सर्वेऽप्याद्येनय
 चतुष्टयेऽन्तर्भवति ये च शब्दविचार चतुरास्ते
 शब्दादि नय त्रय इति ॥

॥ तथा रत्नाकरावतारिका ग्रंथे “ द्रवति
 द्रोष्यति अद्रुद्रवत् तांतान् पर्यायानिति

वीर्यं ते पण ज्ञानादिकं अनंत स्वधर्म परिणमाववामां
 वर्ते छे. एम आपना सर्वे पर्यायो पोत पोतानुं कार्य
 करवामां स्वाधीन पणे वर्त्तावो छो वली हे सर्वे
 नीतिमानमां शिरोमणि ! द्रव्यना यथार्थ स्वरूपना
 बोध थवा माटे आपे द्रव्यास्तिक अने पर्यायास्तिक
 ए बे मुख्य नयो ठराव्या छे. जेमां सर्वे नयनो समा-
 वेश थई जाय छे ते नयना यथार्थ ज्ञानवडे वस्तुनुं
 स्वरूप यथार्थ साक्षात् वत् जणाय छे-भासे छे ॥१॥
 अंश नयमार्ग कहाया, ते विकल्प भाव सुणा-
 यारे ॥ मन ० ॥ नय चार ते द्रव्य थपाया,
 शब्दादिक भाव कहायारे ॥ मन ० ॥ ३ ॥

अर्थ-नय ते पदार्थना ज्ञानने विषे ज्ञानना अंश
 छे, वस्तु अनंत धर्मात्मक छे अर्थात् जीवादिक दसक
 पदार्थमां अनंता धर्म छे. तेमांथी जे स्वाभिष्ट एक
 धर्मेने मुख्यताए गणवे छे तेमां रहेला बीजा धर्म,
 प्रति उदासिनता राखे छे ते नय छे उक्तंच-स्याद्वाद
 मंजरीमां “ नीयते परिच्छिदते एक देश विशिष्टोर्थ
 आभिरिति नीतयो नयाः तथा रत्नाकरे, नीयते
 येन श्रु ताख्या प्रमाण विषयी कृतस्यार्थ स्यां-
 शस्तदितरांशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तु रभिप्राय

विशेषो नयः” एम दरेक नयो वस्तुना स्वाभिष्ट एक
 अंशने प्रतिपादन करे छे तेथी ते विकल्प आगं छे. जे
 एकांते पोताना अभिष्ट धर्मनेअ स्थापन करे छे तेमां
 रहेला बीजा धर्मने तिरस्कारे छे. ओलवे छे, अपेक्षा
 राखतो नथी ते दुर्नय अथवा नयाभास छे. स्वाभि-
 प्रेतादंशा दितरांशा पलापी पुनर्नयाभास :”

अने जे वस्तुमां रहेला कोइ पण धर्मने तिरस्कारतो नथी
 अर्थान् तेनी अपेक्षा राखे छे एम ब्रताघचाने स्यात्-
 पद युक्त अभिष्ट धर्मनुं प्रतिपादन करे छे ते सुनय
 छे, स्याद्वाद छे, प्रमाण वाक्य छे, तेज हे जिनेश्वर !
 आपना परम आगमनुं बीज [जीवन] छे, जे सर्वे
 एकांत वाड़े मचेला उनमत्त हाथी उना मदने भंजन
 करवाने मिह ममान छे, वस्तुनुं यथार्थ सर्वांगे स्वरूप
 जाणवा दिव्य ज्ञानदृष्टि छे, उक्तंच-स्याद्वादमजरौ-
 राग-उपेंद्रवज्रा ॥ ‘ सदेव सत्सयात् सदिति
 त्रिधार्थो, मीयेत दुर्नीति नय प्रमाणैः यथार्थ
 दर्शाति नयप्रमाण, पथेन दुर्नीति पथं त्वमास्थः
 अर्थ-सत्यज छे, सत् छे अने स्यात् सत् छे एवी
 रीतनो त्रण प्रकारनो अर्थ अनुक्रमे दुर्नय, नय अने
 प्रमाण वडे मापी शक्य छे अने यथास्थित पदार्थ

ने जोनारा एहवा हे प्रभु ! आपेज नय अने प्रमाणना मार्ग वडे दुर्नय मार्गने दूर कर्यो छे ते नयना विस्तारथी अनेक भेद छे (व्यासतो नेक विकल्पः) कारण के वस्तु अनंत धर्मात्मक छे अने ते अनंत धर्मेनुं निरूपण करवाने वचन मार्ग पण अनंत होय माटे जेटलां वचन तेटला सर्व नयवाद कहेवाय “जावइया वयण पहा, तावइया चेव हुन्ति नयवाया” तो पण ते सर्वे नयवादोनो संग्रह करनारा एहवा सात अभिप्रायनी कल्पनाना द्वारे करीने सात नयो प्रतिपादन करेला छे तेनां नामनैगम, संग्रह, व्यवहार, रूजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ अने एवंभूत. तेमांथी प्रथमना चार नयो द्रव्यार्थीक नयमां अने शब्दादि त्रण नयोने पर्यायार्थिकमां समाय छे ते त्रण भावनय छे.

समासतो द्विभेदः द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः
तत्र द्रव्यार्थिकश्चतुर्धा नैगम, संग्रह, व्यव-
हार, रूजुसूत्र भेदात् पर्यायार्थिकस्त्रिधा
शब्द समभिरूढ एवंभूत भेदात्”

श्री सिद्धसेन दिवाकर रूजुसूत्रनयने पर्यायार्थिकमां,

गणे छे माटे तेमना अभिप्राये नैगमादि त्रण नय
 द्रव्यार्थिक अने रूजुसूत्रादि चार नय पर्यायार्थिक
 छे. द्रव्यने सामान्यपणे निरूपण करनारा प्रमाताना
 अभिप्रायो जेओनो आद्यना चार नयनां समावेश
 थाय छे ते द्रव्यार्थिक छे अने जे अभिप्रायो शब्दना
 अर्थनी मूख्यता धरावे छे ते शब्दादिक त्रण नय
 पर्यायार्थिक छे माटे आदिना चार नय ते अविशुद्ध
 छे अने शब्दादिक त्रण नय ते विशुद्ध छे उक्तंच-
 आद्य नय चतुष्टय मविशुद्ध पदार्थ प्ररूपणा
 प्रवणत्वात् अर्थ नया नाम द्रव्यत्व सामान्य
 रूपा नयाः शब्दादयो विशुद्ध नयाः शब्दाव-
 लंवार्य मूख्यत्वात्

तथा च स्याद्वादमंजरौ ये केचनार्थं, निरूपण
 प्रवणाः प्रमात्र भिप्रायास्ते सर्वेऽप्याद्यनय
 चतुष्टयेऽन्तर्भवति ये च शब्दविचार चतुरास्ते
 शब्दादि नय त्रय इति ॥

॥ तथा रत्नाकरावतारिका ग्रंथे “ द्रवति
 द्रोष्यति अद्रुद्रवत् तांतान् पर्यायानिति

द्रव्यं तदेवार्थः, सोऽस्ति यस्य विषयत्वेन
स द्रव्यार्थिकः ”

“ पर्येति उत्पाद विनाशौ प्राप्नोतीति पर्यायः
स एवार्थः स अस्ति यस्यासौ पर्याया-
थिकः ” ॥ ३ ॥

दुर्नय ते सुनय चलाया, एकत्व अभेदे
ध्यायारे ॥ मन० ॥ ते साव परमार्थ समाया,
तसु वर्त्तन भेद गमायारे ॥ मन० ॥ ४ ॥

अर्थः—सुनयनुं लक्षण कहे छे. “ स्वार्थ ग्राही
इतरांशाप्रतिक्षेपी सुनय इति सुनय लक्षणं”
कुनयनुं लक्षण कहे छे. “ स्वार्थ ग्राही इतरांश-
प्रतिक्षेपी दुर्नय इति दुर्नय लक्षणं” अर्थः—स्वा-
भिष्ट धर्मने गवेषतां बीजा धर्मोनी अपेक्षा नहि
राखनार बीजा धर्मोने ओलवनाः जे दुर्नयो तेने
दूर करी स्वाभिष्ट धर्मथी इतर सर्वे धर्मोनी अपेक्षा
राखी स्यात्पदे शोभता सुनय—अनेकांत वादनी
प्रवृत्ति करी, ते अनेकांत—स्याद्वादनेये वस्तुनुं
संपूर्ण स्वरूप जाणी सर्वे धर्मो वस्तुथी एकत्व तथा

अभेद अर्थात् कोई काले जूदा नहि पडे एम चित्तमां
 चिंतन करी धारणा करी ते सर्वे नयोने परमार्थ
 एटले शुद्ध द्रव्यस्वरूपमां समाख्या, तज्जन्य एक
 शुद्धात्म अनुभूतिने भोगववा लाग्या, नयोनी वर्त्तना
 रूय विकल्पनो नाश थयो उक्तंच-उपेन्द्रवज्रा.

य एव सुवत्वा नय पक्षपातं, स्वरूप गुप्ता
 निवसन्ति नित्यं विकल्पजाल व्युत् शान्त-
 चित्ता, स्तएव साक्षादमृतं पिवन्ति ॥ ४ ॥

स्याद्वादी वस्तु कर्हाजे, तसुधर्म अनंत
 लर्हाजे रे ॥ मन० ॥ सामान्य विशेषनुं
 धाम, ते द्रव्यास्तिक परिणाम रे ॥ मन० १५।

अर्थः-वस्तु अनंत धर्मात्मक छे अर्थात् अनंता
 धर्मा वस्तुमां समकाले होय छे. जेम स्वद्रव्यादि
 चतुष्टये वस्तु अस्ति स्वभाववंत छे. पर द्रव्यादि
 चतुष्टये वस्तु नास्ति स्वभाववंत छे. तैमज नित्य
 अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, भव्य, अभव्य,
 वस्तव्य अवस्तव्य, विगेरे स्वभाववंत वस्तु ोय
 छे माटे जो तेमांथी स्वाभिष्ट एक स्वभावने एकांते
 गवेषीये, निश्चय करीये तो वस्तुनुं ज्ञान यथार्थ थाय
 नहीं पय जो स्यात् अस्ति, स्यात् नित्य, स्यात्

एक विगरे अनेकांते गवेषीये तो बाकी रहेला बीजा धर्मोनी पण सूचना थाय एम सर्वे वस्तु स्याद्द्रवाद अनंत धर्मात्मक छे तेथी स्याद्द्रवाद वडे वस्तुमां रहेला अनंत धर्मो बोध थाय.

वली अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रमेयत्व, सत्व, ए व मूल सामान्य तथा अस्तित्व-स्वभाव, नास्तित्वस्वभाव नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, भेदस्वभाव, अभेदस्वभाव भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, वक्तव्यस्वभाव, अवक्तव्यस्वभाव, परमस्वभाव विगरे उत्तरसामान्य स्वभाव वस्तुमां अनंता छे तथा जीनमां चेतनता अनुयायी अनेक विशेष स्वभाव छे तेम धर्मास्तिकायमां गति सहायादि, तथा अधर्मास्तिकायमां स्थितिसहाय आदि तथा आकाशमां अवगाहदान आदि तथा पुद्गलमां पूरण गलनादि अनंत धर्मो छे ते अनंत सामान्य स्वभाव तथा विशेष स्वभावो आधारभूत जे अस्तित्व-धर्म ते सर्वे द्रव्यमां सदाय समकाले परिणमे छे. उक्तंच. " नित्यत्वादीनां उत्तर सामान्यानां परिणामिकत्वादीनां विशेष स्वभावानामाधार-

भूत धर्मत्वं अस्तित्वं ” विगेरे ॥ ५ ॥

जिनरूप अनंत गणीजे, ते दिव्यज्ञान जा-
णीजे रे ॥ मन० ॥ श्रुत ज्ञाने नय पथ
लीजे, अनुभव आस्वादन कीजे रे । मन० ॥ ५ ॥

अर्थ:-जिनेश्वर निर्मल ज्ञानानुयायी अनंत
रमणीय गुणना समूह अनंत धर्म विराजमान छे
अप्रतिहत् महान तेजस्वी अखंड एक ज्ञान मूर्ति
छे, इंद्रिय विषयथी अतीत छे, ज्ञानस्वरूपी ज्ञान-
गम्य छे, तेथी तेओने रागद्वेष रूप मलीमताथी
रहित मात्र शुद्ध दिव्यज्ञानबडे जाणी शकीये माटे
जिनेश्वर ते अनंत गुणात्मक अर्थात् जिनेश्वरना
अनंत गुणोने शुद्ध नये जाणकुं तेज सुंदर अनुपम-
ज्ञान छे ते माटे अनंत गुणात्मक जिनेश्वरने सम्य-
क्प्रकारे जाणवा माटे भवसमुद्रमां नौका समान
सवेज्ञ वीतराग प्ररूपित श्रुतज्ञानना प्रसादथी
सुनय-स्याद्वाद मार्ग ग्रहण करीए. अने शुद्ध नये
जाणी तत्स्वरूपना अनुभवनो आनंद पामीए-
भोगवीए. उक्तंच-राग वसंततिलका वृत्तम-
“ नैकान्त संगत दृशा स्वयमेव वस्तु, तत्त्व

धारी हूँ. जो आपनी आज्ञाने मस्तके चढ़ावी तदनुसार सम्यक्पराक्रम बजावी सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्यने आदरुं-सेवुं तो आप सदृश परमानन्द भोगने निःसंदेह प्राप्त थाउं. उक्तंच-“तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनं, यथार्थ हेयोपादेय परीक्षा युक्त ज्ञानेन सम्यग्ज्ञानं, स्वरूप रमणं पर परित्याग रूपं चारित्रं येतद्रत्नत्रयी रूप मोक्ष मार्ग साधनात् साध्य सिद्धिः” एम में आपना न्याय युक्त अबाध्य वचनना प्रसादे परीक्षा पूर्वक माहरी सत्तानो निर्धार कर्यो छे ॥७॥

तुं तो निज संपत्तिनो भोगी, हुं तो पर परिणातिनो योगी रे ॥ मन० ॥ तिण तुम प्रभु माहरा स्वामी, हुं सेवक तुज गुण ग्रामी रे ॥ मन० ॥ ८ ॥

अर्थः-हुं अनादिथी कर्म शत्रुनी जेलमां पडेलो होवाथी अनंत काल सुधी माहरी ज्ञानादि अखूद लक्ष्मीनुं मने दर्शन पण न मल्युं तेथी जड चल जगत् जीवनी एंव, जलना परपोटा जेवी क्षण-भंगुर, पराधीन, चाहदाहथी बालनार, माहराथी

दूरवर्ती थई अनेक प्रकारना शोक दुःख उपजावनार,
 तेना काल प्रमाणे वर्तनार, सदा अतृप्त राखनार,
 जेनो भोग किंपाकफलनी पेटे प्राण घानक, एवी
 जे पुद्गल परिणति (बौद्गलीक विषयो) तेमां
 हुं भोग सुख मानी मग्न, तल्लीन थई रह्यो, माहरी
 कर्तृत्व, भोक्तृत्व ग्राहकत्व, व्यापकत्व, दान
 लाभ, भोग, उपभोग आदि परिणतिने तद्गत
 करी संसार परिपाटीने वधारी उक्तंच- “ जो
 अपसथ्योरागो, बहुइ संसार भमणं परिवाडी ।
 विसयाइसु सयणाइसु, इष्टं पुग्गलाइसु ॥ ”
 माहरी अनुपम अखूट ज्ञानादिक संपदाथी वियोगी
 रह्यो पण हे भगवंत ! आप तो आत्म संपदाना
 भोगमां अंतराय करनार कर्मशत्रुनो सम्यक्चारित्र
 वडे समूल नाश करी अनंतज्ञान, अनंतदर्शन,
 अनंतसुख, अनंतवीर्य अनंतदान, अनंतलाभ,
 अनंतभोग अनंतउपभोग आदि स्वसंपदानो लाभ
 मेलवी स्वाधीन करी निरंतर निष्कंटक पणे ज्ञानादि
 अनंत अचल निरुपचरित अनुसर आत्म संपदानो
 भोगमां अत्यंत मग्न थया छो. तेथी हे प्रभु ! आप-
 नेज माहारा स्वामी जाणुं छुं, आपथीज माहरो
 मनोर्थ परिपूर्ण थशे. आपनाज दर्शनथी मारी

व्यवस्थितिमिति प्रावल्लोक यन्तः ॥ याद-
 वाद् शुद्धि माधिका माधिगन्य सन्तो, ज्ञानी
 भवन्ति जिन कीति मलन्घयन्तः ॥ भावार्थ-
 सर्वे वस्तु सङ्ग अनेकांतात्मक छे माटे जिनेश्वरना
 स्याद्वाद न्यायत्रे नहि उलंघन करतां वस्तु तत्त्वनी
 अनेकांतात्मक व्यवस्था सन्मुख दृष्टि राखी स्या-
 द्वादनि अधिक शुद्धिने अंगीकार करी सत्पुरुषो
 ज्ञानी बने छे-ज्ञानपद धारण करे छे. ॥ ५ ॥

प्रभु शक्ति व्याक्ति एक भावे, गुण सर्वरह्या
 समभावेरे ॥ मन० ॥ माहरे सत्ता प्रभु
 सरखी, जिन वचन पसाये परखीरे ॥
 मन० ॥ ७ ॥

अर्थः-हे त्रिलोकपूज्य प्रभु ! आपनी ज्ञान
 दर्शन सुख वीर्यादि सर्व शक्तिउं व्यक्त अर्थात्
 निरावरण थई छे, अवाधित पणो पोताना शुद्ध
 कार्ये परिणमे छे, आगामी अनंतकाल सुधी
 एमज परिणमवाने शक्तिमान छे, कोइ पण काले
 क्षीयता पामे नेम नथी कारण के द्रव्यमां सामर्थ्य
 पर्याय तथा छती पर्याय अनंत छे माटे आपनी

शक्ति व्यक्ति एक भावे छे तथा आप अमुक वर्तमान समये सर्वे द्रव्यना त्रिकालवर्ती पर्यायोने समकाले प्रत्यक्ष पणे जाणो छो अर्थात् आ समये आवी रीते परिणामे छे, अब्बते समये अमुक रीते परिणामशे पछी बीजे समये अनागतने वर्तमान पणे जाणो छो अने वर्तमान परिणतिने भूतपणे जाणो छो एम उत्पाद् व्ययने भोगवो छो पण आपनी कोइ पण शक्ति हवे आवृत्त नथी के जे हवे प्रगट व्यक्त थाय माटे सर्वे शक्ति व्यक्ति एक भावे छे. तथा ज्ञान शुद्ध ज्ञानपणे, दर्शन शुद्ध दर्शनपणे, एम आपना सर्वे गुणो राग द्वेष मोह विगेरेथी रहित समभावे परिणामे छे कारण के विषय परिणामना हेतु अज्ञान मिथ्यात्व कषाय-नो आपे समूल नाश कर्यो छे वली जेम आप अचल सिद्ध स्वक्षेत्रमां वसी स्वतंत्र पणे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्याबाधता, अटल अवगाहना, अगुरुलघुत्व, अमूर्तित्व, अजरता, अमरता, निर्भयता, निरामयता, निराकुलता, निर्द्धता, निस्पृहता आदि अनंत गुण जन्य आनंद समूहना विलासी थया छो तेमज हुं पण संग्रह नये आप समान सत्ता-

धारी हूँ. जो आपनी आज्ञाने मस्तके चढ़ावी तदनुसार सम्यक्पराक्रम बजावी सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्यने आदरुं-सेवुं तो आप सदृश परमानन्द भोगने निःसंदेह प्राप्त थाडं. उक्तंच-“तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनं, यथार्थ हेयोपादेय परीक्षा युक्त ज्ञानेन सम्यग्ज्ञानं, स्वरूप रमणं पर परित्याग रूपं चारित्र्यं येतद्रत्नत्रयी रूप मोक्ष मार्ग साधनात् साध्य सिद्धिः” एम में आपना न्याय युक्त श्रवाध्य वचनना प्रसादे परीक्षा पूर्वक माहरी सत्तानो निर्धार कर्यो छे ॥७॥

तुं तो निज संपत्तिनो भोगी, हुं तो पर परिणातिनो योगी रे ॥ मन० ॥ तिण तुम प्रभु माहरा स्वामी, हुं सेवक तुज गुण ग्रामी रे ॥ मन० ॥ ८ ॥

अर्थः-हुं अनादिथी कर्म शत्रुनी जेलमां पडेलो होवाथी अनंत काल सुधी माहरी ज्ञानादि अखूद लक्ष्मीतुं मने दर्शन पण न मल्युं तेथी जड चल जगत् जीवनी एंव, जलना परपोटा जेवी क्षण-भंगुर, पराधीन, चाहदाहथी बालनार, माहराथी

दूरवर्ती थई अनेक प्रकारना शोक दुःख उपजावनार,
 तेना काल प्रमाणे वर्तनार, सदा अतृप्त राखनार,
 जेनो भोग किंपाकफळनी पेठे प्राण घानक, एवी
 जे पुद्गल परिणति (बौद्गलीक विषयो) तेमां
 हुं भोग सुख मानी मग्न, तल्लीन थई रह्यो, माहरी
 कर्तृत्व, भोक्तृत्व ग्राहकत्व, व्यापकत्व, दान
 लाभ, भोग, उपभोग आदि परिणतिने तद्गत
 करी संसार परिपाटीने वधारी उक्तंच- “ जो

अपसत्थोरागो, वहुइ संसार भमण परिवाडी ।

विसयाइसु सयणाइसु, इट्टत्तं पुग्गलाइसु ॥ ”

माहरी अनुपम अखूट ज्ञानादिक संपदाथी विद्योगी
 रह्यो पण हे भगवंत ! आप तो आत्म संपदाना
 भोगमां अंतराय करनार कर्मशत्रुनो सम्यक्चारित्र
 वडे समूल नाश करी अनंतज्ञान, अनंतदर्शन,
 अनंतसुख, अनंतवीर्य अनंतदान, अनंतलाभ,
 अनंतभोग अनंतउपभोग आदि स्वसंपदानो लाभ
 मेलवी स्वाधीन करी निरंतर निष्कंटक पणे ज्ञानादि
 अनंत अचल निरुपचरित अनुसार आत्म संपदानां
 भोगमां अत्यंत मग्न थया छो तेथी हे प्रभु ! आप-
 नेज माहारा स्वामी जाणुं छुं, आपथीज माहरो
 मनोर्थ परिपूर्ण थशे. आपनाज दर्शनथी मारी

स्वयं आत्म लक्ष्मीना स्वामी श्री स्वयं प्रभु स्वामी-
 ने हजारवार-वारंवार, निरंतर, भामणे जाउं अत्यंत
 प्रमोद भावना वडे गुणानुरागी थइ सेवा
 भक्तिमां लीन थाऊं. के जेनो “ वस्तु धरम पूरण
 नीपन्यो” अर्थात् अनादी कालथी ज्ञानावर्णादि
 कर्मवडे आवृत थइ रहेला होवाथी ज्ञानादि आत्म
 धर्मो पोतानुं कार्य शुद्ध रीतेकरी शकता नहोता,
 परवश परानुयायी थइ रह्या हता, कर्मबंधनना हेतु
 थइ रह्या हता, ते सर्वे धर्मो संपूर्ण प्रगटव्यक्त थया
 छे, तदन निरावरण थया छे, अप्रतिहत् पणे-पोताना
 शुद्ध कार्ये निरंतर परिणामे छे तेथी अखंड अचल
 अविनाशी परमानंद दशाने प्राप्त थया छे परम नि-
 र्भय निराकुल दशामां अनंत शुद्धात्म अनुभूतिमां
 तल्लीन थइ रह्या छे. तथा “भाव कृपा किरतार”
 अर्थात् चार गतिरूप अपरिमित भयंकर भवाटवीम
 विषय कषाय-वशे छेदन भेदन ताडन तर्जन तिर-
 स्कार वियोग शोक भय आक्रंद विगरे अनेक
 प्रकारनां असह्य शारीरिक तथा मानसिक दुःखो
 दीन अनाथपणे भोगवताने, अत्यंत कारुण्य भाव-
 नावडे सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप मोक्ष मार्गे
 दोरी, तेथीना दुःखनो समूल नाश करी परमानंदमय

शिवपुरीमां विराजमान करो छो. एज श्री स्वयं-
 प्रभु स्वामीनी दया परमोत्कृष्टता धरावै छे. एण
 जे विषय कषायनी वृद्धि करनार उपदेश, तथा
 पदार्थो आपी, अज्ञानी जीवोनी विषय कषाय तथा
 हिंसानी प्रवृत्तिने वधारे छे-तेनां कारणोने पुष्ट
 करे छे अने हमे दया करीए छीए एम कहेनार
 मिथ्यभिमानी जीवो तो हे प्रभु ! दयालु नहि
 एण वास्तविक न्याये आपना वचनानुसार हिंसाना
 अनुमोदक प्रकृत थाय छे. ॥ १ ॥

द्रव्य धरम ते हो जोग समारवा, विषया-
 दिक परिहार ॥ आत्मशक्ति स्वभाव सुधर्म-
 नो, साधनहेतु उदार ॥ स्वामी० ॥ २ ॥

अर्थः-प्राणातिपात; मृषावाद, अदत्तादान,
 मैथुन, परिग्रह, क्रोध मान, माया, लोभ, राग,
 द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, गतिअरति,
 परपरिवाद, मायामृषावाद तथा मिथ्यास्वशल्प ए
 पापस्थानमां मन वचन कायाने न-प्रवर्त्तितं स्याद्-
 वाद युक्त जिनेश्वरना पवित्र-कल्याणकारी वचनो
 वांचवा, सांभलवा, विचारवामां तथा तेना उपदेष्टा,
 सद्गुरु आदिना विनय वैयावच्चादिमां तथा ज्ञान

धारी हूं. जो आपनी आज्ञाने मस्तके चढ़ावी
 तदनुसार सम्यक्पराक्रम बजावी सम्यक्दर्शन
 ज्ञान चारित्र्यने आदरुं-सेवुं तो आप सदृश परमा-
 नंद भोगने निःसंदेह प्राप्त थाउं. उक्तंच- "तत्त्वार्थ
 श्रद्धानं सम्यग् दर्शनं, यथार्थ हेयोपादेय
 परीक्षा युक्त ज्ञानेन सम्यग्ज्ञानं, स्वरूप
 रमणं पर परित्याग रूपं चारित्र्यं येतद्रत्नत्रयी
 रूप मोक्ष मार्ग साधनात् साध्य सिद्धिः "

एम में आपना न्याय युक्त अबाध्य वचनना प्रसादे
 परीक्षा पूर्वक माहरी सत्तानो निर्धार कर्यो छे ॥७॥

तुं तो निज संपत्तिनो भोगी, हुं तो पर
 परिणातिनो योगी रे ॥ मन० ॥ तिण तुम
 प्रभु माहरा स्वामी, हुं सेवक तुज गुण
 ग्रामी रे ॥ मन० ॥ ८ ॥

अर्थ:-हूं अनादिथी कर्म शत्रुनी जेलमां पडेलो
 होवाथी अनंत काल सुधी माहरी ज्ञानादि अखूद
 लक्ष्मीनुं मने दर्शन पण न मल्युं तेथी जड चल
 जगत् जीवनी एंव, जलना परपोटा जेवी क्षण-
 भंगुर, पराधीन, चाहदाहथी बालनार, माहराथी

दूरवर्ती थई अनेक प्रकारना शोक दुःख उपजावनार,
 नेना काल प्रमाणे वर्तनार, सदा अतृप्त राखनार,
 जेनो भोग किंपाकफरुनी पेठे प्राण घानक, एवी
 जे पुद्गल परिणति (बौद्गलीक विषयो) तेमां
 हुं भोग सुख मानी मग्न, तल्लीन थई रह्यो, माहरी
 कर्तृत्व, भोक्तृत्व ग्राहकत्व, व्यापकत्व, दान
 लाभ, भोग, उपभोग आदि परिणतिने तद्गत
 करी संसार परिपाटीने वधारी उक्तंच- “ जो
 अपसत्थोरारोगो, बहुइ संसार भमण परिवाडी ।
 विसयाइसु सयणाइसु, इष्टंत्तं पुग्गलाइसु ॥ ”
 माहरी अनुपम अखूट ज्ञानादिक संपदाथी वियोगी
 रह्यो पण हे भगवंत ! आप तो आत्म संपदाना
 भोगमां अंतराय करनार कर्मशत्रुनो सम्यक्चारित्र
 वडे समूल नाश करी अनंतज्ञान, अनंतदर्शन,
 अनंतसुख, अनंतवीर्य अनंतदान, अनंतलाभ,
 अनंतभोग अनंतउपभोग आदि स्वसंपदानो लाभ
 मेलवी स्वाधीन करी निरंतर निष्कंडक पणे ज्ञानादि
 अनंत अचल निरुपचरित अनुत्तर आत्म संपदानां
 भोगमां अत्यंत मग्न थया छोःतेथी हे प्रभु ! आप-
 नेज माहरो स्वामी जाणुं. हुं, आपथीज माहरो
 मनोर्थ परिपूर्ण थशे. आपनाज दर्शनथी मारी

अखूट लक्ष्मी माहराउपर प्रसन्न थई माहरे स्वाधीन थशे माटे हूं आपनी सेवाने निरंतर चाहनार आपनी सेवक आपनाज गुण ग्राममां संतोष वृत्ति धारण करुं हूं ॥ ८ ॥

ए संबंधे चित्त समवाय, मुज सिद्धिनुं कारण थाय रे ॥ मन० ॥ जिनराजनी सेवना करवी, ध्येय ध्यान धारणा धरवी रे ॥ मन० ॥ ९ ॥

तुं पूरण ब्रह्म अरुपी, तुं ज्ञानानंद स्वरूपी रे ॥ मन० ॥ इम तत्त्वालंबन करिये, तो देवचंद्र पद वरिये रे ॥ मन० ॥ १० ॥

अर्थः—आपनी सेवामां जो माहरुं चित्त एकाग्र थाय, अभेद संबंध धारण करे तो तत्काल माहरा उपादानमां सिद्धिनुं कारण पद उत्पन्न थाय माटे में तो निश्चय कर्यो छे के हे जिनेश्वर ! अन्य सकल परद्रव्यनी सेवा तजी आपनीज सेवामां निरंतर वसवुं, आपने शुद्ध ध्येय जाणी आपनाज ध्यानमां निश्चल वृत्ति धारण करवी ॥ ९ ॥

कारण के हे जिनेश्वर ! कोइ पण द्रव्यनी कामना आपमां जणाती नथी तथा पोतना ज्ञानादि

सर्वे पर्यायोना आप कारण तथा ज्ञाता भोक्ता
 होवाथी आप पूरण ब्रह्म छो. रूप रस गंध स्पर्श
 संस्थान आदि पुद्गल द्रव्यना कोइ पण पर्यायनो
 आपने रंच मात्र पण संश्लेष नथी नेथी आप अरूपी
 छो. आप पोताना ज्ञानजन्य आनंदमां सदा लीन
 छो-तद्रूप छो माटे आपनुं अवलंबन धारण करू
 छुं. कारण के जेम काष्टना अवलंबने लोडु जलमां
 तरी जाय तेम हुं आपना अवलंबने आ भयंकर
 भवार्णवमांथी तरी देवमां चंद्रमा समान शुद्ध
 सिद्ध परमात्म अवस्थाने प्राप्त थईश. ॥ १० ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ षष्ठम श्री स्वयंप्रभ जिन स्तवनं ॥

मो मनडो हेडाउ हो मिसरि ठाकुरो महदरो

॥ एदेशी ॥

स्वामी स्वयंप्रभने हो जाउं भामणे हरखे

वार हजार ॥ वस्तुधरम पूरण जसु नीपन्यो

भावकृपा किरतार ॥ स्वामी० ॥ १ ॥

अर्थः— महान् अखूट वैभवधारी इंद्र चंद्र चक्र-
 वर्ती आदिना समूहवडे पण वंदनीक, स्वयं बुद्ध,

स्वयं आत्म लक्ष्मीना स्वामी श्री स्वयं प्रभु स्वामी-
 ने हजारवार-वारंवार, निरंतर, भामणे जाउं अत्यंत
 प्रसोद भावना वडे गुणानुरागी थइ सेवा
 भक्तिमां लीन थाऊं. के जेनो “ वस्तु धरम पूरण
 नीपन्यो” अर्थात् अनादी कालथी ज्ञानावर्णादि
 कर्मवडे आवृत थइ रहेला होवाथी ज्ञानादि आत्म
 धर्मो पोतानुं कार्य शुद्ध रीतेकरी शकता नहोता,
 परवश परानुयायी थइ रह्या हता, कर्मबंधनना हेतु
 थइ रह्या हता, ते सर्वे धर्मो संपूर्ण प्रगटव्यक्त थया
 छे, तदन निरावरण थया छे, अप्रतिहत् पणे-पोताना
 शुद्ध कार्ये निरंतर परिणामे छे तेथी अखंड अचल
 अविनाशी परमानंद दशाने प्राप्त थया छे परम नि-
 भय निराकुल दशामां अनंत शुद्धात्म अनुभूतिमां
 तल्लीन थइ रह्या छे. तथा “भाव कृपा किरतार”
 अर्थात् चार गतिरूप अपरिमित भयंकर भवाटवीम
 विषय कषाय-वशे छेदन भेदन ताडन तर्जन तिर-
 स्कार वियोग शोक भय आक्रंद विगेरे अनेक
 प्रकारनां असह्य शारीरिक तथा मानसिक दुःखों
 दीन अनाथपणे भोगवताने, अत्यंत कारुण्य भाव-
 नावडे सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप मोक्ष मार्गे
 दोरी, तेथीना दुःखनो समूल नाश करी परमानंदमय

शिवपुरीमां विराजमान करो छो. एज श्री स्वयं-
 प्रभु स्वामीनी दया परमोत्कृष्टता धरावै छे. पण
 जे विषय कषायनी वृद्धि करनार उपदेश, तथा
 पदार्थो आपी, अज्ञानी जीवोनी विषय कषाय तथा
 हिंसानी प्रवृत्तिने वधारें छे-तेनां कारणोने पुष्ट
 करे छे अने हमे दया करीए छीए एम कहेनार
 मिथ्यभिमानो जीवो तो हे प्रभु ! दयालु नहि
 पण वास्तविक न्याये आपना वचनानुसार हिंसाना
 अनुमोदक प्रकृत थाय छे. ॥ १ ॥

द्रव्य धरम ते हो जोग सभारवा, विषया-
 दिक परिहार ॥ आत्मशक्ति स्वभाव सुधर्म-
 नो, साधनहेतु उदार ॥ स्वामी० ॥ २ ॥

अर्थः-प्राणातिपात; मृषावाद, अदत्तादान,
 मैथुन, परिग्रह, क्रोध मान, माया, लोभ, राग,
 द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, गतिअरति,
 परपरिवाद, मायामृषावाद तथा मिथ्यास्वशल्य ए
 पापस्थानमां मन वचन कायाने न प्रवर्त्तावर्ता स्याद्-
 वाद युक्त जिनेश्वरना पवित्र-कल्याणकारी वचनो
 वाचवा, सांभलवा, विचारवामां तथा तेना उपदेष्टा
 सद्गुरु आदिना विनय वैयावच्चादिमां-तथा ज्ञान

दर्शन चारित्र्यनी वृद्धि तथा स्थिति करवामां प्रवर्त्ता-
ववां तथा “ विषयादिक परिहार ” अर्थात्
चीणा, सारंगी, दुंदुभी, विगेरे वाजीत्र तथा मेना,
पोपट, स्त्री, किंनरी आदिना ललिता मनोहर स्वर
ते श्रवणइंद्रिनो विषय, तथा स्त्री पुरुष पशु पक्षी
बालक बगीचा तथा मनोहर आवास विगेरेना
चित्र विचित्र मनोज्ञ वर्ण तथा घाट ते नेत्रइंद्रिनो
विषय, तथा पारिजातक, कुंद, कमल, मालति,
गुलाब, अगर, तगर, चंदन, केशर, मलयागर विगेरे
पदार्थोनी मनोज्ञ सुगंध ते घ्राणेंद्रिनो विषय, तथा
स्वादीम, खादीम, पेय आदि वस्तुना मनोज्ञ मधु-
रादि स्वाद ते जीव्हाइंद्रिनो विषय, तथा स्त्री
पुरुषादिनां मनोहर अंग तथा शय्या आसन विगेरे
पदार्थोना मनोज्ञ स्पर्श ते स्पर्शेंद्रिनो विषय ए
पंचेंद्रिनां विषयोनो त्याग करवो अर्थात् ते विषयो
ने इष्ट रम्य भोग्य सुहंकर जाणी तेओमां राग,
कामना, मूर्च्छा करवी नहि, प्राप्त स्वाधीन तथा
भोगववानुं सामर्थ्य होवा छतां षण ते विषयादिने
स्वभावाचरणथी चुकवाना हेतु तथा दुःखना निदान
जाणी तेओनो परिहार करवो ते साचो त्याग छे.
पण नहि मलवाथी न भोगववुं ते कई त्याग नथी,

उक्तं च- (दश वैकालिके) “-जे यं कंते पिषु
 भोष, लप्ते विपिठी कुब्बइ ॥ साहीणे चयइ
 भोष, से हु चाइत्ति वुच्चइ ” -एम त्रिजोगणं
 समारंभुं तथा विषयादिनो त्याग ते आत्माना
 मलिन थयेला ज्ञान दर्शन चारित्र आदि स्वभाविक
 धर्मने शुद्ध प्रगट करवामां कल्याणकारी साधनी
 होवाची द्रव्यधर्म छे अर्थात् भाव धर्मना कारणो छे
 उक्तं च-“ कारण यासे दृवं ” अने कारण वगर
 कार्य सिद्धि अलभ्य छे, उक्तं च-कारण जोगे हो
 कारज नीपजेरे, एहमां कोइ न वाद । पण
 कारण विण कारज साधियेरे, ते निज मति
 उन्माद-माटे विषय परिग्रहादि जे रागादि
 अशुद्धोपयोगना हेतुओछे तेनो त्याग करवो अने
 ज्ञान ध्यानादिक, जे रागादिनो नाश करी शुद्धात्म
 भाव प्रगट करवाना हेतुओ छे ते आदरवा, जेथी
 कार्य सिद्धि थाय. ॥ २ ॥

उपशम भावे हो मिश्र क्षायिकपणे, जे
 निज गुण प्राग्भाव ॥ पूर्णावस्थाने नीपजावतो;

साधनं धर्म स्वभाव ॥ स्वामी० ॥ ३ ॥

अर्थ:- एम त्रिजोगनुं समारवुं तथा विषयादि-
 कनो स्याग, ए ज्ञानादि धर्मो प्रगट करवानां
 साधनो छे ते उपशम क्षयोपशम तथा क्षायिकभावे
 प्रगट थएला आत्म गुणोने पूर्ण शुद्ध अवस्थाने
 अर्थात् सिद्धदशाने प्राप्त करे छे. जे कंइ आत्म धर्म
 उपशमपणे क्षयउपशमपणे वा क्षायिकपणे प्रगट
 प्राप्त थयो ते क्रमे क्रमे आत्म गुणोनी शुद्धि करतो
 संपूर्ण शुद्धावस्थाने-सिद्ध अवस्थाने प्राप्त करवाने
 कारण रूप छे. जेम समकित प्राप्त थयाथी विरतिनी
 प्राप्ति थाय, अने विरतिवडे अप्रमत्त भावनी प्राप्ति
 थाय, तथा अप्रमत्त गुण वडे संपूर्ण कषायोनो नाश
 थाय, कषायोना नाशवडे वीतरागता प्राप्त थाय
 छे. अने वीतरागता वडे केवलज्ञान थाय. एम क्रमे
 क्रमे आत्म गुणोनी अधिक अधिक शुद्धि थइ संपूर्ण
 शुद्धि थाय. तेथी जे गुण प्राप्त थयो ते अधिक
 गुणनी प्राप्तिनो हेतु छे. जेम कोइ माणस महान्
 व्याधिग्रस्त होवार्थी जरा पण खोराक लइ पचावी
 शकवाने असमर्थ होय, अत्यंत निर्वल होय पण ते
 कोइ रीते थोडुं बल पामे तो ते बलवडे धीमे धीमे
 अधिक अधिक खोराक पचावी अधिक अधिक

बलवान् थतो पूर्ण बलवान् थाय. उक्तंच-“ प्रशं-
 मरति ग्रंथे--आर्या छंद ॥ पूर्व करोत्यनंतानु-
 वन्धि नाम्नां क्षयं कषायाणाम् । मिथ्यात्व
 मोह गहणं, क्षपयति सम्यक्त्व मिथ्यात्वम्
 सम्यक्त्व मोहनीयं, क्षपयत्यष्टावतः कषायांश्च ।
 क्षपयति ततो नपुंसक, वेदं स्त्रीवेद मथतस्मात्
 हास्यादि ततःषड्भ्यं, क्षपयति तस्माच्च पुरुष-
 वेदमपि ॥ संज्वलनानपि हत्वा, प्राप्नोत्यथ
 वीतरागत्वम् । सर्वोदघातित मोहो, निहत
 क्लेशो यथाहि सर्वज्ञः ॥ भात्यनुप लक्ष्य
 राहंसोन्मुक्तः पूर्ण चन्द्रइव ॥ ” तेषी समकित
 प्राप्ति माटे अत्यंत उद्यम करी प्रथम समकितनी
 प्राप्ति करवी जेथी बीजा सर्वे गुणो प्रगट थाय. ॥३॥

समकित गुणथी हो शैलेशी लगे, आत्म-
 अनुगत भाव ॥ संवर निर्जरा हो उपादान
 हेतुता, साध्यालक्षण दाब ॥ स्वामी० ॥ ४ ॥

अर्थः--अनादि विभाव योगे आत्म परिणति

परानुगत थएली छे अर्थात् ज्ञानशक्ति परद्रव्यने
 जाणवामां, दर्शनशक्ति परद्रव्यने देखवामां—निर्धार
 करवामां, चारित्र्यशक्ति परद्रव्यमां आचरण रमण
 करवामां, एम सर्वे गुणो आत्मगुणना बाधकपणे
 परानुयायी प्रवर्त्ते छे पण ज्यारे समकितनो लाभ
 पामे त्यारे परानुगत थएली आत्म परिणतिने
 शुद्धात्म अनुगत पणे प्रवर्त्ताववानो अभिलाषी
 थाय, शुद्ध कार्य सन्मुख परिणति करे अर्थात्
 “समकित गुणथी” एटले चोथा गुणस्थानथी
 मांडी “शैलेशी गुण लगे” एटले चौदमा गुणस्थान
 सुधा परानुगत थएली आत्म परिणतिने वारी
 क्रमे क्रमे अधिक अधिक शुद्धताए वर्त्तावतो जाय.
 जेम जे परिणति अनात्म वस्तुने आत्म जाणवा-
 सहहवा विगेरेमां प्रवर्त्तती हती ते चोथे गुणस्थाने
 आत्मने आत्मा जाणवा—सहहवा विगेरेमां प्रवर्त्तावे
 तथा जे परिणति हिंसादि पांच अव्रतमां वर्त्तती
 हती ते पांचमे छठे गुणस्थाने अहिंसादि पांच
 व्रतमां वर्त्तावे तथा मद विषय कषाय निद्रा विक-
 र्यामां जे परिणति वर्त्तती हती ते बारी सातमे
 गुणस्थाने अप्रमत्त भावे आत्मगुण रमणमां वर्त्तावे
 एम आठमे गुणस्थाने रसघाति स्थितिघात गुण-

संक्रम गुणश्रेणि करे, अपूर्व स्थिरतामां आत्म परिणतिने प्रवर्त्तावे, संज्वलन क्रोध मान माया विगेरेथी आत्म परिणतिने वारी नवमे गुणस्थाने ते कषाय रहित-अकषायपणे-समभावमां वत्तावे सूक्ष्म लोभ शिवाय बाकीना कषायथी आत्म परिणतिने वारी दशमे गुणस्थाने अधिक शुद्ध समपरिणामे प्रवर्त्तावे, सर्वे कषायनो क्षय करी बारमे गुणस्थाने वीतराग यथाख्यात चारित्रमां वत्ते, चार घातीया कर्मनो समूल क्षय करी तेरवा गणस्थाने अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्यपणे आत्म परिणतिने वत्तावे-योग क्रियानी सकल घपलता वारी चौदमा गुणस्थाने अयोगी अवस्था करी पूर्ण परम निवृत्ति पद पासे. एम दरेक गुणस्थाने आत्म गुणनी अधिक अधिक शुद्धि करतो संपूर्ण सिद्धावस्थाने प्राप्त थाय. एम दाव राखी साध्यने आधारे साध्य सन्मुख उपादान-आत्म परिणतिनी शुद्धताना हेतुए वत्तवुं तेज संख अर्थात् नवाकर्मनुं रोक्वुं तथा निर्जरा एटले पूर्व संचित कर्म क्षय थवानो हेतु छे, उक्तं च-
 " जो संवरेण जुत्ता, अप्पठ प्रसाधगोहि
 अप्प णं । मुनिउण आदि णियदं, णाणं

सो संधुणोदि कम्मरयं ” ॥ ४ ॥

सकल प्रदेशे हा कर्म अभावता, पूर्णानंद स्वरूप ॥ आत्म गुणनी हो जे संपूर्णता, सिद्ध स्वभाव अनूप ॥ स्वामी० ॥ ५ ॥

अर्थ:-आपना आत्म अंगना सर्वे प्रदेशथी ज्ञानावरणादि कर्म मलनो सर्वथा अभाव थयो छे तेथी सर्वे प्रदेश स्फटिकमणि समान शुद्ध संपूर्ण निरावरण थया छे, कोईपण काले हवे कर्म मलनो रंच मात्र पण सरलेश थवानो संभव नथी, तेथी आत्म अंगमां वसता अनंत गुण पर्यायना सर्वे अविभागो संपूर्ण शुद्ध थया छे, शुद्ध कार्ये परिणमे छे तेथी हे भगवंत ! आप पूर्णानंद स्वरूप छो. अर्थात् जगत्जीव तो उपाधिना प्रतिकारथी आनंद माने छे, परद्रव्यने भोग जाणी तेमां लयलीन थई रहे छे तेथी जगत्जीवनो आनंद तो क्षणभंगुर अपूर्ण तथा भयसहित छे, पण आप तो पोताना स्वाधीन अविनश्वर एक क्षेत्रावगाही गुण पर्यायोना भोक्ता छो, तेमां रमण करो छो, तेमां संतुष्ट तल्लीन थई आनंद भोगवो छो तेथी आपनो आनंद कोईपण काले नाश थाय अथवा दूर जाय तेम

नथी तथा स्वाधीन अने सहज होवाथी भय
 आकुलता स्पृहा रहित छे तेथी आपनोज आनंद
 एकांतिक आस्थंतिक पूर्णपदने योग्य छे. जगत्-
 जीवनो आनंद तो साचो आनंद नथी, अज्ञान वशे
 आनंद मनाय छे. एम आत्मगुणनी संपूर्ण शुद्धता,
 कर्तृता, भोक्तृता, परिणामीकता, ग्राहकता, व्या-
 पकता आदि तेज आपनो अनुपम सिद्ध स्वभाव
 छे. हवे कईपण कार्य करवानुं शेष नथी, कईपण
 आदरवानुं तेम छोडवानुं बाकी नथी तेथी अचल
 अबाधित शाश्वत परमानंदता स्वामी छो. ॥ ५ ॥

अचल अबाधित होजे निःसंगता, परमात्म
 चिद्रूप ॥ आत्मभोगी हो रमता निजपदे,
 सिद्ध रमण ए रूप ॥ स्वामी० ॥ ६ ॥

अर्थ:-आत्म परिणामने चल करनार जे राग
 द्वेष मोह परिणाम तेना सर्वथा अभाव होवाथी
 अचल, तथा आत्म परिणामने शुद्धपणे परिणम-
 वामां घात, स्वलना करनार ज्ञानावरणादिक
 घातीकर्मनो अभाव होवाथी अबाधित छो तथा
 धन धान्य क्षेत्र वस्तु हिरण्य आदि बाह्य परिग्रह
 तथा मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रंति

अरति भय शोक जुगुप्सा पुरुषवेद स्त्रीवेद नपुंसक-
वेद चौद अर्भ्यंतर परिग्रह, एम बाल्य अर्भ्यंतर
परिग्रहथी सर्वथा रहित होबाथी निःसंगछो. तथा
ज्ञानानुयायी सर्वे धर्मो संपूर्ण शुद्ध निर्मल होबाथी
परमात्मा छो. तथा संसार अवस्थामां कर्म संयोगे
शरीरमां लोली भूतपणे वसी शरीर रूपे पुद्गल
रूपे संसारी जीव पोताने माने छे पण आप तो
शरीरथी सर्वथा अतित थयाछो तेथी मात्र ज्ञान-
रूप-ज्ञानमूर्ती छो तथा पुद्गल भोगनुं रमण तजी
आप पोताना शुद्ध ज्ञान दर्शनादि गुणोमां रमण
करवावाला आत्म भोगी छो, शुद्ध स्वाधीन अवि-
नश्वर रम्यमां रमण करो छो तेथी आपनुं रमण
संपूर्ण अने अविनश्वर होबाथी सिद्धपद धारण
करे छे ॥ ६ ॥

एह्वो धर्म हो प्रभुने नीपन्यो, भाख्यो
एह्वो धर्म ॥ जे आदरतां हो भविषण
शुचि हुवे, त्रिविध विदारी कर्म ॥
स्वामी० ॥ ७ ॥

अर्थ:-एम प्रभु ! आपना ज्ञानादि सर्वे
धर्मो कर्म मलथी रहित शुद्ध प्रगट थया. अबल,

अविनाशी, अनंत, अज, अलेशी, अवेदी, अकषायी
 अचल, अक्रिय, नित्य, स्वाधीन, निर्द्वेष, परमानंद
 दशाने प्राप्त थया छो. अने जे रीते आप ए दशाने
 प्राप्त थया तेज उपाय, तेज धर्म, परम करुणा वहे
 भव्य जीवोने आ संसार समुद्र-मांथी पारंगत-थई
 शिवभूमि ए पहुँचवा प्ररूप्यो-उपदेश्यो छे. ते
 सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म आदरतां-सेवतां
 भव्य जीवो द्रव्यकर्म, भावकर्म अने नोकम ए
 अण प्रकारना कर्मनो नाश करी परम. पवित्र शुद्ध
 निरावरण थाय. ॥ ७ ॥

नाम धरम हो ठवण धरम तथा, द्रव्य
 क्षेत्रतिम काल ॥ भावधर्मना हो हेतु पणे
 भला, भाव विना-सहु आल ॥ स्वामी० ॥८॥

अर्थ:-नामधर्म, स्थापनाधर्म, द्रव्यधर्म, क्षेत्रधर्म,
 कालधर्म, तथा भावधर्म एम धर्म स्वरूप अनेक
 प्रकारे छे, पण नाम, स्थापना, द्रव्य क्षेत्र तथा काल
 ए जो भावधर्मना सन्मुख, भावधर्मना हेतु होय
 अर्थात् भावधर्म साधवामां कारणभूत होय तो
 प्रशंसनीय कार्यकारी छे पण जो ते भावधर्मनी
 अपेक्षा शून्य होय तो आल अर्थात् निरर्थक धुल

उपर लीपण जेवा जाणवा. “ भाव शून्या क्रिया
न फलन्ति इति ” अथवा एकडा विनानां मीडां
जेवा जाणवा. पण जो भावधर्मनी सापेक्षताए
होय तो एकडा उपरन मीडांनी माफक गुणकारी
छे. ॥ ८ ॥

श्रद्धा भासन हो तत्त्व रमण पणे, करतां
तन्मय भाव ॥ देवचंद्र जिनवर पद सेवतां,
प्रगटे वस्तु स्वभाव ॥ स्वामी० ॥ ९ ॥

अर्थ:-शुद्धात्म तत्त्वनी श्रद्धा अर्थात् जो हूं
जिन प्ररूपित सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक्
चारित्र्य रूप धर्म आदरुं तो हूं पण शुद्धात्म तत्त्वनी
भोगी थई शकुं. एम श्रद्धा करे, नय निक्षेप प्रमाण
युक्त एम जाणे, तथा ते शुद्धात्म तत्त्वनेज पोतानुं
रम्य जाणी तेमांज रमण करे, परद्रव्यादिमांथी
रमणता टाले, तो आत्म स्वभावमांज तल्लीन थाय-
तद्रूप थाय. श्रीमान् देवचंद्र मुनिवर कहे छे के
एम जिनेश्वरना द्रव्यचरण भावचरणने सेवतां
आपणो आत्म स्वभाव संपूर्ण शुद्ध प्रगटे, परमा-
नंदनी प्राप्ति थाय. ॥ ९ ॥



॥ अथ सप्तमं श्री रुषभाननं जिन

स्तवनम् ॥ वारी हुं

गोडी पासने ॥ ए देशी ॥

॥ श्री रुषभाननं वंदिये, अचल अनंत गुण
वास जिनवर । क्षायिक चारित्र भोग्थी,
ज्ञानानंद विलास जिनवर ॥ श्री० ॥ १ ॥

अर्थः—धर्म धुरंधर, धर्म तीर्थंकर, अशरण
शरण, श्री रुषभानन प्रभुने आ लोक परलोकना
विषय सुखनी अभिलाषा स्पृहा रहित तथा मान
पूजाना लोभ रहित, आ संसार समुद्रमांथी तारण
तरण जहाज जाणी, अस्यंत विशुद्ध भावनाए परम
आदर पूर्वक वंदिये—सेवा भक्ति करिये. के जे
प्रभु अचल अर्थात् प्रदेश मात्र पण दूर न थाय
तथा राग द्वेष मोह जन्य चपलता रहित एहवा
ज्ञानादि अनंत गुणना वास—निधान छे तथा क्रोध
मान माया लोभ हास्य रति अरति भय शोक
जुगुप्सा तथा अण वेद ए चारित्रमोहनीय प्रकृतिनो
सत्ता सहित क्षय करी यथाख्यात् स्वभावाश्रयण
ज्ञान दर्शन आदि अनंत स्वभाविक भोग जन्य
आनंदमां अनंत ज्ञान सहित विलसे छे ॥ १ ॥

जे प्रसन्न प्रभु मुख ग्रहे, तेहिज नयन
प्रधान जिनवर ॥ जिन चरणे जे नामीये,
मस्तक तेह प्रमाण जिनवर ॥ श्री० ॥२॥

अर्थ:—हे भगवंत ! आपना ज्ञान दर्शनादि सर्वे
भोग उपभोगो आपने सदा स्वाधीन वर्त्ते छे. कोइ
पण काले प्रदेश मात्र पण दूरवर्त्ती थाय तेम नथी
तेथी आप सदा शोक रहित तथा ते भोग उपभोग
ने कोइ पण बाधा पीडा तथा हरण करी शके तेम
नथी तेथी परम निर्भय, तथा ते भोग उपभोगो
पर द्रव्यना भेल-मलिनता रहित सदा शुद्ध होवाथी
आप गिलानी रहित, तथा ते भोग उपभोगो
अखूट आनंद जनक होवाथी अरति रहित छो,
एम क्रोधादि सर्वे कषाय रहित होवाथी आपनुं
मुखकमल सदा अम्लान परम प्रफुल्लित प्रसन्न छे,
दर्शनीय छे. एहवा आप श्रीना आनंद वर्धक
वदनकमलनुं, जे नेत्र वडे दर्शन थाय तेज नेत्र
प्रधान कल्याणकारी मानुं छुं. तथा मोक्ष मार्गमां
अति शीघ्रताए गमन करनार आपना चरण द्वयने,
जे मस्तक वडे स्पर्श थाय तेज मस्तक पाभ्युं प्रमाण
गणुं छुं ॥ २ ॥

॥ अरिहा पदकज अरचीये, सलहजि
ते हथ जिनवर ॥ प्रभु गुण चिंतनमें रमे,
तेहज मन सुकयथ जिनवर ॥ श्री० ॥३॥

अर्थः—अनादि कालधी आत्म साम्राज्यने
कषजे करि राखनार मोहादि दुष्ट शत्रुउंने जेमणे
अति तिक्षण ज्ञान बाण वडे गतःप्राण निवृत्त
करया छे एहवा हे श्री अरिहंत रूपभानन भगवंत !
माहरा मन मधुकरने अत्यंत विश्रामना स्थान,
शुद्धात्म अनुभूति परिमलधी भरपूर आपना चरण
कमलने, जे हाथ वडे अर्चुं पूजुं तेज हाथ सत्य
लाभकारी समजुं छुं. तथा हे प्रभु ! शरद रूतन
पूर्ण चंद्र समान आल्हादक शांति आपनार आपना
अनंत निर्मल परम पवित्र गुण समूहना चिंतन
मननमां जे मन रमे, प्रमोद सहित वर्ते तेज मन
सुकृतार्थ—सर्व अर्थेनी सिद्धि करनार मानुं छुं. पण
जेम हरिणने तेना कान मनोज्ञ स्वरमां लुब्ध करी
जालमां फसावी शस्त्र वडे प्राणनो वियोग करावे
छे तथा पतंगने जेम तेना नेत्रो मनोज्ञ वर्णमां
मोहित करी अग्निनी ज्वालामां तेना देहने भस्मी-
भूत करावे छे तथा मधुकरने तेनी घ्राणेंद्रि कमलनी

सुवासमां मोहीत करी ते स्थले वेरी राखी तेना
 वल्लभ प्राणनो त्याग करावे जे तेम जो माहरूं
 मन, इंद्रियो तथा अंगोपांग विषय कषायना पदार्थो
 उपार्जन करवामां, मेलववामां, तेनुं सेवन, तेनी
 रक्षा करवामां रोकाय, स्वपर जीवना द्रव्य भाव
 प्राणनी हिंसा करवामां वर्त्ते-मददकारी थाय, पाप
 कमनुं उपार्जन करी भव भ्रमणना हेतु थाय, तो
 एहवा मन तथा इंद्रियोना लाभथी शुं ? तथा दश
 दृष्टानि दुर्लभ एहवा मनुष्य भवनो लाभ पण
 निष्फल-यद्दयुक्तं- “ यः प्राप्य दुःप्राप्यमिदं
 नरत्वं, धर्मं न यत्नं न करोति मूढः ॥ क्लेशः
 प्रबंधेन स लब्ध मब्धौ, चिंतामणिं पातयति
 प्रमादात् ” ॥ तथा “ ते धत्तर तरुं वपंति
 भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमम् । चिंतारत्न मपास्य
 काचशकलं स्वीकूर्वते ते जडाः ॥ विक्रीय
 द्विरदं गिरींद्र सदृशं क्रीणंति ते रासभं । य
 लब्धुं परिहृत्य धर्ममधमा धावति भोगा-
 शया ” ॥ ३ ॥

जाणो छो सद्दु जीवनी, साधक वाधक

भांत जिनवर ॥ पण श्रीमुखथी सांभली,
मन पामे नीरांत जिनवर ॥ श्री० ॥ ४ ॥

अर्थ:-हे त्रिलोक पूज्य ! दर्पण तलनी माफके
आपनी केवल-ज्ञान मय उत्कृष्ट ज्योतिमां सर्वे
द्रव्यो पोताना त्रैकालिक संपूर्ण पर्यायो सहित
प्रयास बिना यथावत् प्रतिबिंबित थाय हे. तेथी
सर्वे जीवोनी साधक वाधक भांति आप जाणो छो
अर्थात् अमुक जीव आ समये सम्यक् ज्ञान दर्शन
चारित्र रूप मोक्ष साधनमां वर्त्ते छे के रत्न भ्रमणा
प्रत्यनीक पणे भव भ्रमणा हेतु कर्म बंधनमां वर्त्ते
छे ए सर्वे वृत्तांत हे करुणा निधि ! आप तो प्रत्यक्ष
पणे जाणोछोज. पण जो आपना मुखारविंदथी
हूं साधक भावमां वर्त्तुं हूं एम सांभलुं तो माहरुं
मन निरांत पामे, भव भ्रमणा भयनो क्लेश शमे
दूर थाय. ॥ ४ ॥

तीन काल जाणंग भणी, शुं कहिये
बारंवार ॥ जि० ॥ पूर्णानंदी प्रभुतणुं,
ध्यान ते परम आधार ॥ जि० ॥ श्री ॥ ५ ।

अर्थ:-त्रणे कालनी परिणतिने हस्तामलकवत्

तथा कार्य सिद्ध थइ गया पछी ते दंडादिमां कारण
 प्रद नथी. कारण के कार्य कारण एक समये छे
 पण जे कार्यानंतर तथा प्रथम अप्रयुक्त काले
 दंडादिकने निमित्त कारण कहे छे ते मात्र नैगम
 नयनो मत जाणवो. एम कार्याना स्वरूपनो जाण-
 नार कार्यानो अभिलाषी कर्ता साचा उपादान तथा
 निमित्तना योगे कार्य सिद्धि पामे पण कारण वगर
 कार्य सिद्धिनो आकाश पुष्पवत् अभाव जाणवो.
 तेथी हे प्रभु ! ज्ञान पूर्वक निर्धार करतां माहरा
 परमात्म सिद्धिना पुष्ट हेतु आपने जाणी आपनुंजे
 शरण अंगीकार करुं छुं. निमित्त कारणना बे भेट छे

(१) पुष्टनिमित्त (२) अपुष्ट निमित्त. “कार्यस्य
 आसन्न निमित्त इति तदेव पुष्टं ” “ दूर तरं
 कारण नैमित्तिकं तत् अपुष्टं ” अर्थात् साध्य
 धर्म जेमां प्रगट-विद्यमान होय तथा जेमां कदापि
 कार्यानो ध्वंसक भाव न होय ते पुष्ट निमित्त जा-
 णवुं. जेमां तीर्थकर भगवंतमां परमात्म पद प्रगट-
 विद्यमान छे तथा परमात्म पदना घातक भावनो
 जेमां सर्वथा अभाव छे माटे तीर्थकर भगवंत पर-
 मात्म पद प्राप्तवामां पुष्ट निमित्त छे एम जाणवुं.

(पुष्ट हेतु जिनेन्द्रोयं मोक्ष सद्भाव साधने)

अपुष्ट निमित्त-जेमां साध्य पद विद्यमान न होय, जे कर्त्तानी प्रेरणाथी कारण थाय छे, वली तेमां ध्वंसक भाव पण रहेलो होय ते अपुष्ट निमित्त छे. जेम दंड ते घटनुं अपुष्ट निमित्त छे कारण के दंडमां घट पणुं विद्यमान नथी वली कुंभार ज्यारे घट करवामां प्रवर्त्तावे तोज घटोत्पत्तिनुं निमित्त कहेवाय पण जो कुंभार घट ध्वंस करवामां वापरे तो ते घट ध्वंसना निमित्त कहेवाय माटे दंड ते घटनुं अपुष्ट कारण जाणवुं. माटे हे रूपभानन भगवंत ! आप मारा परमात्मपदना पुष्ट निमित्त छो माटे आपनीज सेवाथी मारी सिद्धि थशे एम जाणी आपनीज सेवा अंगीकार करुं छुं. ॥ ६ ॥

शुद्ध तत्त्व निज संपदा, ज्यां लगे पूर्ण न
थाय ॥ जि० ॥ त्यां लगे जगगुरु देवना,
सेवुं चरण सदाय ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ७ ॥

अर्थ:-अज्ञानरूप अधकारनो अत्यंत नाश करनार तथा सम्यक्ज्ञान दर्शन वारिअ आदि संपूर्ण आत्म गुणनी सिद्धिने प्राप्त होवथी जगत-

प्रत्यक्ष पणे समकाले जाणवा देखवावाला प्रभु
 प्रत्ये चारंवार शुं कहुं ! मने तो हे प्रभु ! स्वयंभू-
 रमण समुद्रनी पेठे अखूट आनंद रसथी भरपूर
 आपनाज पदनुं ध्यान-आपना पदमां एकाग्रचित्त-
 तल्लीनता तेज भव समुद्रथी तरवामां उत्कृष्ट
 आधार भूत छे. ॥ ५ ॥

कारणथी कारज हुवे, ए श्री जिनमुख
 वाण ॥ जि० ॥ पुष्ट हेतु मुज सिद्धिना, जाणी
 कीध प्रमाण ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ६ ॥

अर्थ:-जगत् दिवाकर, संपूर्ण तत्त्व वेत्ता, श्री
 केवली भगवंत एम प्ररूपे छे के योग्य कारणना
 योग वडे कार्य सिद्धि थइ शके. अर्थात् कार्यना
 स्वरूपनो यथार्थ जाणनार कार्यनो अभिलाषी कर्ता,
 उपादान अने निमित्त कारण वडे कार्य सिद्धि पामी
 शके. उपादान--जे पदार्थ कार्य सन्मुख थाय तथा
 तेज संपूर्ण कार्य रूप थाय--कार्य सिद्धिए जेनी
 हयाति जणाय ते उपादान कारण जाणवुं. जेम
 घटनुं उपादान कारण माटी तथा पटनुं उपादान
 कारण रु अथवा सूतर, कारण के माटीनो पिंड
 थाय, पिंडथी स्थास कुसलादि पर्यायो थइ माटीज

संपूर्ण घट रूप थाय, संपूर्ण घट थये पण माटीने ह्याती छे माटे माटी घटनुं उपादान कारण समजवुं. माटीथीज घट उत्पन्न थइ शके पण अन्य वस्तुमार्थी घट थइ शके नहि. उक्तंच- “ यदात्मकं कार्यं द्रश्यते तदिह तद् द्रव्यं करणं उपादान कारणं यथा तंतवः पटस्य इति ”

निमित्त-जे उपादान कारणथी भिन्न होय छे पण ते विना कार्य सिद्ध थइ शकतुं नथी. कार्य सिद्ध करवामां जेनी खास जरूर छे ते निमित्त कारण छे. ते निमित्त कारण पद, कर्त्ताने आधिन वर्त्ते छे. जेम घटनुं उपादान कारण माटी छे अने माटीथा दंड चक्र चीवर. आदि भिन्न छे तो पण कुंभारने घट सिद्ध करवामां दंड चक्रादिनी अवश्य जरूर छे, ते विना घट बनावी शके नहि, तथी दंड चक्रादि घटनां निमित्त कारण जाणवां पण दंड चक्रादिने कुंभार ज्यारे माटीने घट रूप करवामां प्रवर्त्तावे (उपयोगमां ले) स्थारेज तेउं (दंड चक्रादि) निमित्त कारण कहवाय पण कुंभार घट कार्य करवामां दंड चक्रादिने वापरती न हाय तां तें कारण कहवाय नहि. कार्य करवा मांडतां पहला

तथा कार्य सिद्ध भइ गया पछी ते दंडादिमां कारण
 पंद नथी. कारण के कार्य कारण एक समये छे
 पण जे कार्यानंतर तथा प्रथम अप्रयुक्त काले
 दंडादिकने निमित्त कारण कहे छे ते मात्र नैगम
 नयनो मत जाणवो. एम कार्याना स्वरूपनो जाण-
 नार कार्यनो अभिलाषी कर्ता साचा उपादान तथा
 निमित्तना योगे कार्य सिद्धि पामे पण कारण वगर
 कार्य सिद्धिनो आकाश पुष्पवत् अभाव जाणवो.
 तेथी हे प्रभु ! ज्ञान पूर्वक निर्धार करतां माहरा
 परमात्म सिद्धिना पुष्ट हेतु आपने जाणी आपनुंज
 शरण अंगीकार करुं छुं. निमित्त कारणना बे भेद छे

(१) पुष्टनिमित्त (२) अपुष्ट निमित्त. “कार्यस्य
 आसन्न निमित्तं इति तदेव पुष्टं ” “ दूर तरं
 कारण नैमित्तिकं तत् अपुष्टं ” अर्थात् साध्य
 धर्म जेमां प्रगट-विद्यमान होय तथा जेमां कदापि
 कार्यनो ध्वंसक भाव न होय ते पुष्ट निमित्त जा-
 णवुं. तेम तीर्थकर भगवंतमा परमात्म पद प्रगट-
 विद्यमान छे तथा परमात्म पदना घातक भावनो
 जेमां सबंध अभाव छे माटे तीर्थकर भगवंत पर-
 मात्म पद त अचामां पुष्ट निमित्त छे एम जाणवुं.

(पुष्ट हेतु जिनेन्द्रोयं मोक्ष सद्भाव साधने)

अपुष्ट निमित्त—जेमां साध्य पद विद्यमान न होय, जे कर्त्तानी प्रेरणाथी कारण थाय छे, वली तेमां ध्वंसक भाव पण रहेलो होय ते अपुष्ट निमित्त छे. जेम दंड ते घटनुं अपुष्ट निमित्त छे कारण के दंडमां घट पणुं विद्यमान नथी वली कुंभार ज्यारे घट करवामां प्रवर्त्तावे तोज घटोत्पत्तिनुं निमित्त कहेवाय पण जो कुंभार घट ध्वंस करवामां वापरे तो ते घट ध्वंसना निमित्त कहेवाय माटे दंड ते घटनुं अपुष्ट कारण जाणवुं. माटे हे रूपभानन भगवंत ! आप मारा परमात्मपदना पुष्ट निमित्त छो माटे आपनीज सेवाथी मारी सिद्धि थरो एम जाणी आपनीज सेवा अंगीकार करुं छुं. ॥ ६ ॥

शुद्ध तत्त्व निज संपदा, ज्यां लगे पूर्ण न
थाय ॥ जि० ॥ त्यां लगे जगगुरु देवना,
सेवुं चरण सदाय ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ७ ॥

अर्थः—अज्ञानरूप अंधकारनो अत्यंत नाश करनार तथा सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्र आदि संपूर्ण आत्म गुणनी सिद्धिने प्राप्त होवथी जगत-

गुरु तथा जगत्देव हे रुषभानन स्वामी ! ज्यांसुधी
शुद्धात्म तत्त्वरूप स्वाभाविक अखंड अखूट अनुत्तर
संपदानी मने संपूर्णपणे सिद्धि प्राप्ति न थाय त्यां-
सुधी हे दीनदयाल ! आपना द्रव्य भाष रूप
चरण युग्मनुं निरंतर सेवन करुं एम भावना भावुं
छं ॥ ७ ॥

कारज पूर्ण कर्या विना, कारण केम मूकाय
॥ जि० ॥ कारज रुचि कारण तणा, सेवे शुद्ध
उपाय ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ८ ॥

अर्थ:-जेम समुद्र पार पामवानो इच्छक पुरुष
जो समुद्र वच्चे वहाणनो त्याग कर तो समुद्र पार
जइ शके नहि अने वच्चे डूबी जाय. माटे हे भगवंत !
परमात्म सिद्धिरूप माहरुं काये ज्यां सुधि सिद्ध
थयुं नथी त्यांसुधि पुष्टालंबन रूप आपना चरण
युग्मनी सेवना केम बोंडुं ? कारण के कार्य सिद्धि-
नो रुचिवंत पुरुष कार्य सिद्धे थता सुधी शुद्ध कार-
णोने यथाथे पणे सेवे-आदर ए नाति छे. ॥ ८ ॥

ज्ञान चरण संपूर्णता, अव्याबाध अमाय ॥
जि० ॥ देवचंद्र पद पालीये, श्री जिनराज

पासय ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ९ ॥

अर्थः—स्तवन कर्ता श्री देवचंद्र मुनि कहे छे के तरण तारण सामान्य केवलीओमां राजा समान श्री रूपभानन तीर्थकरना चरण पासय सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्रनी संपूर्णता तथा पूर्ण अन्याबाध पणुं तथा अमायी, अलेशी, अरुंदी, अलोभीपणा आदि सर्वे आत्म गुणनी संपूर्णता रूप इवमां चंद्रमां समान परमात्म पदनी सिद्धि पामीये, कृत कृत्य थइये, अनंत काल सुधि सहज अखंड परमानंद विलासने पामीए. ॥ ६ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अष्टम श्री अनंतवीर्य जिन स्तवनम् ॥

चरणात्मी चासुंडा रण चडे ॥ ए देशी ॥

॥ अनंत वीरज जिनराजनो, शुचि वीरज परम अनंतरे ॥ निज आत्म भावे परिणाम्यो, गुण वृत्ति वर्तनावंतरे ॥ मन मोहह्यं अरुह्यं प्रभु गुणे ॥ १ ॥

अर्थः—सामान्य केवलीउंमां राजां समान श्री अनंतवीर्य भगवंत ! आपनुं “वीर्य” ज्ञानदर्शनादि

सर्वे गुणोने वर्त्तवामां आधारभूत आत्मवीर्यं ते
 “शुचि” पर परिणामिकताथी सर्वथा रहित अत्यंत
 निर्मल तथा “परम” जगत्वासी कोइपण जीवोमां
 एवु आत्मवीर्यं नथी तेथी सर्वोत्कृष्ट तथा “अनंत”
 ज्ञानादि अनंत गुणोमांथो कोइपण गुणने वर्त्तवामां
 जरापण स्वलना (व्याघात) न पामे तथा कोइपण
 काले हीण क्षीण न थाय तेथी अनंत छे.

एवुं श्री अनंतवीर्यं भगवंतनुं परम पवित्र
 परमोत्कृष्ट अनंत आत्मवीर्ये ते फक्त ज्ञान दर्शनादि
 पोतानाज अनंत गुणने परिणमवामां निःप्रयासपणे
 सहायरूप सदा परिणमे छे. एम श्री जिनेश्वरना
 परभावरूप मलिनताथी सर्वथा रहित परम पवित्र
 ज्ञानादि अनंत गुण जोइतेमां माहरुं मन मोखुं-रत
 थयुं-लीन थयुं-गुणानुरागी थयुं. ॥ १ ॥

॥ यद्यपि जीव सहु सदा, वीर्यं गुण सत्ता-
 वंतरे ॥ पण कर्म आवृत्त चल तथा, बाळ
 बाधक भाव लहंतरे ॥ मन० ॥ १ ॥

अर्थ:-वीर्य ए जीवो मूल गुण छे तेथी सर्वे
 जीवो अणे काले वीर्य गुणनी सत्ता सहित छे
 एटले कोइपण जीव कोइपण काले वीर्य वगरनी

नथी; तथापि संसारी जीवो नुं वीर्य अनादिथी, कर्म पटल वडे आवृत्त होवाथी. आत्मगुणो, संपूर्ण शुद्ध केवलज्ञान, केवलदर्शन, यथाख्यात् चारित्रादि रूप परिणमि शकतां नथी अने तेथी पोतानी अनंत अव्याबाध आत्मीय सहज समाधिथी वियोगी रहे छे. तथा "चल" अर्थात् ज्ञानादि आत्म परिणतिमां निश्चल-स्थिर नहि रहेतां राग द्वेष वशे अनेक पुद्गल-पर परिणतिमां चलायमान थइ रहुं छे, पर कार्यमां रोक इ रहुं छे, जेम कोइ पुरुष पर-कार्यमां पोतानी शक्ति रोके तो ते स्वकार्य साधी शके नहि तेमज ते वीर्य "बाल" हिताहितना ज्ञानथी रहित होवाथी "बाधक" अर्थात् पोताने अहितकारी पणो परिणमे छे कारण के बाल बाधक वीर्य वडे जगत् जीवो अज्ञान मिथ्यात कषाय रूप परिणमी अनेक प्रकारना कर्मो बांधि पोताने अत्यंत अहितकारी-दुःख समूह रूप भवोपाधि व्हारी ले छे. पण जो पोताना वीर्य गुणने मात्र सम्यक् ज्ञान दि आत्म परिणाममांज बापरे तो अनंत सुखना स्वामी थाय ॥ २ ॥

अल्प वीर्य क्षयोपशम अछे, अविभाग
वर्गणा रूपरे ॥ षडगुण एम असख्यथी,

थाये योगस्थान स्वरूपरे ॥ मन० ॥ ३ ॥

सुहम निगोदी जीवथी, जाव सप्तोवर
पज्ञात्तरे ॥ योगनां ठाण असंख्य छे, तर-
तम मोहे परायत्तरे ॥ मन० ॥ ४ ॥

अथः—सर्वे छद्मस्थ जीवोनुं आत्म वीर्य
क्षयोपशम भावे सदा होय पण सर्वथा आवृत्त थाय
नहिं. जो सर्वथा आवृत्त होय तो चेतनतानो
समूल अभाव थाय तेथी छद्मस्थ जीवोनु पण
वीर्य गुण क्षयोपशम भावे होयज अर्थात् छद्मस्थ
जावोने पण वीर्यांतरायनो सदा क्षयोपशम होय
अने वीर्यांतरायना क्षयोपशम वडे छद्मस्थ जीवोने
अल्पवीर्यनी प्रगटता होय छे अने ते अल्पवीर्यनी
प्रगटताना कारणथी रत्नत्रयनी मलिनताने योगे
पोताना कर्तृत्व स्वभावने लीधे कर्म (क्रिया) रगे
आत्म प्रदेश चलायमान करे छे एटले “ आत्म
प्रदेश परिस्पंदो योगः ” ए सूत्र प्रमाणे योगी
बने छे. पदयुक्तं—“ उद्मस्थ वीर्य लक्ष्या संगे,
अभिसंधिज मति अंगेरे ॥ सूक्ष्म थूल क्रिया

ने रंगे, योगी थयो उमंगेरे ॥ ” एम योग वशे कर्मनो ग्राहक, थाय छे. ते योगनुं स्वरूप निचे प्रमाणे “ वीर्यांतराय क्षयोपशमोत्पन्नो मनो वचन काय वर्गणालंबनः कर्मादान हेतुभूत आत्मप्रदेश परिस्पंदो योगः ” वीर्यांतराय कर्मना क्षयोपशम वडे उत्पन्न मन वचन अने काय वर्गणानुं अवलंबन करनार कर्म ग्रहण करवामां कारणभूत आत्म प्रदेशनुं परिस्पंद (संचलन) ते योग छे. तिहां जघन्य वीर्यवालो जे जीवप्रदेश ते वली केवलीना तीक्षण बुद्धि रूप शस्त्रे करी हेदतां जे वीर्याशनो बीजो विभाग थई शके नहि ते वीर्य विभाग छे अने भावाणु पण तेनेज कहिये. तेघा लोकाकाशथी असंख्यात गुणा जे वीर्याणु तेणे करी सहित जे जीवप्रदेश तेनो समुदाय एटले जीवप्रदेशनी श्रेणी ते प्रथम वर्गणा, तेथी एक वीर्य विभागे अधिक एवी जे जीव प्रदेशनी श्रेणी छे बीजी वर्गणा; ते वीर्यविभागे अधिक एवी जे जीव प्रदेशनी श्रेणी ते त्रीजी वर्गणा, एम एकेक वीर्य-विभागे अधिक वीर्यवाला प्रदेशनी श्रेणी ते घनी-कृत लोकनी एक प्रदेशिक सूची श्रेणीने असंख्यात

मे भागे जेटला आकाश प्रदेश होय तेटली वर्गणाए एक स्पर्धक थाय, ते प्रथम स्पर्धकनी उत्कृष्ट वीर्यांश वर्गणाथी एटले छेली वर्गणाथी एक बे अथवा संख्याते वीर्यविभागे अधिका कोइ जीव प्रदेश नथी परन्तु असंख्य लोकाकाश प्रमाण वीर्यांशे अधिक जीव प्रदेशनी श्रेणी ते बीजा स्पर्धकनी प्रथम वर्गणा जाणवी, वली तेथी एकेक वीर्यविभागे वधता वधता जीव प्रदेशनी वर्गणाए करी बीजो स्पर्धक थाय, तेथी वली असंख्य लोकाकाश प्रदेश भाग प्रमाण वीर्यांशे अधिक वीर्यवंत जीव प्रदेशनी श्रेणी ते बीजा स्पर्धकनी प्रथम वर्गणा, एणी पेरे श्रेणी प्रदेश असंख्येय भाग प्रमाण स्पर्धके पहेलुं जघन्य योगस्थानक थाय, तेथी अंगुलना असंख्या-तमां भागना आकाश प्रदेश प्रमाण स्पर्धके वधतुं बीजुं योगस्थानक होय, तेथी वली तेटलेज स्पर्धके वधतुं बीजुं योग स्थानक होय, एम असंख्याता योगस्थान थाय. वीर्यांतरायना क्षयोपशमना असं-ख्य भेद छे तेथी उपर प्रमाणे योगना पण असं-ख्याता भेद थाय अर्थात् सूक्ष्म निगोदीआ लब्धि अपर्याप्ता जीवने भव प्रथम समये सहुथी जघन्य योग होय छे अने सन्नि पंचेंद्रि पर्याप्ता मनुष्य सौथी

उत्कृष्ट योग पामी शके छे एम मोहनी तरतमता वशे (वीर्यांतरायना क्षयोपशमना भेद वशे) सूक्ष्म निगोदिया लब्धिअपर्याप्ता जीवना भव प्रथम समयथी मांडी सन्नि पंचेंद्रिय मनुष्य सुधी असंख्यात योगस्थान जाणवां ॥ ३ ॥ ४ ॥

संयमने योगे वीर्य ते, तुम्हें कीधो पंडित दक्षरे ॥ साध्य रसी साधक पणे, अभिसंधि रम्यो निज लक्षरे ॥ मन० ॥ ५ ॥

अर्थ:-ज्यांसुधी सम्यक्दर्शन सम्यक्ज्ञाननी प्राप्ति थइ नथी त्यांसुधी संसारी जीव मिथ्यात अज्ञानवशे पौद्गलीक कार्यने पोतानुं कार्य मानी वीर्यांतरायना क्षयोपशम वडे प्राप्त थयेला आत्म-वीर्यने असंयममां अर्थात् स्वपर जीवनी द्रव्यभाव हिंसामां वापरे छे, पोताना वीर्यने बाल बाधक भावे परिणमावे छे, पोताना वीर्य वडे कर्मबंध करी भव भ्रमणनी उपाधि प्राप्त करे छे. पण हे भगवंत ! आपे सम्यक्दर्शन सम्यक्ज्ञान वडे पोतानुं शुद्धोपयोग रूप कार्य जाणी बाल बाधक भावनो परिहार करी क्षयोपशम वडे प्राप्त थयेला वीर्यने संयम कार्यमां जोड्युं अर्थात् ज्ञानदर्शन चारित्र्यने निर्मल-

पणे परिणमवामां सहायकारी कर्तुं. मन वचन तथा
 काययोगने संयम कार्यमां जोड्या एम आत्मवीर्यने
 पंडितभावे तथा हितकारी भावे परिणमाव्युं.
 सच्चिदानंदमय शुद्धात्म द्रव्यं पोतानुं शुद्ध साध्य
 जाणी तेना रसीआ-ते साधवाना उमंगी थड
 अभिसंधिज वीर्यने (जे मतिपूर्वक उपयुक्त वीर्य
 ते अभिसंधिज वीर्य) निज लक्षमां एटले अनंत-
 सुखे पिंड जे शुद्धात्मपद ते साधवामां रमाव्युं-
 वापर्युं. एम अभिसंधिज वीर्यने शुद्ध कारक प्रवृत्ति-
 मां जोडी अबंधक भावे परिणमाव्युं ॥ ५ ॥

अभिसंधि अबंधक नीपने, अनभिसंधि
 अबंधक थायरे ॥ स्थिर एक तत्त्वता वर्तते
 ते क्षायिक भाव समायेरे ॥ मन० ॥ ६ ॥

अर्थ:-एम हे भगवंत ! आपनुं अभिसंधिज
 वीर्य अबंधक भावे वर्तवाथी अनभिसंधिज वीर्य
 पण अबंधक भावे परिणम्युं (मन चिंतनापूर्वक
 आहार विहारा क जे करण व्यापार ते अभिसं-
 धिज वीर्य कहीये अने जे मन चिंतना विना केवल
 वचन अने कायाना व्यापार ते अनभिसंधिज वीर्य
 कहीये) माटे जेनी मनोवृत्ति-अंतरंग उपयोग

अबंधक भावमां वर्से छे तेनी बचन अने कायानी क्रिया पण अबंधक भावमांज गणाय, संवर हेतुज गणाय. यद्यक्तं—भावास्त्रवाभावमयं प्रपन्ना, द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ज्ञानी सदा ज्ञान मयैक भावो, निरास्त्रवो ज्ञायक एक एव.” एम द्रव्यसंवर तथा भावसंवरना स्वामी थइ कर्मबंधनो परिहार करी आत्मवीर्यने निर्मल रत्नत्रयमां सहायभूत करी पोताना निर्मल एक परमात्मतत्त्वमां स्थिर तल्लीन पणे वर्त्ततां “ क्षायिक भाव समाधरे ” शुद्धात्म परिणतिनो | व्याघात करनार घातीया कर्मनो समूल क्षय करी अनंत-ज्ञान अनंतदर्शन/अनंतसुख अनंतवीर्य रूप पोतानी अनुपम अविनश्वर केवल लक्ष्मीने वर्धा, तेरमा गुणस्थाने विराजमान थया ॥ ६ ॥

॥ चक्र भ्रमण न्याय सयोगता, तर्जी कीध अयोगी धामरे ॥ अकरण वीर्य अनंतता, निजगुण सहकार अकामरे ॥ मन० ॥ ७ ॥

अर्थः—पछी चक्रभ्रमण न्याये अर्थात् चक्रने फेरववा माटे कुंभार चक्रमां दंड घाली बहु जोरथी

एकदम चक्रने फेरवे छे तेथी ते बलना वेग वडे दंड काढी लीधा पछी पण केटलीकवार सुधी चक्र फर्या करे छे. तेम अनादि कालथी आत्मा अज्ञान वशे पर कार्यने पोतानुं कार्य मानी ममत्व सहित योग क्रियामां प्रवृत्ति करे छे तेथी केवल ज्ञान थये पण दंड काढी लीधा पछी चक्र जेम फर्या करे छे तेम तेरमा गुणस्थाने पूर्व उदयवडे निर्ममत्वपणे योग-क्रिया थाय छे तेथी तेरमा गुणस्थाने पण सयोगी-पणुं छे ते चक्रभ्रमण न्याये रहेली सयोगता एटले सयोगीपणानो पण हे भगवंत ! आप त्याग करी “ कीध अयोगी धामरे ” अयोगी गुणस्थाने पधार्या करणवीर्य एटले इंद्रिजन्य बलवीर्यनो त्याग करी अतींद्रिय अनंत आत्मीक वीर्यनी प्रगटता करी. जे वीर्य मात्र ज्ञानादिगुण वर्तनामांज सहायकारी थाय पण अन्यद्रव्यनी कामनामां कदापिकाले चलाय-मान थाय नहि. तेथी हे भगवंत ! आप अकरण वीर्यना प्रभाव वडे अनंतकाल सुधी अकाम तथा स्वानुभूति जन्य परमानंदमां निरंतर विलास करशो. ॥ ७ ॥

॥ शुद्ध अचल निज वीर्यनी, नैरुपाधिक शक्ति अनंतरे ॥ ते प्रगटी में जाणी सही,

तेणे तुमाहिज देव महंतरे ॥ मन० ॥ ८ ॥

अर्थः—सर्व विभाग रूप संश्लेष रहित जे आत्म वीर्य ते शुद्ध छे, तथा तेज वीर्य कामना रहित मात्र पोताना स्वगुण पर्यायमां वर्त्तवाथी परगुण पर्यायमां चलायमान थतुं नथी तेथी अचल छे, एवा शुद्ध अने अचल वीर्यनी नैरुपाधिक अर्थात् स्वाभाविक अनंत शक्ति छे अर्थात् ते वीर्य वडे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन विगेरेनी वर्त्तना थाय छे माटे ज्यांसुधी वीर्यगुणमां अशुद्धपणुं तथा चलपणुं छे त्यांसुधी अल्प बल छे, अनंत ज्ञानदर्शनरूप अनंत शक्ति होइ शके नहि. पण हे भगवंत ! ते शुद्ध अने अचल वीर्यनी स्वाभाविक अनंत शक्ति आपमां प्रगटपणे छे एम में निसंदेह जाण्युं कारण के एक समयमां सर्व पदार्थना त्रैकालिक पर्यायने प्रगटपणे जाणो देखो छो तेथी हे भगवत ! आपज देव ईद्रादिकने पूजवा लायक देवाधिदेव छो, अनंत केवल लक्ष्मी वडे सदा देदिप्यमान छो ॥ ८ ॥

तुज ज्ञान चेतना अनुगमी, मुज वीर्य स्वरूप समायरे ॥ ॥ पंडित क्षायिकता पामशे ष पूरण सिद्धि उपायरे ॥ मन० ॥ ९ ॥

पणे परिणमवामां सहायकारी कर्युं. मन वचन तथा काययोगने संयम कार्यमां जोड्या एम आत्मवीर्यने पंडितभावे तथा हितकारी भावे परिणमाव्युं. सच्चिदानंदमय शुद्धात्म द्रव्यन पोतानुं शुद्ध साध्य जाणी तेना रसीआ-ते साधवाना उमंगी थइ अभिसंधिज वीर्यने (जे मतिपूर्वक उपयुक्त वीर्य ते अभिसंधिज वीर्य) निज लक्षमां एटले अनंत-सुखे पिंड जे शुद्धात्मपद ते साधवामां रमाव्युं-वापर्युं. एम अभिसंधिज वीर्यने शुद्ध कारक प्रवृत्ति-मां जोडी अबंधक भावे परिणमाव्युं ॥ ५ ॥

अभिसंधि अबंधक नीपने, अनभिसंधि अबंधक थायरे ॥ स्थिर एक तत्त्वता वर्तते ते क्षायिक भाव समायेरे ॥ मन० ॥ ६ ॥

अर्थ:-एम हे भगवंत ! आपनुं अभिसंधिज वीर्य अबंधक भावे वर्तवाथी अनभिसंधिज वीर्य पण अबंधक भावे परिणम्युं (मन चिंतनापूर्वक आहार विहारानि जे करण व्यापार ते अभिसंधिज वीर्य कहीये अने जे मन चिंतना विना केवल वचन अने कायाना व्यापार ते अनभिसंधिज वीर्य कहीये) माटे जेनी मनावृत्ति-अंतरंग उपयोग

अबंधक भावमां वर्त्ते छे तेनी बचन अने कायानी
 क्रिया पण अबंधक भावमांज गणाय, संवर हेतुज
 गणाय. यद्यत्तं—भावास्त्रवाभावमयं प्रपन्ना,
 द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ज्ञानी सदा
 ज्ञान मयैक भावो, निरास्त्रवो ज्ञायक एक
 एव.” एम द्रव्यसंवर तथा भावसंवरना स्वामी
 थइ कर्मबंधनो परिहार करी आत्मवीर्यने निर्मल
 रत्नत्रयमां सहायभूत करी पोताना निर्मल एक
 परमात्मतत्त्वमां स्थिर तल्लीन पणे वर्त्तता “ क्षायिक
 भाव समायेरे ” शुद्धात्म परिणतिनो | व्याघात
 करनार घातीया कर्मनो समूल क्षय करी अनंत-
 ज्ञान अनंतदर्शन | अनंतसुख अनंतवीर्य रूप पोतानी
 अनुपम अविनश्वर केवल लक्ष्मीने वर्या, तेरमा
 गुणस्थाने विराजमान थया ॥ ६ ॥

॥ चक्र भ्रमण न्याय सयोगता, तजी कीध
 अयोगी धामरे ॥ अकरण वीर्य अनंतता,
 निजगुण सहकार अकामरे ॥ मन० ॥ ७ ॥

अर्थः—पङ्की चक्रभ्रमण न्याये अर्थात् चक्रने
 फेरववा माटे कुंभार चक्रमां दंड घाली बहु जोरथी

एकदम चक्रने फेरवे छे तेथी ते बलना वेग वडे दंड काढी लीधा पछी पण केटलीकवार सुधी चक्र फर्या करे छे. तेम अनादि कालथी आत्मा अज्ञान वशे पर कार्यने पोतानुं कार्य मानी ममस्व सहित योग क्रियामां प्रवृत्ति करे छे तेथी केवल ज्ञान थये पण दंड काढी लीधा पछी चक्र जेम फर्या करे छे तेम तेरमा गुणस्थाने पूर्व उदयवडे निर्ममत्वपणे योग-क्रिया थाय छे तेथी तेरमा गुणस्थाने पण सयोगी-पणुं छे ते चक्रभ्रमण न्याये रहेली सयोगता एटले सयोगीपणानो पण हे भगवंत ! आप त्याग करी “ कीध अयोगी धामरे ” अयोगी गुणस्थाने पधार्या करणवीर्य एटले इंद्रिजन्य बलवीर्यनो त्याग करी अतींद्रिय अनंत आत्मीक वीर्यनी प्रगटता करी. जे वीर्य मात्र ज्ञानादिगुण वर्त्तनामांज सहायकारी थाय पण अन्यद्रव्यनी कामनामां कदापिकाले चलाय-मान थाय नहि. तेथी हे भगवंत ! आप अकरण वीर्यना प्रभाव वडे अनंतकाल सुधी अकाम तथा स्वानुभूति जन्य परमानंदमां निरंतर विलास करशो. ॥ ७ ॥

॥ शुद्ध अचल निज वीर्यनी, नैरुपाधिक शक्ति अनंतरे ॥ ते प्रगटी में जाणी सही,

तेणे तुमाहिज देव महंतरे ॥ मन० ॥ ८ ॥

अर्थः—सर्व विभाग रूप संश्लेष रहित जे आत्म वीर्य ते शुद्ध छे, तथा तेज वीर्य कामना रहित मात्र पोताना स्वगुण पर्यायमां वर्त्तवाथी परगुण पर्यायमां चलायमान थतुं नथी तेथी अचल छे, एवा शुद्ध अने अचल वीर्यनी नैरुपाधिक अर्थात् स्वाभाविक अनंत शक्ति छे अर्थात् ते वीर्य वडे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन विगेरेनी वर्त्तना थाय छे माटे ज्यांसुधी वीर्यगुणमां अशुद्धपणुं तथा चलपणुं छे। त्यांसुधी अल्प बल छे, अनंत ज्ञानदर्शनरूप अनंत शक्ति होइ शके नहि. पण हे भगवंत ! ते शुद्ध अने अचल वीर्यनी स्वाभाविक अनंत शक्ति आपमां प्रगटपणे छे एम में निसंदेह जाण्युं कारण के एक समयमां सर्व पदार्थना त्रैकालिक पर्यायने प्रगटपणे जाणो देखो छो तेथी हे भगवत ! आपज देव ईद्रादिकने पूजवा लायक देवाधिदेव छो, अनंत केवल लक्ष्मी वडे सदा देदिप्यमान छो ॥ ८ ॥

तुज ज्ञान चेतना अनुगमी, मुज वीर्य स्वरूप समायरे ॥ ॥ पंडित क्षायिकता पामशे ए पूरण सिद्धि उपायरे ॥ मन० ॥ ९ ॥

अर्थ:-हे भगवंत ! तमारा निरंतरे शुद्ध परिण-
मता कवल ज्ञानादि गुणोने माहरी चेतना अनुगमे
अर्थात् मारो चैतन्य उपयोग तदनुयायी वर्त्ते, केवल
ज्ञान केवलदर्शन रूप परिणमवानो रसीयो थाय तो
माहरू अ त्मवीर्य “ स्वरूप समायरे ” राग
द्वेषादि सर्व विभाविक कार्यमां उत्सुक तथा स्फुराय-
मान थतुं अटकी केवल आत्म गुणनेज सहायभूत
पणे वर्त्ते. एम माहरू वीर्य पंडित भावे अबंधक
पणे वर्त्ततां क्षायिक लब्धिने प्राप्त करशे एज पूर्णपदे
सिद्ध थवानो साचो उपाय छे ॥ ६ ॥

॥ नायक तारक तुं धणी, सेवनथी आत्म
सिद्धिरे ॥ देवचंद्र पद् संपजे, वर परमा-
नंद समृद्धिरे ॥ मन० ॥ १० ॥

अर्थ:-हे अनंत वीर्य प्रभु ! आ जगत्त्रयमां
सर्वेथी उत्कृष्ट अनंतवीर्य आपनुं होवाथी आपज
नायक छो, वली भवसमुद्रमा दूषता भव्य प्राणी-
योने आपे निर्माण करेला चरण जहाजे बेसाडी
भवसमुद्रमांथी तारवाने आपज समर्थ होवाथी
तारक छो, वली मोहादि शत्रुंथी रक्षा करवामां
आपज समर्थ होवाथी धणी छो, तथी हे भगवंत !

आपनेज खेववाथी मारी सिद्धि थशे तथा देवमां
चंद्रमा समान अरिहंत पदनी प्राप्ति थशे तथा
परमानंदरूप उत्तम समृद्धिनी संप्राप्ति थशे ॥१०॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ नवम श्री सूरप्रभ जिन स्तवनम् ॥

॥ देशी कडखानी ॥

सूर जगदीशनी तीक्ष्ण अति शूरता, तेणे
चिरकालनो मोह जीत्यो ॥ भाव स्याद्वा-
दता शुद्ध परगास करी, नीपन्यो परमपद
जग वदीतो ॥ सू० ॥ १ ॥

अर्थः—अनादिकालयो लागेलो मोहरूप महान्
शत्रु के जे दर्शन—मोहनीय प्रकृति वडे आत्माना
सम्यक् दर्शन गुणनो, तथा क्रोध वडे आत्माना
क्षमा गुणनो, मान वडे आत्माना मार्दव गुणनो,
माया वडे आत्माना आर्यव गुणनो, तथा लोभ
वडे आत्माना मुक्ति—निर्लोभ—निस्पृह गुणनो, एम
अनेक गुणनो घात करी आत्मानो शुद्ध सहज
अपरिमित आत्मीय समाधिनी नाश करी भवरूप
जेलखानामां त्रिलोकपूज्य आत्माने केद करी राखे

छे. तेनो (मोहनो) जगत्त्रयना ईश्वर, जगत्
 शिरोमणी श्री सूर प्रभुए अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक्-
 पराक्रमथी सम्यक् ज्ञान चारित्र रूप अत्यंत तीक्ष्ण
 मम भेदक शस्त्रो वडे छिन्न भिन्न करी अल्पकालमां
 पराजय-समूल नाश कर्यो भविष्यमां कोई पण
 काले एबुं दुष्ट कृत्य करवाने पुनः समुत्थित-संजी-
 वन थाय नहि. अने जीवादि पंचास्तिनी शुद्ध
 स्याद्वादपणे तथा लक्ष्य लक्षण अभेदपणे शुद्ध
 निश्चय नये निजपर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला
 अनंत धर्मात्मक शुद्धात्म द्रव्यने कर्म मलथी रहित
 अत्यंत शुद्ध प्रगट करी जगत् त्रयमां पूज्य, प्रशंस-
 नीय, आह्लादकारी, आदरणीय परमात्म (मोक्ष)
 पद निपजाव्युं-संप्राप्त कर्युं-यद्युक्तं-शार्दूल विक्री
 डितम् ॥ “ त्यक्त्वाऽशुद्धि विधायि तत्किल
 पर द्रव्यं समग्रं स्वयं, स्वद्रव्ये रंति मेति यः
 सनियतं सर्वापराधच्युतः; बन्धध्वंस मुपेत्य
 नित्य मुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-चैतन्या-
 मृतपूरपूर्ण महिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ” ॥१॥

प्रथम मिथ्यात्व इणि शुद्ध दंसण निपुण,

प्रगट करि जेणे अविरति पणाशी; शुद्ध
चारिश्रगत वीर्य एकत्वथी, परिणति कलुषता
सवि विणाशी ॥ २ ॥ सू० ॥

अर्थ:-हवे श्री सूर स्वामीए परमपूज्य परमात्म
पद जे रीते सिद्ध कर्युं ते साधना क्रम सहित
बखाणे छे.

प्रथम तो, जेना उदय बडे आत्मा शुद्ध देवने
अदेव, अदेवने शुद्ध देव, सुगुरुने कुगुरु, कुगुरुने
सुगुरु, धर्मने अधर्म, अधर्मने धर्म, जीवने अजीव,
अजीवने जीव, मोक्षने अमोक्ष, अमोक्षने मोक्ष
मानेछे, जीवादि तत्त्वमां विपरितं श्रद्धान करे छे
तथा उत्कृष्ट सीतेर कोडाकोडी सागरोपमनी
स्थितिनो बंध करे छे एवी मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति
तथा मिश्रमोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाश
करी चिंतामणि रत्न समान अत्यंत दुर्लभ शुद्ध
निर्मल सम्यक्दर्शन संप्राप्त कर्युं के जे इंद्रत्व, चक्रि-
त्व, चिंतामणि तथा कल्पवृक्षथी पण अधिक दुष्प्राप्य
छे. उक्तंच- “ इंद्रत्तं चक्रिकत्तं, सुरमणि
कप्पद्दुमस्स कोडीणं । लाभो सुलहो दुल्लहो, दं-
सणो तीथ्यनाहस्स ॥ ” तथा जे विना नवपूर्व

सुधीनुं ज्ञानपण अज्ञान कहेवाय छे त ग जे विना दशमा पूर्वनुं ज्ञान तो थतुंज नथी, वली जे विना संसार परिभ्रमणनी सीमा आवती नथी, जे विना सम्यक्चारित्र-संयमनी प्राप्ति थई शकती नथी, जे विना द्रव्यचारित्र पालनार प्रथम गुणस्थाने वर्त्ते छे माटे श्री जिनेश्वर, सर्व धर्मनुं मूल तथा मोक्षनुं प्रथम पगधीउं कहे छे. यद्युक्तं-श्री मदभयदेव आचार्येण-“ दंसण मूलो धम्मो, उवइठो जिणवरोहिं सीसाणं । तं सोउण सकन्नं, दंसण हीणो न वंदिव्वो ॥ ” लोकालोक प्रकाशक श्री जिनेश्वर देव पोताना शिष्यो प्रत्ये सर्वे धर्मनुं मूल सम्यक्दर्शनने बतावे छे माटे दर्शन हीण पुरुषने वंदना करवी नहि. उक्तंच-“ सम्मत्त रयण भठा, जाणंता बहु विहावि सछाईं । सुद्धाराहण रहिआ, भमंति तछेव तछेव ॥” सम्यक्दर्शनथी अष्ट पुरुष बहु प्रकारना शास्त्र जाणता छतां पण शुद्ध आराधना रहित होवाथी संसार अक्र वा मां ज्यां त्यां भ्रमण कर्षां करे छे कारणके सम्यक्दर्शन विना शुद्ध आराधनानी प्राप्ति होय नहि. “ शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुगल

आवर्त्तने अधरे ” “ जह मूलमि विणठे,
दुमस्स परिवार नच्छि परिवुद्धी । तह जिण
दंसण भठा, मूल विणठा ण सिञ्जांति ॥ ”

जेम मूल विनष्ट, वृक्ष शाखा परिशाखानी
परिवृद्धि पामे नहि, तेम धर्मनुं मूल सम्यक्दर्शन
नष्ट यतां मोक्ष प्राप्ति थाय नहि.

“ जिण पणत्त धम्मं, सद्वहमाणस्स होइ
रयणमिणं । सारं गुण रयणाणय, सोवाणं
पढम मोरकस्स ॥ ”

गुण रत्नाकरमां सारभूत जे सम्यक्दर्शन ते
श्री जिन प्ररूपित धर्मनी श्रद्धा राखनारने होय छे
अर्थात् नयनिक्षेप पक्ष प्रमाण युक्त जिन प्ररूपित
तत्त्वनी यथार्थ श्रद्धा ते सम्यक्दर्शन छे जे मोक्षनुं
प्रथम सोपान (पगथी उं) छे.

“ संजम रहिअं लिंगं, दंसण भठं न संजमं
भाणियं । आणा हीणं धम्मं, निरत्थयं होइ
सव्वंपि ॥ ”

साधुनो लिंग-वेश, संजम विना शोभा पामे

नहि तथा फल पामे नहि. अने सम्यक्दर्शन भ्रष्ट
ने संजम कहुं नथी एम जिनेश्वरनी आण रहित
सर्वे धर्मक्रिया निरर्थक अर्थात् मोक्ष फल आपी
शके नहि.

तथा योगनी वीशीमां कहुं छे के “ णाण
गुणोहिं विहिणा, किरिया संसार बढुणी
भाणिया ” ज्ञान गुण बगरनी क्रिया संसार बधार-
नारी कही छे. कारण के सम्यक्ज्ञान बगर संवर
थाय नहि. अने संवर विना सर्वे समये कर्मबंध
थाय अने कर्मबंधथी संसार वृद्धि थाय ए स्पष्ट छे.
तथा सम्यक्दर्शन रहितने ब्रत पालता छतां पण
तत्त्वार्थसूत्रमां अब्रती कहे छे “ निशल्यो ब्रती”
मिथ्यात्वशल्य, मायाशल्य, अनेनिदानशल्य रहित
ब्रतधारी होय ते ब्रती छे. तथा वली श्रीमान् यशो-
विजयजी कहे छे के “ रागमल्हार-भावीजेरे सम-
कीत जेहथी रुअडुं, ते भावनारे भावो मन करी
परवडुं । जो समकीतरे ताजुं साजुं मूलरें, तो ब्रत
तरुरे दीये शिवपद अनुकूलरें । झूटक-अनुकूल मूल
रसात्त समकीत, तेह विण मति अधरे । जे करे
क्रिया गर्ब भरिया, हते जूठो धंवरें ॥ ” मा टे

जो समकीतमूल ताजूं होय तो व्रततरु शिव फल
आपी शके माटे मोक्षफलना इच्छक पुरुषे सर्वथी
पहेलां समकीत रत्न प्राप्त करवानो उद्यम करवो
ए सार छे. माटे समकीत शी वस्तु छे ते जाणवुं
जोइये.

“ जिय अजिय पुणपावा—सव संवर बंध मुस्क
निझरणा । जेणं सहहइ तयं, सम्मं खडगाइ
बहु भेअं ॥ ”

जीवा जीवादिक नव तत्त्वनुं स्वरूप श्री
जिनेश्वरना आगम प्रमाणे नयनिक्षेप पक्ष प्रमाणे
यथार्थ जणी सहहवुं तथा हेय तत्त्वने छांडवानी
रुची तथा उपादेय तत्त्वने आदरवानी रुची ते
समकीत जाणवुं. तथा च तत्त्वार्थ सूत्रे—“ तत्त्वार्थ
श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्—” “ जीवाजीवास्त्रव
बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्— तेमां जीव-
तत्त्व, संवरतत्त्व, निर्जरातत्त्व, अने मोक्षतत्त्व ए
चार तत्त्व उपादेय छे .था अजीव आस्त्रव बंध
ए अण तत्त्व आत्म गुणना रोधक होवाथी हेय छे.
माटे उपादेयने आदरवानी रुची तथा हेय तत्त्वने

छे. तेनो (मोहनो) जगत्त्रयना ईश्वर, जगत्
 शिरोमणी श्री सूर प्रभुए अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक्-
 पराक्रमधी सम्यक् ज्ञान चारित्र रूप अत्यंत तीक्ष्ण
 मम भेदक शस्त्रो वडे छिन्न भिन्न करी अल्पकालमां
 पराजय-समूल नाश कर्यो भविष्यमां कोई पण
 काले एबुं दुष्ट कृत्य करवाने पुनः समुत्थित-संजी-
 वन थाय नहि. अने जीवादि पंचास्तिनी शुद्ध
 स्याद्वादपणे तथा लक्ष्य लक्षण अभेदपणे शुद्ध
 निश्चय नये निजपर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला
 अनंत धर्मात्मक शुद्धात्म द्रव्यने कर्म मलधी रहित
 अत्यंत शुद्ध प्रगट करी जगत् त्रयमां पूज्य, प्रशंस-
 नीय, आह्लादकारी, आदरणीय परमात्म (मोक्ष)
 पद निपजाव्युं-संप्राप्त कर्युं-यद्युक्तं-शार्दूल विक्री
 डितम् ॥ “ त्यक्त्वाऽशुद्धि विधायि तत्किल
 पर द्रव्यं समग्रं स्वयं, स्वद्रव्ये रति मेति यः
 सनियतं सर्वापराधच्युतः; बन्धध्वंस मुपेत्य
 नित्य मुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-चैतन्या-
 मृतपूरपूर्ण महिमां शुद्धो भवन्मुच्यते ” ॥१॥

प्रथम मिथ्यात्व हणि शुद्ध दंसण निपुण,

प्रगट करि जेणे अविरति पणाशी; शुद्ध
चारिप्रगत वीर्य एकत्वथी, परिणति कलुषता
सवि विणाशी ॥ २ ॥ सू० ॥

अर्थः—हवे श्री सूर स्वामीए परमपूज्य परमात्म
पद जे रीते सिद्ध कर्तुं ते साधना क्रम सहित
बखाणे छे.

प्रथम तो, जेना उदय वडे आत्मा शुद्ध देवने
अदेव, अदेवने शुद्ध देव, सुगुरुने कुगुरु, कुगुरुने
सुगुरु, धर्मने अधर्म, अधर्मने धर्म, जीवने अजीव,
अजीवने जीव, मोक्षने अमोक्ष, अमोक्षने मोक्ष
मानेछे, जीवादि तत्त्वमां विपरित श्रद्धान करे छे
तथा उत्कृष्ट सीत्तेर कोडाकोडी सागरोपमनी
स्थितिनो बंध करे छे एवी मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति
तथा मिश्रमोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाश
करी चिंतामणि रहन समान अस्यंत दुर्लभ शुद्ध
निर्मल सम्यक्दर्शन संप्राप्त कर्तुं के जे इंद्रत्व, चक्रि-
त्व, चिंतामणि तथा कल्पवृक्षथी पण अधिक दुष्प्राप्य
छे. उक्तंच- “ इंद्रत्तं चक्रिकत्तं, सुरमणि
कप्पद्दुमस्स कोडीणं । लाभो सुलहो दुलहो, दं-
सणो तीर्थनाहस्स ॥ ” तथा जे विना नवपूर्व

क्रोधवानी रूची होय तेनेज समकीती जाणवो पण मात्र जीवहाग्रे बोलवाथी समकीत नथी. कारण के श्री जिनेश्वर समकीतनां पांच लक्षण कहे छे. अने लक्षण विना लक्ष्यनो असद्भाव होय ए न्याय छे माटे “ उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा अने आस्तिक्यता ” ए पांच लक्षणो जे जीवमां न होय ते जीवने समकीत छे एम केम मनाय ?

उपशम—क्रोधादि कषायोने उपशांत करे.

संवेग—सहज निरूपाधिक परमात्म पद प्रगट करवानी रूची.

निर्वेद—संसारने तथा पौद्गलीक विषयोने हालाहल विष समान जाणी तेथी निवृत्ति थवानी रूची.

अनुकंपा—स्वपर जीवनां द्रव्य भाव प्राण घात करवानो परिणाम नहि.

आस्तिक्यता—अनंतज्ञानी अने वीतरागी आस श्री जिनेश्वरनुं एक पण वचन अन्यथा न होय एवी श्रद्धा.

आपनेज सेववाथी मारी सिद्धि थशे तथा देवमां
चंद्रमा समान अरिहंत पदनी प्राप्ति थशे तथा
परमानंदरूप उत्तम समृद्धिनी संप्राप्ति थशे ॥१०॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ नवम श्री सूरप्रभ जिन स्तवनम् ॥

॥ देशी कडखानी ॥

सूर जगदीशनी तीक्ष्ण अति शूरता, तेणे
चिरकालनो मोह जीत्यो ॥ भाव स्याद्वा-
दता शुद्ध परगास करी, नीपन्योः परमपद
जग वदीतो ॥ सू० ॥ १ ॥

अर्थः—अनादिकालथी लागेलो मोहरूप महान्
शत्रु के जे दर्शन-मोहनीय प्रकृति वडे आत्माना,
सम्यक् दर्शन गुणनो, तथा क्रोध बडे आत्माना
क्षमा गुणनो, मान वडे आत्माना मार्दव गुणनो,
माया वडे आत्माना आर्यव गुणनो, तथा लोभ
वडे आत्माना मुक्ति-निर्लोभ-निस्पृह गुणनो, एम
अनेक गुणनो घात करी आत्मानो शुद्ध सहज
अपरिमित आत्मीय समाधिनो नाश करी भवरूप
जेलखानामां त्रिलोकपूज्य आत्माने केद करी राखे

छे. तेनो (मोहनो) जगत्त्रयना ईश्वर, जगत्
 शिरोमणी श्री सूर प्रभुए अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक्-
 पराक्रमथी सम्यक् ज्ञान चारित्र रूप अत्यंत तीक्ष्ण
 मम भेदक शस्त्रो वडे छिन्न भिन्न करी अल्पकालमां
 पराजय-समूल नाश कर्यो भविष्यमां कोई पण
 काले एबुं दुष्ट कृत्य करवाने पुनः समुत्थित-संजी-
 वन थाय नहि. अने जीवादि पंचास्तिनी शुद्ध
 स्याद्वादपणे तथा लक्ष्य लक्षण अभेदपणे शुद्ध
 निश्चय नये निजपर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला
 अनंत धर्मात्मक शुद्धात्म द्रव्यने कर्म मलथी रहित
 अत्यंत शुद्ध प्रगट करी जगत् त्रयमां पूज्य, प्रशंस-
 नीय, आह्लादकारी, आदरणीय परमात्म (मोक्ष)
 पद निपजाव्युं-संप्राप्त कर्युं-यद्युक्तं-शार्दूल विक्री
 डितम् ॥ “ त्यक्त्वाऽशुद्धिं विधायि तत्किल
 पर द्रव्यं समग्रं स्वयं, स्वद्रव्ये रति मेति यः
 सनियतं सर्वापराधच्युतः; बन्धध्वंस मुपेत्य
 नित्य मुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-च्चैतन्या-
 मृतपूरपूर्ण महिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ” ॥१॥

प्रथम मिथ्यात्व इणि शुद्ध दंसण निपुण,

प्रगट करि जेणे अविरति पणाशी; शुद्ध
चारिप्रगत वीर्य एकत्वथी, परिणति कलुषता
सवि विणाशी ॥ २ ॥ सू० ॥

अर्थ:-हवे श्री सूर स्वामीए परमपूज्य परमात्म
पद जे रीते सिद्ध कर्तुं ते साधना क्रम सहित
बखाणे छे.

प्रथम तो, जेना उदय षडे आत्मा शुद्ध देवने
अदेव, अदेवने शुद्ध देव, सुगुरुने कुगुरु, कुगुरुने
सुगुरु, धर्मने अधर्म, अधर्मने धर्म, जीवने अजीव,
अजीवने जीव, मोक्षने अमोक्ष, अमोक्षने मोक्ष
मानेछे, जीवादि तत्त्वमां विपरित श्रद्धान करे छे
तथा उत्कृष्ट सीत्तेर कोडाकोडी सागरोपमनी
स्थितिनो बंध करे छे एवी मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति
तथा मिअमोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाश
करी चिंतामणि रत्न समान अत्यंत दुर्लभ शुद्ध
निर्मल सम्यक्दर्शन संप्राप्त कर्तुं के जे इंद्रत्व, चक्रि-
त्व, चिंतामणि तथा कल्पवृक्षथी पण अधिक दुष्प्राप्य
छे. उक्तंच- “ इंद्रत्तं च विकत्तं, सुरमणिं
कप्पद्दुमस्स कोडीणं । लाभो सुलहो दुलहो, दं-
सणो तीथ्यनाहस्स ॥ ” तथा जे विना नवपूर्व

सुधीनुं ज्ञानपण अज्ञान कहेवाय छे तथा जे विना दशमा पूर्वनुं ज्ञान तो थतुंज नथी, चली जे विना संसार परिभ्रमणनी सीमा आवती नथी, जे विना सम्यक्चारित्र-संयमनी प्राप्ति थई शकती नथी, जे विना द्रव्यचारित्र पालनार प्रथम गुणस्थाने वर्ते छे माटे श्री जिनेश्वर, सर्व धर्मनुं मूल तथा मोक्षनुं प्रथम पगधीउं कहे छे. यद्भुक्तं-श्रा मद्भयदेव आचार्येण-“ दंसण मूलो धम्मो, उवइठो जिणवरोहिं सीसाणं । तं सोउण सकन्नं, दंसण हीणो न वंदिव्वो ॥ ” लोकालोक प्रकाशक श्री जिनेश्वर देव पोताना शिष्यो प्रत्ये सर्वे धर्मनुं मूल सम्यक्दर्शनने बतावे छे माटे दर्शन हीण पुरुषने वंदना करवी नहि. उक्तंच-“ सम्मत्त रयण भठा, जाणंता बहु विहावि सच्छाई । सुद्धाराहण रहिआ, भमंति तछेव तछेव ॥” सम्यक्दर्शनथी अष्ट पुरुष बहु प्रकारना शास्त्र जाणता छतां पण शुद्ध आराधना रहित होवाथी संसार चक्र वा मां ज्यां त्यां भ्रमण कर्पा करे छे कारणके सम्यक्दर्शन विना शुद्ध आराधनानी प्राप्ति होय नहि. “ शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुग्गल्ल-

आवर्तने अधरे ” “ जह मूलमि विणठे,
दुमस्स परिवार नच्छि परिवुद्धी । तह जिण
दंसण भठा, मूल विणठा ण सिद्धांति ॥ ”

जेम मूल विनष्ट, वृक्ष शाखा परिशाखानी
परिवृद्धि पामे नहि, तेम धर्मनुं मूल सम्यक्दर्शन
नष्ट यतां मोक्ष प्राप्ति थाय नहि.

“ जिण पणत्त धम्मं, सदहमाणस्स होइ
रयणमिणं । सारं गुण रयणाणय, सोवाणं
पढम मोरकस्स ॥ ”

गुण रत्नाकरमां सारभूत जे सम्यक्दर्शन ते
श्री जिन प्ररूपित धर्मनी अद्धा राखनारत्ने होय छे
अर्थात् नयनिक्षेप पक्ष प्रमाण युक्त जिन प्ररूपित
तत्त्वनी यथार्थ अद्धा ते सम्यक्दर्शन छे जे मोक्षनुं
प्रथम सोपान (पगथी उं) छे.

“ संजम रहिअं लिंगं, दंसण भठं न संजमं
भाणियं । आणा हीणं धम्मं, निरस्थयं होइ-
सव्वंपि ॥ ”

साधुनों लिंग-वेश; संजम विना शोभा पामे

नहि तथा फल पासे नहि. अने सम्यक्दर्शन भ्रष्ट
ने संजम कहुं नथी एम जिनेश्वरनी आण रहित
सर्वे धर्मक्रिया निरर्थक अर्थात् मोक्ष फल आपी
शके नहि.

तथा योगनी वीशीमां कहुं छे के “ णाण
गुणेंहिं विहिणा, किरिया संसार बढुणी
भाणिया ” ज्ञान गुण बगरनी क्रिया संसार बधार-
नारी कही छे. कारण के सम्यक्ज्ञान वगर संवर
थाय नहि. अने संवर विना सर्वे समये कर्मबंध
थाय अने कर्मबंधयो संसार वृद्धि थाय ए स्पष्ट छे.
तथा सम्यक्दर्शन रहितने व्रत पालता छतां पण
तत्त्वार्थसूत्रमां अब्रती कहे छे “ निशल्यो व्रती”
मिथ्यात्वशल्य, मायाशल्य, अनेनिदानशल्य रहित
व्रतधारी होय ते व्रती छे. तथा वली श्रीमान् यशो-
विजयजी कहे छे के “ रागमल्हार-भावीजेरे सम-
कीत जेहथी रुअडुं, ते भावनारे भावो मन करी
परवडुं । जो समकीतरे ताजूं साजूं मूलारे, तो व्रत
तरुरे दीये शिवपद अनुकूलरे । झूटक-अनुकूल मूल
रसाळ समकीत, तेह विण मति अधरे । जे करे
किरिया गर्व भरिया, हते जूठो धंवरें ॥ ” मा टे

जो समकीतमूल ताजूं होय तो व्रततरु शिव फल
आपी शंके माटे मोक्षफलना इच्छक पुरुषे सर्वधी
पहेलां समकीत रत्न प्राप्त करवानो उद्यम करवो
ए सार छे. माटे समकीत शी वस्तु छे ते जाणवुं
जोइये.

“ जिय अजिय पुणपावा—सव संवर बंध मुस्क
निझरणा । जेणं सहहइ तयं, सम्मं खइगाइ
बहु भेअं ॥ ”

जीवा जीवादिक नव तत्त्वतुं स्वरूप श्री
जिनेश्वरना आगम प्रमाणे नयनिक्षेप पक्ष प्रमाणे
यथार्थ ज णी सहहवुं तथा हेय तत्त्वने छांडवानी
रुची तथा उपादेय तत्त्वने आदरवानी रुची ते
समकीत जाणवुं. तथा च तत्त्वार्थ सूत्रे—“ तत्त्वार्थ
श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्—” “ जीवाजीवास्त्रव
बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्— तेमां जीव-
तत्त्व, संवरतत्त्व, निर्जरातत्त्व, अने मोक्षतत्त्व ए
चार तत्त्व उपादेय छे तथा अजीव आस्त्रव बंध
ए अण तत्त्व आत्म गुणना रोधक होवाथी हेय छे.
माटे उपादेयने आदरवानी रुची तथा हेय तत्त्वने

बोडवानी रूची होय तेनेज समकीती जाणवो पण मात्र जीवहाये बोलवाथी समकीत नथी. कारण के श्री जिनेश्वर समकीतनां पांच लक्षण कहे छे. अने लक्षण विना लक्ष्यनो असद्भाव होय ए न्याय छे माटे “ उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा अने आस्तिक्यता ” ए पांच लक्षणो जे जीवमां न होय ते जीवने समकीत छे एम केम मनाय ?

उपशम—क्रोधादि कषायोने उपशान्त करे.

संवेग—सहज निरूपाधिक परमात्म्य पद प्रगट करवानी रूची.

निर्वेद—संसारने तथा पौद्गलीक विषयोने हालाहल विष समान जाणी तेथी निवृत्ति थवानी रूची.

अनुकंपा—स्वपर जीवना द्रव्य भाव प्राण घात करवानो परिणाम नहि.

आस्तिक्यता—अनंतज्ञानी अने वीतरागी आस श्री जिनेश्वरनुं एक पण बचन अन्यथा न होय एवी श्रद्धा.

प्रापनेज सेववाधी मारी सिद्धि थशे तथा देवमां
चंद्रमा समान अरिहंत पदनी प्राप्ति थशे तथा
परमानंदरूप उत्तम समृद्धिनी संप्राप्ति थशे. ॥१०॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ नवम श्री सूरप्रभ जिन स्तवनम् ॥

॥ देशी कडखानी ॥

सूर जगदीशनी तीक्ष्ण अति शूरता, तेणे
चिरकालनो मोह जीत्यो ॥ भाव स्याद्वा-
दता शुद्ध परगास करी, नपिन्यो परमपद
जग वर्दीतो ॥ सू० ॥ १ ॥

अर्थ:-अनादिकालथी लागेलो मोहरूप महान्
शत्रु के जे दर्शन-मोहनीय प्रकृति वडे आत्माना
सम्यक् दर्शन गुणनो, तथा क्रोध वडे आत्माना
क्षमा गुणनो, मान वडे आत्माना मार्दव गुणनो,
माया वडे आत्माना आर्यव गुणनो, तथा लोभ
वडे आत्माना मुक्ति-निर्लोभ-निस्पृह गुणनो, एम
अनेक गुणनो घात करी आत्मानो शुद्ध सहज
अपरिमित आत्मीय समाधिनी नाश करी भवरूप
जेलखानामां त्रिलोकपूज्य आत्माने केद करी राखे

छे. तेनो (मोहनो) जगत्त्रयना ईश्वर, जगत्
 शिरोमणी श्री सूर प्रभुः अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक्-
 पराक्रमधी सम्यक् ज्ञान चारित्र्य रूप अत्यंत तीक्ष्ण
 मम भेदक शस्त्रो वडे छिन्न भिन्न करी अल्पकालमां
 पराजय-समूल नाश कर्यो भविष्यमां कोई पण
 काले एषुं दुष्ट कृत्य करवाने पुनः समुत्थित-संजी-
 वन थाय नहि. अने जीवादि पंचास्तिनी शुद्ध
 स्याद्वादपणे तथा लक्ष्य लक्षण अभेदपणे शुद्ध
 निश्चय नये निजपर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला
 अनंत धर्मात्मक शुद्धात्म द्रव्यने कर्म मलथी रहित
 अत्यंत शुद्ध प्रगट करी जगत् त्रयमां पूज्य, प्रशंस-
 नीय, आह्लादकारी, आंदरणीय परमात्म (मोक्ष)
 पद निपजाव्युं-संप्राप्त कर्युं-यद्युक्तं-शार्दूल विक्री
 डितम् ॥ “ त्यक्त्वाऽशुद्धि विधायि तत्किल
 पर द्रव्यं समग्रं स्वयं, स्वद्रव्ये रति मेति यः
 सनियतं सर्वापराधच्युतः; बन्धध्वंस मुपेत्य
 नित्य मुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-चैतन्या-
 मृतपूरपूर्ण महिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ” ॥१॥

प्रथम मिथ्यात्व हणि शुद्ध दंसण निपुण,

प्रगट करि जेणे अविराति पणाशी; शुद्ध
चारिभ्रगत वीर्य एकत्वथी, परिणति कलुषता
सवि विणाशी ॥ २ ॥ सू० ॥

अर्थ:-हवे श्री सूर स्वामीए परमपूज्य परमात्म
पद जे रीते सिद्ध कर्तुं ते साधना क्रम सहित
बखाणे छे.

प्रथम तो, जेना उदय बडे आत्मा शुद्ध देवने
अवेव, अदेवने शुद्ध देव, सुगुरुने कुगुरु, कुगुरुने
सुगुरु, धर्मने अधर्म, अधर्मने धर्म, जीवने अजीव,
अजीवने जीव, मोक्षने अमोक्ष, अमोक्षने मोक्ष
मानेछे, जीवादि तत्त्वमां विपरित श्रद्धान करे छे
तथा उत्कृष्ट सीत्तेर कोडाकोडी सागरोपमनी
स्थितिनो बंध करे छे एवी मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति
तथा मिश्रमोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाश
करी चिंतामणि रहन समान अत्यंत दुर्लभ शुद्ध
निर्मल सम्यक्दर्शन संप्राप्त कर्तुं के जे इंद्रत्व, चक्रि-
त्व, चिंतामणि तथा कल्पवृक्षथी पण अधिक दुष्प्राप्य
छे. उक्तंच- “ इंद्रत्तं चक्रित्तं, सुरमणिं
कल्पद्दुमस्त कोडीणं । लाभो सुलहो दुलहो, दं-
सणो तीपथनाहस्त ॥ ” तथा जे विना नवपूर्व

सुधीनुं ज्ञानपण अज्ञान कहेवाय छे तरा जे विना दशमा पूर्वनुं ज्ञान तो थतुंज नथी, बली जे विना संसार परिभ्रमणनी सीमा आवती नथी, जे विना सम्यक्चारित्र-संयमनी प्राप्ति थई शकती नथी, जे विना द्रव्यचारित्र पालनार प्रथम गुणस्थाने वर्त्ते छे माटे श्री जिनेश्वर, सर्व धर्मनुं मूल तथा मोक्षनुं प्रथम पगथीउं कहे छे. यद्युक्तं-श्री मद्भयदेव

आचार्येण-“ दंसण मूलो धम्मो, उवइठो जिणवरोहिं सीसाणं । तं सोउण सकन्नं, दंसण हीणो न वंदिव्वो ॥ ” लोकालोक

प्रकाशक श्री जिनेश्वर देव पोताना शिष्यो प्रत्ये सर्वे धर्मनुं मूल सम्यक्दर्शनने धतावे छे माटे दर्शन हीण पुरुषने वंदना करवी नहि. उक्तंच-“ सम्मत्त

रयण भठा, जाणंता बहु विहावि सछाइं । सुद्धाराहण रहिआ, भमंति तछेव तछेव ॥”

सम्यक्दर्शनथी अष्ट पुरुष बहु प्रकारना शास्त्र जाणता छतां पण शुद्ध आराधना रहित होवाथी संसार चक्र वा मां ज्यां त्यां भ्रमण कर्पा करे छे कारणके सम्यक्दर्शन विना शुद्ध आराधनानी प्राप्ति होय नहि. “ शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुग्गळ

आवर्तने अधधरे ” “ जह मूलमि विणठे,
दुमस्स परिवार नच्चिउ परिवुद्धी । तह जिण
दंसण भठा, मूल विणठा ण सिझांति ॥ ”

जेम मूल विनष्ट, वृक्ष शाखा परिशाखानी
परिवृद्धि पामे नहि, तेम धर्मनुं मूल सम्यक्दर्शन
नष्ट यतां मोक्ष प्राप्ति थाय नहि.

“ जिण पणत्त धम्मं, सहहमाणस्स होइ
रयणमिणं । सारं गुण रयणाणय, सोवाणं
पढम मोरकस्स ॥ ”

गुण रत्नाकरमां सारभूत जे सम्यक्दर्शन ते
श्री जिन प्ररूपित धर्मनी श्रद्धा राखनारने होय छे
अर्थात् नयनिक्षेप पक्ष प्रमाण युक्त जिन प्ररूपित
तत्त्वनी यथार्थ श्रद्धा ते सम्यक्दर्शन छे जे मोक्षनुं
प्रथम सोपान (पगथी ऊं) छे.

“ संजम रहिअं लिंगं, दंसण भठं न संजमं
भाणियं । आणा हीणं धम्मं, निरत्थयं होइ
सव्वंपि ॥ ”

साधुनो लिंग-वैश, संजम विना शोभा पामे

नहि तथा फल पामे नहि. अने सम्यक्दर्शन भ्रष्ट
ने संजम कहुं नथी एम जिनेश्वरनी आण रहित
सर्वे धर्मक्रिया निरर्थक अर्थात् मोक्ष फल आपी
शके नहि.

तथा योगनी वीशीमां कहुं छे के “ णाण
गुणोहिं विहिणा, किरिया संसार बढुणी
भाणिया ” ज्ञान गुण बगरनी क्रिया संसार बधार-
नारी कही छे. कारण के सम्यक्ज्ञान बगर संवर
थाय नहि. अने संवर बिना सर्वे समये कर्मबंध
थाय अने कर्मबंधयी संसार वृद्धि थाय ए स्पष्ट छे.
तथा सम्यक्दर्शन रहितने व्रत पालता छतां पण
तत्त्वार्थसूत्रमां अब्रती कहे छे “ निशल्यो व्रती”
मिध्यात्वशल्य, मायाशल्य, अनेनिदानशल्य रहित
व्रतधारी होय ते व्रती छे. तथा वली श्रीमान् यशो-
विजयजी कहे छे के “ रागमलहार-भावीजेरे सम-
कीत जेहथी रुअडुं, ते भावनारे भावो मन करी
परबडुं । जो समकीतरे ताजूं साजूं मूसरे, तो व्रत
तरुरे दीये शिवपद अनुकूलरे । बूटक-अनुकूल मूल
रसाल समकीत, तेह विण मति अधरे । जे करे
किरिया गर्ब भरिया, हते जूठो धररे ॥ ” मा टे

जो समकीतमूल ताजूं होय तो व्रततरु शिव फल
 आपी शके माटे मोक्षफलना इच्छक पुरुषे सर्षधी
 पहेलां समकीत रत्न प्राप्त करवानो उद्यम करवो
 ए सार छे. माटे समकीत शी वस्तु छे ते जाणवुं
 जोइये.

“ जिय अजिय पुणपावा—सव संवर बंध मुस्क
 निझरणा । जेणं सहहइ तयं, सम्मं खड्गाइ
 बहु भेअं ॥ ”

जीवा जीवादिक नव तत्त्वतुं स्वरूप श्री
 जिनेश्वरना आगम प्रमाणे नयनिक्षेप पक्ष प्रमाणे
 यथार्थ ज णी सहहवुं तथा हेय तत्त्वने छांडवानी
 रूची तथा उपादेय तत्त्वने आदरवानी रूची ते
 समकीत जाणवुं. तथा च तत्त्वार्थ सूत्रे—“ तत्त्वार्थ
 श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्—” “ जीवाजीवास्त्रव
 बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्— तेमां जीव-
 तत्त्व, संवरतत्त्व, निर्जरातत्त्व, अने मोक्षतत्त्व ए
 वार तत्त्व उपादेय छे तथा अजीव आस्त्रव बंध
 ए अण तत्त्व आत्म गुणना रोधक होवाथी हेय छे.
 माटे उपादेयने आदरवानी रूची तथा हेय तत्त्वने

कोडवानी रूची होय तेनेज समकीती जाणवो पण
मात्र जीवहाये बोलवाधी समकीत नथी. कारण
के श्री जिनेश्वर समकीतनां पांच लक्षण कहे छे.
अने लक्षण विना लक्ष्यनो असद्भाव होय ए न्याय
छे माटे “ उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा
अने आस्तिक्यता ” ए पांच लक्षणो जे जीवमां
न होय ते जीवने समकीत छे एम केम मनाय ?

उपशम—क्रोधादि कर्षायोगे उपशांत करे.

संवेग—सहज निरूपाधिक परमात्म पद प्रगट
करवानी रूची.

निर्वेद—संसारने तथा पौद्गलीक विषयोने
हालाहल विष समान जाणी तेथी निवृत्ति थवानी
रूची.

अनुकंपा—स्वपर जीवना द्रव्य भाव प्राण घात
करवानो परिणाम नहि.

आस्तिक्यता—अनंतज्ञानी अने वीतरागी आस
श्री जिनेश्वरनुं एक पण वचन अन्यथा न होय
एवी श्रद्धा.

एम सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्यं मूल-
 कारण सम्यक्दर्शन छे एम जाणी श्री सूर प्रभुजीए
 दर्शनमोहनीय प्रकृतिनो नाश करी अत्यंत शुद्ध
 निपुण क्षायिक समकीत प्रगट करी “ अविरति
 पणाशी ” पांच इंद्रिउं तथा मननो निग्रह नहि
 तथा षट्काय जीवना द्रव्य भाव प्राणनी हिंसानो
 त्याग नहि एवं चार प्रकारनी अविरति तेनो नाश
 कर्यो. पंच इंद्रिउंना त्रैवीश विषयोमां तथा मनना
 शुभाशुभ संकल्पोमां आत्म परिणामने विक्षिप्त
 करवाथी तथा स्वपर जीवना द्रव्य भाव प्राणनी
 हिंसाथी ज्ञानावरणादि कर्मनो बंध थाय छे अने
 कर्मबंध वडे सहज आत्म समाधिनो घात थइ
 अत्यंत दुःखदायक आ संसार समुद्रमां परिभ्रमण
 करवुं पडे छे. एम क्षायिकसमकीत वडे जेणे अद्धा पूर्वक
 जाण्युं तेनो परिणाम अविरतिमां केम प्रवेश करे ?
 एम अविरतिनो नाश थवाथी परभाव राग द्वेष
 विभावादि कनो त्याग तथा ज्ञान दर्शन चारित्रादि
 स्वगुणमां रमण रूप शुद्ध चारित्र्यथी पोताना आत्म
 वीर्यनी एकता करी अर्थात् सकल आत्म वीर्यने
 स्वभावाचरणमांज वर्त्तावी “ परिणाति कलुषता

सावि विणाशी ॥ आत्म परिणाममां कषायनो
प्रवेश थवा दीघो नहि एम कलुषता परिणतिनो
नाश कर्यो. ॥ २ ॥

वारि परभावनी कर्तृता मूलथी, आत्म
परिणाम कर्तृत्व धारी । श्रेणी आगेहतां वेद
हास्यादिनी, संगमी चेतना प्रभु निवारी ॥
सूर० ॥ ३ ॥

अर्थः—आत्म स्वरूपना अज्ञान वडे जीव, पर-
भावनो कर्ता बने छे अर्थात् अमुक पदार्थने में
सुवण करथो, अमुकने में कुवण कर्यो, अमुकने
में मनोज्ञ रसवालो कर्यो, अमुकने में अमनोज्ञ
रसवालो कर्यो, अमुकने में सुगंधी कर्यो, अमुकने
में दुर्गंधी कर्यो, अमुकने में मनोज्ञ स्पर्शवालो तथा
अमुकने में अमनोज्ञ स्पर्शवालो कर्यो, तथा में सुंदर
असुंदर शब्दादिक कर्यो पण रूप रस गंध स्पर्शादि
जे पुद्गल द्रव्यनो परिणाम तने आत्मा कदापी
काले करी शके नहि छतां पर द्रव्यना परिणामने अज्ञान
वडे पोतानी क्रिया मानी ले छे. तथा अमुक जावने
में सुखी कर्यो अमुकने में दुःखी कर्यो परजा-
वना कर्मफलने पोतानी क्रिया मानी ले छे. मन

बचनं कायानां योगी क्रियानुं ममेत्वं कर्त्ता ते
 क्रियानो कर्त्ता पोताने माने छे. था परजीवे मने
 सुखी वा दुःखी कर्त्ता एम पोताना कर्मफलने पर-
 जीवनी क्रिया मानी ले छे. एवा मिथ्याभिमान बडे
 ज्ञानावरणादि कर्मनो बंध करे छे पण श्री सूर-
 स्वामीए सम्यक्ज्ञानबडे एवा मिथ्याभिमाननो
 नाश करी पोतानी सहज आत्मीय ज्ञानादि क्रियामो
 पोतानुं कर्त्तापणुं आर्द्युं. यद्युक्तं—“ आत्मा
 ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम ?
 परभावस्य कर्त्ताऽत्मा, मोहोव्यं व्यवहारिणाम्।”
 माटे वस्तुतः परद्रव्यनो कोइपण कर्त्ता थइ शके
 नहि ए न्याय छे—“ यःपरिणमति स कर्त्ता,
 यःपरिणामो भवेत् तु तत् कर्म । या परिणतिः
 क्रिया सा, त्रयमाप अभ्रं न वस्तुतया ”

अर्थः—जे परिणमे ते कर्त्ता छे अने परिणाम ते
 तेनुं कर्म छे अने परिणति ते तेनी क्रिया छे एम ए
 अणे भाव वस्तुतः अभेद छे. तथापि—“ आ संसारत
 एव धावति परं, कुर्वेऽह मित्युच्चकै—दुर्वारं
 न तु मोहिनामिह महाहंकार रूपं तमः ।

तद्भूतार्थं परिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्,
तर्हि ज्ञान घनस्य बन्धन महोभूयो भवेदा-
त्मनः ॥”

अर्थः—आ जगत्मां मोही अज्ञानी जीवो जागो
छे के “हुं पर द्रव्यने करुं छुं” एवो पर द्रव्यना
कर्तृत्वना अहंकाररूप अतिशय दुर्वार अज्ञान अंध
कार अनादिकालथी चाल्यो आवे छे यण जो तेनो
शुद्ध निश्चय ज्ञानवडे एकवार पण समूल नाश करी
नाखे तो शुद्ध केवलज्ञाननी प्राप्ति थाय अने पछीथी
कदापि एवा अज्ञान अंधकारने न करे—कर्मबंध करे
नहि. तथा “श्रेणी आरोहतां” क्षपक श्रेणीए
चढतां हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ए
हास्यादि षट्क तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, अने नपुंसक-
वेद, एम नव नोकषायमांथी पोतानी आत्म परिण-
तिने वारी अकषाय भावमां—शुद्ध स्वरूपमां तल्लीन
करी ॥ ३ ॥

भेदज्ञाने यथा वस्तुता उलखी द्रव्य पर्यायमे-
थइ अभेदी। भाव सविकल्पता छदि केवल
सकल, ज्ञान अनंतता स्वामी वेदी ॥ सूर० ॥ १४ ॥

अर्थः—“द्रव्यना सर्वे धर्मो तेना परमगुणना अनुयायीगणेज वर्ते” ए न्यायानुसारे! आत्मानो परमगुण जे चेतनता तदनुयायीपणे वर्त्तता ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्यादि परिणामोने पोताना परिणाम जाण्या सह्या अने एथी विपरित, चेतन-तान अनुयायीपणे नहि वर्त्तता, रूप रसगंध स्पर्शादि तथा चलन सहायादिक परिणामोने, पर द्रव्यना परिणाम जाण्या सह्या. एम भेदविज्ञानना प्रबल पराक्रम घडे पोताना गुण पर्याय तथा पर द्रव्यना गुण पर्यायने यथार्थ भिन्न भिन्न जाणी पर द्रव्यना गुण पर्यायमांथी अहंममत्व उठावो राग द्वेषादि विभाव परिणामने दुःखदायक तथा कर्मबंधना हेतु जाणी, पोतानी आत्म भूमिमांथी तेनो तदन अभाव करी, पोताना गुण पर्यायने पोताथी अभेद स्वरूप जाणी-तेमांज अभेदपणे तल्लीन थया. संकल्प विकल्प रूप समल परिणामने तजी निर्विकल्प-अचल परिणामरूप यथाख्यात् चारित्र-द्वादशम गुणस्थान पामी अंतर मुहूर्त्तमां घातीकर्मनो नाश करी श्री सूरस्वामी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्यना स्वामी तथा भोक्ता थया. यद्युक्तं

मालिनी छंद-निज महिमरतानां भेदविज्ञान

शक्त्या; भवति नियतमेषां, शुद्ध तत्त्वो-
पलम्भः । अचलित मखिलान्य द्रव्य दूरे
स्थितानां, भवति सात च तस्मिन्न क्षयः
कर्म मोक्षः ॥

अर्थः—जे पुरुष भेद विज्ञाननी शक्तिवडे आत्म
स्वरूपना महिमामां लीनं थाय छे तेने निश्चय शुद्ध
तत्त्वनी प्राप्ति थाय छे; अने शुद्ध तत्त्वनी प्राप्ति
थवाथी सर्व परद्रव्य तथा परद्रव्यना परिणामथी
दूर वर्त्ते छे, अक्षय मोक्ष अवस्थाने प्राप्त थाय छे.
माटे ज्यांसुधी भेद विज्ञाननी प्राप्ति थई नथी त्यां-
सुधी अवश्य सर्वे समय कर्मबंध थाय छे अने भेद
विज्ञानवडे कर्मबंधथी मुक्त थवाय छे.

“ भेद विज्ञान तः सिद्धाः, सिद्धा ये किल
केच न । तस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धा ये
किल केच न ”

अर्थः—जे कोइ सिद्ध थया ते भेद विज्ञान बडेज
सिद्ध थया छे अने जे कर्मथी बंधाय छे ते भेद
विज्ञानना अभावथीज बंधाय छे माटे जो कर्म-

बंधनो अभाव करवानी रुची होय तो भेद विज्ञान-
सम्यक् ज्ञाननी प्राप्ति करवी ए सार छे. ४ ॥

वीर्य क्षायिकबलें चपलता योगनी, रोधि
चेतन कर्यो शुचि अलेशी; भाव शैलेशीमें
परम अक्रिय थइ, क्षय करी चार तनु कर्म
शेषी ॥ सूर० ॥ ५ ॥

अर्थ:—एम श्री सूरस्वामी अनंत चतुष्टयने प्राप्त
करी तेरमा गुणस्थाने तीर्थंकर नामकर्मना उदये
भव्य जीवोने आ दुःखदायक भव ससुद्रमांथी
ताग्नार स्याद्वाद नय युक्त जीवाजीवादि तत्त्वनो
उपदेश आपी-पंढी प्राप्त करेला क्षायिकवीर्यना
बल बडे, करण वीर्य बडे थती चपलता दूर करी
मेरु पर्वतनी पेठे निःप्रकंप-शैलेशी करण करी. मन
वचन अने कायानी क्रियानो त्याग करी पोताना
आत्म द्रव्यने पवित्र-पुद्गल परिणामना संश्लेष
रहित-अलेशी करी परम अक्रिय अवस्था धारण
करा, बाकी रहेला वेदनीय, नाम, गोत्र, अने आयु
ए चार अघातीया कर्मनो सर्वथा नाश करी
“ पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद्बन्धच्छेदात्तथा गति
परिणामाच्च ” पूर्व प्रयोगना हेतुए असंग होवाथी

कर्मबंधनो सर्वथा नाश होवाची तथा गति, परि-
णामवडे तुंबीना द्रष्टांते आठमी इशिप्रभारा पृथ्वी
अर्थात् सिद्ध अवस्थामां विराजमान थया ॥ ५ ॥

वर्ण रस गंध विनु फरस संस्थान विनु,
योग तनु संग विनु जिन अरूपी । परम
आनंद अत्यंत सुख अनुभवी, तत्त्व तन्मय
सदाचित्स्वरूपी ॥ सूर० ॥ ६ ॥

अर्थ:-श्री सूरस्वामी सिद्ध अवस्थाने प्राप्त
थया. ते सिद्ध स्वरूप केवुं छे-पांच प्रकारना वर्ण,
पांच प्रकारना रस, बे प्रकारनी गंध, आठ प्रकारना
स्पर्श, छ प्रकारनां संस्थान, त्रण प्रकारना योग,
पांच प्रकारनां शरीर तथा अंतरंग अने बाह्य ए बे
प्रकारना परिग्रहथी रहित तथा राग द्वेषादि विभा-
वथी पण रहित होवार्थी सर्वे नये अरूपी अवस्थाने
संप्राप्त छे । कारण के जीवतुं शुद्ध स्वरूप वर्णादि
तथा रागादि भावथी रहित छे. यदुक्तं-“तत्त्व
भवे जावाणं, संसारत्थाण होंति वणाइ ।
संसार पमुक्काणं, णत्थिहु वणादओ केइ ॥
जीवस्स णच्छि वणो, णवि गंधो णवि रसो

णविय फासो । णवि रूवं ण सरीरं, णवि-
 संठाणं ण संहणणं ॥ ” पण संसार-अवस्थामां
 जीव कर्मबंधयुक्त होवाथी शरीरादिमां अहंममस्व
 करी वने छे तेथी व्यवहार नये रूपी कहेवाय छे.
 जेम जे घडामां घृत भरेलुं होय ते घीनो घडो
 कहेवाय पण वास्तविक रीते जोतां घडो काई घीनो
 नथी माटीनोज छे. यद्युक्तं “ पद्मतापद्मतय, जे
 सुहुमा वायराय जे चेव । देहस्स जीव सणा,
 सुत्ते व्यवहारदो उत्ता ॥ ” पर्याप्त, अपर्याप्त,
 सूक्ष्म, षादर, एकेंद्रिय बेइंद्रिय विगेरे शरीरने जे
 जीव संज्ञा कही छे ते व्यवहार नयनी अपेक्षा
 जाणवी. कारण के चौदे जीवस्थान ते पुद्गल संगे
 छे, जीवनो मूल स्वभाव नथी. पण श्री सुरस्वामी
 तो कर्मबंधथी-संसार अवस्थाथी सर्वथा मुक्त हो-
 वार्था व्यवहार तथा निश्चय बने नये अरूपी अवस्था
 भोगवे छे तथा “ परम आनंद अत्यंत सुख
 अनुभवी, तत्त्व तन्मय सदा चित्स्वरूपी ”
 परम आनंद-सर्वोत्कृष्ट आनंद जेनुं आ त्रिलोकमां
 कोई उपमान नथी एवा परमानंदने तथा जे सुखनो
 कोईकाले अंत नथी एवा सहज अकृत्रिम अनुप-

धरित सुखमे संप्राप्त-ते सुखमे सदा निष्कण्टक पणे
 अनुभवे छे-तेमांज निमग्न छे तथा पोताना शुद्धात्म
 तत्त्वथी तन्मय तथा चित्स्वरूपी अथात् अखंड
 अनंत ज्ञान स्वरूपमां सदा सादिअनंत भांगे
 अवस्थित थया छे. ॥ ६ ॥

ताहरी शूरता धीरता तीक्ष्णता, देखी सेवक
 तणो चित्त राच्यो । राग सुप्रशस्तथी
 गुणी आश्चर्यता, गुणी अद्भुतपणे जीव मा-
 च्यो ॥ सूर० ॥ ७ ॥

अर्थ:-उपसर्ग परिसहादि तथा अनेक प्रकारना
 शुभाशुभ कर्म उदय आवता छतां पण अत्यंत धैर्य
 आदरी आत्म सत्ताभूमिमां निर्भय निष्कंपपणे
 झडोल रही अतिशय शौर्य पूर्वक ज्ञान बाणना
 प्रहार वडे तथा अपरिमित आत्म वीर्यनी तीक्ष्णता
 वडे मोहादि कर्म शत्रुओने निर्वेश कर्या. ते आपनी
 शूरता, धीरता अने तीक्ष्णता जोई हुं सेवकनुं चित्त
 तेमां राच्युं-रत थयुं.

तथा आपना सर्वोपरी कल्याणकारी अद्भुत
 ज्ञानादि आत्मगुणो जोई अत्यंत आश्चर्यता पामी
 सुप्रशस्त राग वडे आपना गुणमां माहरी आत्मा-

माच्यो, कारणके आसोक परलोकना विषयसुखनी
 आकांक्षा रहित अरिहंतादि पंच परमेष्ठी तथा
 आगम, साधर्मीक उपर पक्षपात विना गुणीपणा
 माटे जे राग ते प्रशस्तराग जाणवो, ते जोके
 पुण्यबंधनो हेतु छे तथापि छता आत्मगुणने स्थिर
 थवानो तथा नवागुण प्रगट करवानो हेतु छे.
 यद्युक्तं “ नाणाइसु गुणसु, अरिहंताइसु
 धम्म रूवेसु । धम्मोवगरण साहम्मीएसु
 धम्मच्छ जोय गुण रागो ॥ सो सुपसथो
 रागो, धम्म संयोग कारणो गुणदो । पढमं
 कायव्वो सो पत्तगुणे खवइ तं सव्वं ” ॥७॥

आत्मगुण रुचि थये तत्त्व साधन रसी, तत्त्व
 निष्पत्ति निर्वाण थावे । देवचंद्र शुद्ध पर-
 मात्म सेवन थकी, परम आत्मीक आनंद
 पावे ॥ सूर० ॥ ८ ॥

अर्थः-ज्ञानादि अनंत आत्म गुणोने शुद्ध
 संपूर्णपणे प्रगट करवानी रुची थाय तोज ते पुरुष
 तत्त्व साधनानो रसीउं थइ संपूर्ण आत्मतत्त्वनी
 सिद्धि-निर्वाण पद पासे. देवचंद्र मुनि कहे छे के

शुद्ध परमात्मपदना सेवन थकी अत्यंत उत्कृष्ट
सहज अनुपचरित अव्याबाध आत्मीक परमा-
नंदनी प्राप्ति थाय. ॥ ८ ॥

॥ संपूर्ण

॥ अथ दशम श्री विशालजिन स्तवनम् ॥

॥ प्राणी वाणी जिन तणी ॥ ए देशी ॥

देव विशाल जिणंदनी, तमे ध्यावो तत्त्व
समाधि रे चिदानंद रस अनुभवी, सहज
अकृत निरूपाधि रे ॥ १ ॥ स० ॥ अरिहंत
पद वंदीये गुणवंत रे ॥ गुणवंत अनंत
महंत स्तवो भवतारणो भगवंत रे । ए आंकणी ।

अर्थः—साधु, आचार्य, गणधरो विगेरेमां प्रधान
शिरोमणि अनंत दूषण रहित तथा अनंत आत्मीय
गुणवडे देदिप्यमान महाविदेहमां विचरता श्री
विशाल स्वामीए पोताना आत्म तत्त्वने एवभूत
नये सिद्ध-प्रगट करी जे शुद्धात्म तत्त्व जन्य
समाधि-निवृत्ति प्राप्त करी छे ते अद्वीतिय अनुपम
समाधिने हे भव्यात्माओ ! तमे एकाग्र चित्ते

ध्यावो-राग द्वेषादि सकल विभावथी आत्म परि-
णामने वारी तदनुगत करो. " चिदानंद रस
अनुभवी " केवल ज्ञान वडे त्रैकालिक पर्यायो
सहित सर्व द्रव्यना युगपत् प्रत्यक्ष ज्ञाता होवाथी
पोताना आत्म द्रव्यने सर्वदा अखंड अव्याबाध
ज्ञानदर्शनादि गुणे सदा परिपूर्ण, कोइपण द्रव्य
जेने कोइपण काले बाधा करी शके नहि माटे
अबाधित जुए छे; तेथी तउजन्य निर्भयता-निरा-
कुलता स्वाधीनतामय ज्ञानानंद रसना अनुभवी-
आस्वादन भोग लेनार श्री विशाल देवनी तत्त्व
समाधि सहज अर्थात् स्वाभाविके सर्व पर द्रव्यनी
अपेक्षा वगर मात्र पोतानाज द्रव्यथी उत्पन्न, तथा
अकृत-पर द्रव्ये जेने उत्पन्न करी नथी एवी, तथा
निरूपाधि अर्थात् पौद्गलिक विषयो भोगवतां
अनेक प्रकारनी शारीरिक तथा मानसिक व्याधिउं
उपजे छे, पर रमणरूप मिथ्या चारित्र होवाथी
आत्मगुण घातक अनेक प्रकारनां दुष्ट कर्म बंधाय
छे पण श्री विशाल देवनी समाधिमां कोइपण
प्रकारनी उपाधिनी सद्भाव तथा उपजवानो
संभव नथी तेथी निरूपाधि छे माटे हे गुणानुरागी
भव्य जीवो ! निरुपचरित, निस्संग, निःप्रयासिक,

निर्वेध, एकांतिक, आस्यंतिक अने स्वतंत्र समाधि-
मय श्री विशालस्वामीना अरिहंत पदने आपणो
आत्मा निर्मल करी भव भ्रमणथी मुक्त थवा
निमित्ते वंदी ये-तेमां लीन थइए, वलीश्री विशाल
स्वामी के जे-ज्ञानादि अनंत लक्ष्मीना स्वामी तथा
जन्म जरा मरण तथा क्रोध, मान, माया, लोभ,
हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा विगेरे
कषाय, अज्ञान जलथी भरपूर आ अपार पारावार
भयंकर भव समुद्रथी उद्दारी अचल अव्याबाध
अरुज आत्मीय अनंत सुखना स्थानक मोक्ष महे-
लमां धरनार, सर्वे प्राणीउंना अघातक, करुणा
सागर, तथा अनंतगुणना पात्र महान् धर्मात्मा
छे तेमने स्तवो-स्तुति करो तेमना गुणोनुं गान,
स्मरण, चिंतन, अनुभव करो. ॥ १ ॥

भव उपाधि गद् टालवा, प्रभुजी छे वैद्य
अमोघरे ॥ रत्नत्रयी औषध करी, तुम्हें
तार्या भविजन उंघरे ॥ तुम्हें० ॥ अरि० ॥ २॥

अर्थः-महान् दुष्ट शत्रुरूप कर्मराजाना भवरूप
कारागृहमां वसतां अज्ञान कषाय अने मिथ्यात्व-
रूप मिथ्याआहार विहारना सेवनथी, आत्म

द्रव्यना ज्ञानदर्शनादि परिणामो दूषितः थवाथी
 आत्माने तीक्ष्ण शल्य तुल्य असह्य दुःख क्लेश
 आपनारा क्रोध-मान माया लोभ शोक वियोग
 मिथ्यात्व अज्ञान विगेरे महान् दुर्निवार सन्निपा-
 तिक रोगो उपजे छे जे रोगोना प्रभाव वडे बली
 ज्वर, अतिसार, जलोदर, कठोदर, भगंदर, क्षय,
 कुष्ठ, प्रमेह, उपदंश, नेत्ररोग, कर्णरोग, मुखरोग,
 विगेरे अनेक शारीरिक रोग जन्य वेदनाउं भोग-
 चवी पडे छे. पण हे विशाल-प्रभुजी ! आपेज
 सम्यक् दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्रनी ऐक्य-
 तारूप अमृत औषधीनुं दान करी ते सर्वे सन्निपा-
 तिक रोगोथी भव्य जीवोना समूहने मुक्त करी
 अनंत आत्म वीर्ये भरपूर तुष्ट पुष्ट करी आगामि
 कोइ पण काले ते रोग पुनः उत्पन्न न थाय एवा
 अत्यंत निरोगी कर्या. माटे हे प्रभुजी ! आ भुवन-
 त्रयसां निःसंदेहपणे अमोघ-साचा-सफल (जेनो
 उपाय निष्फल जाय नहि एवा) वैद्य आपज छो. ।२।

भवसमुद्र जल तारवा, निर्यामिक सम
 जिनराजरे ॥ चरण जहाजें पामीए, अक्षय
 शिवनगरनुं राजरें ॥ अक्षय० ॥ अरि० ॥३॥

अर्थः—राग रूप जले परिपूर्ण दुस्तर आ भयानक भवसमुद्र के जेमां हूं अनादिकालथी निराधारपणे ज्यां त्यां भ्रमण करी दुःसह भय क्लेश रोग शोक वियोग तृष्णा आश्रंद विगेरे अनेक दुःखो सहन करूं हूं, अत्यंत सहज समाधिप्रद माहरी शुद्धात्म भूमिरूप शिवनगरथी अत्यंत दूरवर्ती-वियोगी थइ रह्यो हूं. ते भव समुद्रथी पारंगत करी निर्बिघ्नपणे शिवनगरे पहोंवाडवा माटे हे विशालप्रभु जिनेश्वर ! आप निर्यामरु अर्थात् जहाजना सौथी अग्रेसर चलावनार छो माटे जो बीजा सर्वनी आकांक्षा छोडी आपना स्वभावाचरणरूप पंचमहाव्रतरूप जहाजनो आश्रय लइए—तेमां अमारा आत्माने स्थापन करीए तो सहजे लीलामात्रमां निःप्रयासे आ भयंकर भवसमुद्रथी पारंगत थइ कोइपण रीते जेनो नाश न थाय—सदा शाश्वत रहेनार एवं शिवनगरनुं निष्कंटक राज्य पामी एकांतिक शाश्वत सहज परमानंदना स्वामी थइए. ॥ ३ ॥

भव अटवी अति गहनथी, पारग प्रभुजी सच्छवाहरे ॥ शुद्ध मार्ग देशक पणे, योग

क्षमंकर नाहरे ॥ योग० ॥ अरि० ॥ ४ ॥

अर्थ:-आ भवरूप अटवी-जंगल के जेमां
अमारो आक्रंद परिताप जोइ करुणा रसवडे जेनुं
हृदय भिंजे तथा अमारी दया करे एवा सदगुरु-
रूप सज्जननो समागम अत्यंत दुःप्राप्य छे तेथी
निर्जन, तथा जेथी पारंगत थवानां साचो-सुगम
मार्ग पामवो अतिशय मुश्केल होवार्थी अत्यंत
गहन-घोर, तथा जेमां अमारी ज्ञानदर्शनादि
अमूल्य आत्म संपदाने लुटा लेवावाला तीव्र
अज्ञान मिथ्यास्वादि दुष्ट स्वभावना धारक कुगुरु
रूप लुटाराओ वसे छे, तथा अमारा ज्ञानदर्शनादि
आत्मप्राणनो घात करनार क्रोध मान माया लोभ
विगेरे निर्दय श्वापदो वसे छे एवा घोर जंगलमां
भूलो पडेलो हुं मारा आत्मीय कुटुंब तथा लक्ष्मीना
विधोग वडे दयामणी अवस्थामां भय, त्रास, रोग,
शोक, विधोग, तृष्णा, आताप विगेरे परितापो
सहन करुं छुं, शांतिप्रद सवर रूप जलना अभाव
वडे अत्यंत तृष्णा क्लेश सहुं छुं तेथी (भवाटवीथी)
पारंगत थइ आत्म लक्ष्मी वडे परिपूर्ण शिवनगरे
दोरी लइ जनार आपज समर्थ सार्थवाह छो. कारण
के आपज शुद्ध-अविसंवाद मार्गना बताववावाला

कल्याणकारी सिद्धिपद योगना नाथ-मालीक-
 प्रणेता यथार्थपणे प्रगट करनार छो. तथा हे नाथ !
 आपना मन वचन अने काय ए त्रणे योग क्षेमंकर,
 कल्याणकारी, पाप क्लेशथी मुक्त करनार छे. अने
 संसारी जीवोए मन वचन काया स्त्री पुत्र धन
 कुटुंबादि अनेक योग कर्या ते योग बहु वार विनाश
 थया-क्षेम कुशल न रह्या. पण प्रभुजी शुद्धात्म
 अनुभव योगकरावी शाश्वती केवलज्ञानादि लक्ष्मी-
 नो शिवयोग करावो छो माटे योगक्षेमंकर छो ॥४॥

रक्षक जिन छ कायना, वली मोह निवारक
 स्वामी रे ॥ श्रमण सघ रक्षक सदा, तेणे
 गोप ईश अभिरामरे ॥ तेणे० अरि० ॥ ५ ॥

अर्थ:-जे अज्ञान विषय अने कषायादि दोषोथी
 निवृत्त थया नथी एवा कुदेवादि “ अहिंसक ”
 पदन योग्य नथी कारण के तेउं सर्वे जीवस्थान तथा
 सर्वे जीवोना द्रव्यभाव प्राणने तथा द्रव्य भाव
 प्राणनी हिंसाना हेतुउंने तथा ते हेतुउंना प्रतिकारने
 यथार्थ जाणता नथी तथा विषय कषायादि सहित
 होषाथी प्रमाद अवस्थामां अनेक जीवना द्रव्यभाव
 प्राणने हणी परने तथा पोताना आत्माने दुःखदायक

थाय छे. पण हे विशालप्रभु ! आप तो अज्ञान विषय अने कषायादिदोषाधी सर्वथानिवृत्त होवाधी पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजःकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय ए छ कायना जीवोना द्रव्यभाव प्राणना यथार्थ ज्ञाता छो तथा विषय कषायादि दोषोए रहित होवाधी निरंतर अप्रमाद अवस्थामां अवस्थित रही कोहपण जीवना द्रव्यभाव प्राणोने रंच मात्र पण दुषवता नथी माटे मृत्यु न्याये आ त्रिभुवनमां “जीव रक्षकनुं” विरुद्ध आपनेज लायक छे.

तथा स्थितिवंध अने रसबंधनो हेतु सर्वे कर्मनो राजा तथा संसारी जीवोना अजीत शत्रु एवा मोहरूप महान् शत्रुधी संसारी जीवोने बचावधी माटे तथा ते मोहने नाश करवानो साचो उपाय बतावनार तथा ते उपायमां प्रवृत्त थवाने प्रेरणा करनार एक आपज समर्थ शुभट छो तेथी साचा मोहनिवारक पण आपज छो.

तथा अत्यंत दुःखदायक भवाटवीमांथी नीकली अत्यंत कल्याणकारी मोक्ष नगरे जवाना जिज्ञासु, मोक्ष सन्मुख साचा माग गमन करनार, क्रोध मान माया लोभ आदिने दूर करी सम परिणामे

वर्त्तनार जे भ्रमण ससूह तेनी आप रक्षा करनार
छो ; कारण के मोक्ष मार्गमां विघ्न करनार मिथ्यात्व
कषाय आदि चोर लुंटाराउने बरोवर उलखावनार
तथा तेउं विघ्न नहि करी शके एवा उपायो बता-
वनार तथा आगेवान थइ पोताना अत्यंत बल
वीर्य वडे तेउंने निर्विघ्नपणे मोक्ष नगरे पहुँचाडनार
होवाथी हे परमेश्वर ! आपज अद्वितीय गोप तथा
ईश्वर छो. ॥ ५ ॥

भाव अहिंसक पूर्णता, माहणता उपदेश
रे ॥ धर्म अहिंसक नीपन्यो, माहण जग-
दीश विशेषरे ॥ माहण० ॥ अरि० ॥ ६ ॥

अर्थः—हे जगदीश्वर ! आपना सर्वे ज्ञानदर्श-
नादि भावो पूर्ण अहिंसकपणे वर्त्ते छे तथा संसारी
जीवोने पण स्वपर जीवना द्रव्य भाव प्राण न
हणवा एवो उपदेश आपो छो तथा कोइपण जीवना
द्रव्य भाव प्राणनी हिंसाना कर्त्ता न थाय एवा
केवलज्ञान केवलदर्शनादि अनंत धर्मो संपूर्ण शुद्ध
प्रगट-व्यक्त थया छे. तेथी आप अद्वितीय माहण-
अहिंसक पदवीना धारक छो. ॥ ६ ॥

पुष्ट कारण अरिहंतजी, तारक ज्ञायक मुनि-

चंदरे ॥ मोचक सर्व विभावथी, झीपावे
मोह अरींदरे ॥ झी० ॥ अरि० ॥ ७ ॥

अर्थ:-सत्तागते रहेला अनंत आत्मधर्माने
संपूर्ण शुद्ध प्रगट करवामां अर्थात् आ ससार
समुद्रथी पारंगत थइ मोक्ष अवस्था प्राप्त करवामां
हे विशालप्रभु अरिहंत ! आप पुष्टकारण-अनंतर
कारण छो. उक्तंच-सिद्धसेन पूज्यै: " पुष्ट हेतु-
जिनेंद्रोयं मोक्ष सद्भाव साधने " तेथी सर्वे
मुनिउं-ज्ञानीउंमां चंद्रमा समान प्रधान लोकालो-
कना ज्ञायक आपज आ भयंकर भवसमुद्रमांथी
तारनार छो; तथा राग द्वेष मोह विगेरे सर्वे विभा-
वथी मुक्त करवावाला तथा सर्वे शत्रुउंमां श्रेष्ठ
अत्यंत बलवान् मोह शत्रुथी जीताववावाला
छो. ॥ ७ ॥

कामकुंभ सुरमणि परे, सहजे उपगारी थाय
रे । देवचंद्र सुखकर प्रभु, गुण गेह अमोह
अमायरे ॥ गुण० ॥ अरि० ॥ ८ ॥

अर्थ:-जेम कामकुंभ तथा चिंतामणी रत्न,
बिनास्वार्थे अन्य जीवोने वांछित फलना दातार

थाय छे, तेमज हे प्रभु ! आपण संसार जन्य सकल क्लेशथी भव्य जीवोने मुक्त करवामां विनास्वार्थे सहजे मदस्कारी थाउं छो ए आपनी परम सज्जनता सुचवे छे. देवचंद्रमुनि कहे छे के हे प्रभु ! आप निःप्रयासिक अन निरुपचरित सुखना करवा-
थाला तथा ज्ञानादि अनंत गुणना गेह-निधान छो; तथा परिवार सहित मोहगजानो समूल ध्वंस करी नांख्यो छे तेथी अमोही, तथा अमाय कहेतां कपट रहित शुद्ध स्वरूपना प्रकाशक छो. ॥ ८ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ एकादशम श्री वज्रधर जिन स्तवन ॥

॥ नदी यमुना के तोर ॥ ए देशी ॥

विहरमान भगवान् सुणो मुज विनती,
जगतारक जगनाथ अछो त्रिभुवन पति;
भासक लोकालोक तिणे जणो छती, तो
पण वीतक बात कहुं छुं तुज प्रात ॥ १ ॥

अर्थ:-महा विदेहमां विचरता, भव्यसमूहने भवाब्धिथी उद्धारनार, सर्वे प्राणीओना हितचिंतक

तथा रक्षा करनार, त्रिलोक पूज्य, त्रिलोक स्वामी हे श्री वज्रधर भगवंत ! आपने जीवाजीवादिक कोई पण पदार्थ^१ उपर रंचमात्र पण राग, द्वेष, मोह वा ममस्व परिणाम नथी, तेथी कोईपण द्रव्य आपना सहजे परिणामता ज्ञान प्रकाशने व्याघात करी शके तेम नथी, तेथी आप कीईपण द्रव्य, कोईपण क्षेत्र, कोई पण काल वा कोईपण भावमां स्वलना नहि पामतां स्वक्षेत्रे स्थिर रही सकल लोकालोकना त्रैकालिक भावने हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष समकाले जाणो छो. यद्गुक्तं-महा भाष्ये, “ सर्व द्रव्य गतान् सर्वानपि पर्यायान् केवलंज्ञानं जानाति” तथा तत्त्वार्थ सूत्रे,—“ सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ” तोपण हुं मोहवशे अजाण होवाथी अविवेकी तथा अधीर थई में चार गतिरूप घोर भवाटवीमां भमतां जे जे दुराचरण तथा दुःख क्लेशादि सेव्यां ते सर्वे आपने अशरण शरण विलोकी आप प्रति सनमृता निवेदन करुंछुं ते करुणा पूर्वक सांभलशो, लक्षमां लेशो. ॥ १ ॥

हुं स्वरूप निज छोडी रम्यो पर पुद्गलें,
लील्यो उलट आणी विषय तृष्णा जलें;

आस्रव बंध विभाव करूं रुचि आपणी,
भूल्यो मिथ्यावास दोष यूं परभणो ॥ २ ॥

अर्थः—अचल, अबाधित, निरूपाधि, स्वतंत्र
अने सहज परमानंदमय मारा आत्मस्वरूपने अना-
दि अज्ञानवशे नहि जाणतां सहज आत्मोय परमा-
नंदनो वियोगी रही मारा आत्म द्रव्यथी पर, क्षण-
भंगुर, तथा अचेतन, जे पुद्गल द्रव्य तेयां सदा
आसक्त-लीन रह्यो तथा जे पौद्गलीक विषयो-
शार्दूल विक्रीडित वृत्तम्—“ भुजंता महरा विवाग
विरसा, किंवाग तुल्ला इमे । कच्छकडु अणव
दुःख जणया, दाविंति बुद्धिं सुहे ॥ मषभणहे
मय तिणेहअव्व सययं, मिच्छाभिसंधिप्पया
मुत्ता दिंति कुजम्म जोणे गहणं, भोगा महा
वेरिणो ” अज्ञानवशे भोगवतां मधुर-प्रिय लागे
छे पण विपाक काले किंपाकफलनी पेठे विरस,
प्राणघातक छे, तथा जेम खसने खणतां शांति
थती नथी पण उलटी चेल वधे छे, तेम विषयो
भोगवतां शांति-तृप्ति थती नथी पण उलटी तृष्णा
वधे छे तेथी परिणामे दुःखवर्धक छे, तथा ते विषयो-

मां लीनं यथां मृगतृष्णानीं पेटे निरंतरं दुष्टं अभि-
 प्रायो उपजे छे तथा ते भोगव्याधी अनेक प्रकारे
 कर्मबंध थवाधी नरकादि दुःखदायक कुगति, कुयो-
 निनी प्राप्ति थाय छे तथा गाथा-विषय रसासव
 मत्तौ, जुत्ताजुत्तं न जाणई जीवो ॥ झूरइ
 कलुणं पच्छा, पत्तो नरयं महाघोरं ॥ जह
 निंब दुम्म पत्तो, कीडो कडुअंपि मन्नहे म्हरं ।
 तह सिद्धि सुह परूरका, संसार दुहं सुहं
 विंति ॥ ” विषय रस रूप मदिरामां मदोन्मत्त
 यथां योग्य अयोग्यनुं-हेयादेयनुं भान नष्ट थाय छे,
 अने तेथी ज्यारे महा दुःखमय घोर भयंकर नर-
 कादि गतिनी प्राप्ति थाय छे स्यारे अतिशय पश्चा-
 ताप भोगवचो पडे छे. जेम लींबडामां वसतो कीडो
 लींबडाना कटुक रसने पण मधुर मानी सेवे छे,
 तेमज मिथ्यादृष्टी वडे मोक्ष सुखथी परोक्ष-विप-
 रीत जे विषय भोग वास्तविक रीते दुःख छे तेने
 सुख मानी सेवे छे तथा जे जलना प्रवाह तथा
 विजलीना चमस्कारनी पेटे क्षणीक छे तेथी अवश्य-
 जेनो विंयोग थवानो छे एवा महान् शत्रुरूप पुद्-
 गल विषयोनी तृष्णारूप जलमां हुं सदा हर्ष पूर्वक

क्रीडाकरतो निमग्न रह्यो तेथी आत्म स्वरूपने भूली
 शुद्धात्म स्वरूपथी पराङ्गमुख थई अत्यंत दुःखदायक
 भवसमुद्रमां भ्रमण करावनार ज्ञानावरणीयादि
 कर्मना आस्रव (पांच प्रकारना मिथ्यात्व, चार
 प्रकारनी अद्विती, पचीस कषाय तथा पंदर योग)
 तथा प्रकृति, स्थिती, अनुभाग अने प्रदेशबंधना
 हेतु राग द्वेष मोहादि विभाव तरफ में रुचि करी
 तथा मिथ्यावासमां अर्थात् मिथ्यात्व गुणस्थाने
 वसतांमिथ्यात्वना आवेशमां सम्यक्दर्शन, सम्यक्-
 ज्ञान, सम्यक्चारित्रमय आत्म स्वरूपने भूली अ-
 नेक प्रकारनां कम बांधी तेना दुष्ट फलनो भागी
 थयो अने ते दुष्ट विपाकना अवसरे माहरा पूर्वकृत
 कर्मनो दोष न विचार्यो, अने “ सव्वे पुव्व क-
 याणं, कम्ममाणं पावए फल विवागं । अवर-
 हेसु गुणेसु अ, निमित्त मित्तं परो हेइ ”
 आ असूत्य जिनवचननुं विस्मरण करी असुके मने
 क्रोध उपजाव्यो, मानमां पाड्यो, माया तथा लोभ-
 मां प्रवृत्त कर्यो तथा शोक, भय, अरति, जुगुप्सा
 विगेरे कषायो उपजाव्या एम कही परने दोष दीधो.
 स्वान जेम लाकडी मारनारने नहीं पण लाकडीने
 करडवा तथा भसवा मांडे छे तेम में पण मारा

પૂર્વકૃત દુષ્ટ કર્મ તરફ લક્ષ્ય નહિ દેતાં નિમિત્તમાત્ર જે પરદ્રવ્ય તેને દોષ દીધો અને હાલ પણ તેમજ વર્તેલું “ જો કત્તા સો મોત્તા, ” એવા જગ-જાહેર તથા સર્વમાન્ય જિનેશ્વરના વચનનો નિરા-દર કર્યો, ॥ ૨ ॥

અવગુણ ઢાંકણ કાજ કરું જિન મત ક્રિયા,
ન તજું અવગુણ ચાલ અનાદિની જે પ્રિયા:
દૃષ્ટિ રાગનો પોષ તેહ સમકીત ગણું, સ્યાદ્-
વાદની રીત ન દેખું નિજપણું ॥ ૩ ॥

અર્થ:-અનાદિથી અજ્ઞાન વશે પ્રિય થઈ પડેલી, ક્રુદેવ, કુગુરુ અને ક્રુધર્મને સન્માનવા આદરવા રૂપ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાનની તથા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા તથા ઘેદરાગ વિગેરેની દુષ્ટ ચાલ પ્રકૃતિનો તો સ્યાગ કર્યો નહિ અને કદાચ શ્રી જિનેશ્વરે ઘતાવેલી સામાયિક, પોસહ, પ્રતિક્રમણ, વંદન, સ્તવન, પૂજા વિગેરે ક્રિયાઓ, અપમાન નિંદા તથા દુરાચરણ ઢાંકવા માટે, આલોક પરલોકના વિષયભોગની આ-કાંક્ષા સહિત, તથા માયા મિથ્યાત્વ અને નિદાન-શલ્ય સહિત આદરી. “ વૈરાગ્યં રંગો પર વંચ-

नाथ, धर्मोपदेशो जन रजनाय ” एम विष
 गरल अने अन्योन्यानुष्ठान सेवतां संसारीक दुःख
 थी मारी निवृत्ति थइ नहि. कारण के “ निचुन्नो
 तंबोलो, पासेण विणा न होइ जह रंगो; तह
 दाण ” सील तव भावणाओ अहलाओ भाव
 विणा ” जेम चुना विना तांबूल, अने पास विना
 वस्त्र रंग पामे नहीं तथा जेम अंक विना मींडां
 निष्फल थाय तेम शुद्धात्म भाव रहित दान, शील,
 तप अने भावना संसारधी मुक्त करी शके नहीं.
 जल विना जेम सेरोवर, सुगंधी विना जेम कमल,
 चंद्रमा विना जेम रात्री, सूर्य विना जेम दिवस,
 तथा जीव विना जेम शरीर शोभा पामतां नथी;
 तेम भाव बगर साध्य निरपेक्ष क्रियाओ शोभा पा-
 मती नथी. पण जो ते आवश्यक आदि करणीओ
 भावपूर्वक करवामां आवे तो ते मोक्षनुं कारण
 थाय. जेम अंक सहितनां मींडां दशगुणी सख्या
 वधारनार थाय छे. माटे भावनुं स्वरूप जाणवुं
 जोईए. “ उवओगो भाव इति ” अर्थात् सूत्रनी
 साखे वीतरागनी आज्ञाए ज्ञान पूर्वक हेय उपादे-
 यनी परीक्षा करी अजीव तत्त्व तथा आस्रव तत्त्व

तथा बंध तत्त्वं ऊपर त्याग भाव अने जीवना गुण
जे सवर, निर्जरा, मोक्ष तत्त्व ऊपर उपादेय परि-
णाम ते भाव छे. माटे शुद्धात्म भाव सन्मुख
अर्थात् आपणा आत्माने राग, द्वेष, मोहधी मात्र
निवृत्त करवाना परिणाम सहित जो आवश्यकतादि
करणीओ करवामां आवे तो ते अवश्य मोक्षनुं कारण
थाय. वली "सम्भत्तेणं सुद्धो, सच्चसु किञ्चो
हवइ सिव हेऊ, संवर वुद्धी तह निजराय
धम्म मूलं च सम्भत्त ॥" तथा "मूलं दारं
पइठाणं, आहारो भायणं निहिः दुसुकं सावि-
धम्मस्स सम्भत्तं परिकिं यं ॥" शुद्ध समकित्त
तेज शिवनो हेतु, तथा संवरनी वृद्धि करनार,
निर्जरानुं कारण होवाथी सर्वे धर्मनुं मूल, तथा
मोक्ष महेलमां प्रवेश करवा माटे द्वार समान, चा-
रित्र महेलनी पीठिका, तथा रत्नत्रयना भाजन
रूप छे. एहवां आपनां पवित्र वचनो वांची सांभली
में समकित्तने असूल्य रत्न समान तो जाण्युं पण
हे भंगवंत ! आप तो "नय भंग पमाणोहिं, जो
अप्पा सायवाय भावेण, जाणइ मोरक सरुवं,
सम्मदिठिउ सो नेओ" नय भंग पक्ष प्रमाण

सहित स्याद्वादनये जीवादि तत्त्वने यथार्थ जाणे
 छे तेमज श्रद्धा करे छे तथा हेयने स्याग करवानी
 तथा उपादेय भावने आदरवानी रुचि होय तेने
 समकीती कहो छो. पण ते प्रमाणे तो में स्याद्वाद-
 नये आत्म तत्त्वनुं स्वरूप यथार्थ जाण्युं, सदृष्टुं
 नहि तथा समकितना जे सदसठ (चार सदहणा,
 त्रण लिंग, दश प्रकारे विनय, त्रण शुद्धि, पांच
 दूषणनो नाश, आठ प्रकारे प्रभाविक पणुं, पांच
 भूषण, पांच लक्षण, छ यतना, छ आगार, छ भा-
 वना तथासमकितनां छ स्थानक) बोल आपे कष्टा
 छे ते जाण्या शिवाय तथा जे होवा जोइए तेनी
 मारामां प्रगटता थइ छे के नहि, तेनो विचार
 करथा विना, समकीतना लक्षणोनी प्राप्ति विना,
 मात्र दृष्टीरागना पोषने अर्थात् नय, निक्षेप, पक्ष,
 प्रमाण वडे परीक्षा कर्या शिवाय कुलक्रमानुगत देव
 गुरु धर्मनी द्रव्यपरंपराय श्रद्धाने समकित गणी
 क्रियानुष्ठान सेव्यां पण निश्चय समकीत विना मने
 मोक्ष फलनी प्राप्ति थइ नहि. ॥ ३ ॥

मन तनु चपल स्वभाव वचन एकांतता,
 वस्तु अनंत स्वभाव न भासे जे छता । जे
 लोकोत्तर देव नमुं लौकीकथी, दुर्लभ सिद्ध

स्वभावं प्रभो तहकीकथी ॥ ४ ॥

अर्थः—जेम पुंगीना स्वरमां लीन थइ नाग पोताना मस्तकने पुंगी प्रमाणे डोलावे छे. तेमहुं पण पांच ईद्रियोना विषयोमां लीन थइ माहरा आत्म परिणामने चपल करी कर्मजालमां फसायो “ चलइ फंदइ ” तथा मिथ्यात्वना आवेशमां अनंत धर्मात्मक वस्तुमांथी कोइक धर्मने मुख्यतया बखाणतां बाकीना धर्मोनी गौणपणे पण अपेक्षा नहि राखवा रूप एकांत वचन अर्थात् दुर्नयने ग्रहण कर्यो, ते प्रमाणे में वस्तु स्वरूप सदहुं तथा बीजाने पण तेमज एकांते उपदेश आप्यो “ दे-
 हिवि णयेहिं णीयं सत्थं मूलण तहवि मिच्छत्तं ;
 जस्स विसयप्पहाणं, तणेणं अणुणणा निरवेरकं ”
 इति विशेषावश्यके—पण अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूपने में यथार्थ जाण्यु नहि “ अभिलाप्ये
 भावेभ्यः अनभिलाप्या अनंत गुणा ” एम
 अनंत गुण पर्यायनो भाजन ते द्रव्य-वस्तु छे माटे
 दरेक वस्तुमां अनंत भाव छता छे—मालिनिछंद—
 “ बहु विह नय भंगं, वच्छु णिच्चं अणिच्चं ।

सद सदनाभिलुप्यं, लुप्यमेगं अणेगं ” ते में
 एकांत-मिथ्यात्व वशे न जाण्या-एम मिथ्यात्व
 भावमां फसी रह्यो अने तेथी इंद्रगणे वंदित, त्रि-
 लोक पूज्य जे लोकोत्तर अरिहंत देव तेअोने लौकीक
 रीते अर्थात् अज्ञान अने राग सहित, परभावना
 कर्त्ता हर्त्ता जाणी आलोक परलोक संबंधी विषयो-
 नी प्राप्ति अर्थे, तथा भान पूजा आदि अर्थे नमुं
 छुं-वंदन स्तवन पूजा प्रमुख करुं छुं पण तेथी
 जिनेश्वरे वतावेलो जे अत्यंत दुर्लभ सिद्ध स्वभाव
 तेनी प्राप्ति केस थाय ? ॥ ४ ॥

महाविदेह मझार के तारक जिनेवरु, श्री
 वज्रंधर अरिहंत अनंत गुणाकरु । ते नि-
 र्यामक श्रेष्ठ सही मुज तारशे, महा वैद्य
 गुणयोग रोग भव वारशे ॥ ५ ॥

अर्थ:-महाविदेह क्षेत्रमां विचरता आ भीम
 भवार्णवमांथी भव्य समूहनो उद्धार करनार, सर्वे
 केवलीओमां इंद्र समान, शिरोमणी, ज्ञानादि अनंत
 गुणना आकर-निधान हे वज्रंधर अरिहंत ! आप,
 चरण जहाजने चलावनाराओमां अग्रेसर-प्रधान
 सर्वोत्तम निर्यामक होवाथी आ भयंकर भवाब्धि-

मांथी निःसंदेह अति स्वराए माहरो उद्धार करशो
 तथा महावैद्यरूप थइ माहरा आत्म परिणाममां
 सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्रनो योग करी मिथ्या
 आचरण वडे उपजेला भवरोगनो वेगे समूल विनाश
 करशो एवी माहरा चित्तने दृढ प्रतित छे. ॥ ५ ॥

प्रभु मुख भव्य स्वभाव सुणुं जो माहरो,
 तो पामे प्रमोद एह चेतन खरो । थाये
 शिवपद आश राशि सुख वृंदनी, सहज
 स्वतंत्र स्वरूप खाण आणंदनी ॥ ६ ॥

अर्थः—“ भवन व्यय विणुं कार्य न निपजे
 हो, जिम दृशदे न घटत्व ” तेमज जेमां भव्य
 अर्थात् पलटन स्वभाव नथी एटले जे जीवमां
 मिथ्यात्वथी पलटी समकीत भावे परिणमवानुं
 सामर्थ्ये नथी तेने अभव्य कहीए तथा अचिरतीथी
 पलटी विरतीभावे परिणमवानुं सामर्थ्ये नथी तथा
 प्रमाद भावथी पलटी अप्रमाद भावे पलटवानुं
 सामर्थ्ये नथी, तथा कषाय भावथी पलटी अकषाय
 (शम) भावे परिणमवानुं सामर्थ्ये नथी (एटले
 पूर्व अहितकारी) पर्यायनो व्यय, नवा प्रशस्त

पर्यायनुं भवन करवानुं सामर्थ्य जेमां नथी तेनुं कार्य थाय नही. ए विगेरे विभावथी पटली स्वभाव रूपे परिणमवानुं सामर्थ्य नथी एवा अभव्य जीवो अनंत कालसुधी अनंत उपाय करता छतां पण “ कोटी जतन करी निशदिन धोवत उजरी न होवत कामर कारी ” ए प्रमाणे आ संसार चक्रवालमांथी मुक्त थई सिद्धि सुख पामी शके नहीं. कारण तेओ व्रत, समिति, गुप्ति आदि पालता छतां पण मिथ्यात्व, अज्ञान अने पराचरण (मिथ्याचरण) ना सेवक छे उक्तंच वद समिदी युत्तीऊ, सील तवं जिणवरोहि पणत्तः कुव्वंतोवि अभवो, अणाणी मिच्छदिट्ठीऊ ”

कारण के अभव्य जीवोनो स्वभावज एवो छे के श्रुत अभ्यास करे, द्रव्यथी पंचमहाव्रत आदरे पण आत्मतत्त्वनी यथार्थ अद्वाविना कोई, पण काले प्रथम गुणस्थानने सूकी शके नहि माटे तेओ सिद्धिपद पामवाने योग्य नथी. पण हे जिनेश्वर ! आपना आज्ञा प्रमाणे आ संसारथी निवृत्त थइ ।ोक्ष स्वरूप साधवानी मने रुचि छे, भवभ्रमणथी भयभीत हुं. तथा सत्य न्यायने स्वकारुं छुं, ए आदिकेटलाक

भाववडे “ हुं भव्यं हुं ” एवु अनुमान थायछे तो पण हे सर्वज्ञ देव ! आपना मुखारविंदथी “ तुं भव्यं हुं ” एवुं वचन सांभलुं, तो माहरा भव्यत्वनी मने संपूर्ण पणे प्रतीत, थाय अने सहज स्वतंत्र सच्चिदानंदमय अनंत सुख समूहरूप शिवपद प्राप्ति-नो भरोसो थाय ॥ ६ ॥

वलग्या जे प्रभु नाम धाम ते गुण तणा,
 धारो चेतन राम एह थिर वासना ॥ देवचंद्र
 जिनचंद्र हृदय स्थिर थापजो, जिन आणा
 युत भक्ति शक्ति मुज आपजो ॥ ७ ॥

अथ:-हे भगवंत ! जे पुरुषो आपना स्मरण, कीर्तन, भक्ति विगरेमां लीन छे तेज पुरुषो गुणना धाम कहेतां भाजन छे. माटे हे चेतनराम ! निरंतर प्रभुना स्मरणमां थिर वासकर, एक पण समय प्रभुपदने विसार नहि. देवचंद्र मुनि कहे छे हे जिनेश्वर देव ! मने लब्धि वीर्यनुं दान करी आपनी आज्ञा प्रमाणे आपनी भक्ति करवानी मने शक्ति आपो कारण के आपनी आज्ञाथी विपरीतपणे करे-लां सर्वे क्रिया अनुष्ठान निष्फल छे. “ जो कोइ आणा रहिओ, पूआ पमुहं करेइ तिकालं ।

तस्मावि सव्वम सुद्धं, आणावज्जं अणुट्ठाणं ॥”
जे कोइ पुरुष आज्ञा रहित पणे त्रणे काल पूजा
प्रमुख करणी करे तो पण आणा रहित होवाथी तेनुं
सर्वे अनुष्ठान अशुद्ध जाणवुं. “ जहतुस खंडण
मय मंडणाइ रूपणाइ सुन्न रत्तामि ॥ विहलाइ
तह जाणसु, आणा रहियं अणुट्ठाणं ” जेम
तुस-कुसकानुं खांडवुं, मुडदाने शणगारवुं तथा
सुना वगडामां विलाप करवो निष्फल छे तेम जिन
आज्ञा बगरनुं अनुष्ठान पण निष्फल जाणवुं.
“ जह भोयणमविहिकयं, विणासए विहिकयं
जियावेई; तह अविहिकओ धम्मो, देइ भवं
विहिकओ मुरकं ” जेम अविधिए करेलुं भोजन
विनाश करे तथा विधिए करेलुं भोजन जीवन आपे
तेमज अविधिए आदरेलो धर्म भवभ्रमण आपे अने
विधिए आदरेलो धर्म मोक्ष सुख आपे; माटे
आपनी आज्ञानुं ज्ञान तथा ते आज्ञामां वसवा रूप
सदाचरण ए बनेनुं हे करुणानिधान ! मने दान
आपो. ॥ ८ ॥

॥ अथ श्री द्वादशम श्री चंद्रानन जिन स्तवनम् ॥

॥ वीराचांदला ए देशी ॥

चंद्रानन जिन सांभलिये अरदासरे, मुज
सेवक भणी. छे प्रभुनो विश्वासरे चंद्रानन
जिन ॥ १ ॥

अर्थ:-हे भगवंत ! आप पी तेमज अरूपी
निकटवर्ती तेमज दूरवर्ती, सूक्ष्म तेमज स्थूल, सर्वे
पदार्थोने तेना त्रैकालिक गुण पर्याय सहित एक
समयमां हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष जाणनार होवाथी
सर्वज्ञ, तथा अनंत आनंदमां पोताना गुणपर्या-
योमां निरंतर तल्लोन-स्थिर होवाथी अन्य कोईपण
द्रव्य पर्यायमां आपनो राग द्वेषरूप परिणाम थतो
नथी तेथी वीतराग छो, अने सर्वज्ञ तथा वीतराग
होवाथी आपनी दिव्य वाणीमां प्रत्यक्ष परोक्षादि
कोईपण प्रमाणवडे विसंवाद आवी शकतो नथी,
कोईपण प्रकारना रंचमात्रपण दूषणने अवकाश
मलतो नथी; माटे हे प्रभु ! आपज आ भीषण
भवससुद्रमांथी भव्य समूहने उद्धारवा समर्थ छो.
पण आपथी विमुख बुध कपिलादि अन्य तीर्थीओ
के जे तेओनां आचरण तथा वाणीवडे अज्ञान तथा

तस्मात्सि सव्वम सुद्धं, आणावज्जं अणुट्ठाणं ॥”

जे कोइ पुरुष आज्ञा रहित पणे त्रणे काल पूजा प्रमुख करणी करे तो पण आणा रहित होवाथी तेनुं सर्वे अनुष्ठान अशुद्ध जाणवुं. “ जहतुस खंडण

मय मंडणाइ रूपणाइ सुन्न रत्तंमि ॥ विहलाइ

तह जाणसु, आणा रहियं अणुट्ठाणं ” जेम

तुस-कूसकानुं खांडवुं, मुडदाने शणगारवुं तथा

सुंना वगडामां विलाप करवो निष्फल छे तेम जिन

आज्ञा बगरनुं अनुष्ठान पण निष्फल जाणवुं.

“ जह भोयणमविहिकयं, विणासए विहिकयं

जियावेई; तह अविहिकओ धम्मो, देइ भवं

विहिकओ मुरकं ” जेम अविधिए करेलुं भोजन

विनाश करे तथा विधिए करेलुं भोजन जीवन आपे

तेमज अविधिए आदरेलो धर्म भवभ्रमण आपे अने

विधिए आदरेलो धर्म मोक्ष सुख आपे; माटे

आपनी आज्ञानुं ज्ञान तथा ते आज्ञामां वसवा रूप

सदाचरण ए बनेनुं हे करुणानिधान ! मने दान

आपो. ॥ ८ ॥

॥ अथ श्री द्वादशम श्री चंद्रानन जिन स्तवनम् ॥

॥ वीराचांदला ए देशी ॥

चंद्रानन जिन सांभलिये अरदासरे, मुज
सेवक भणी. छे प्रभुनो विश्वासरे चंद्रानन
जिन ॥ १ ॥

अर्थ:-हे भगवंत ! आप पी तेमज अरूपी
निकटवर्ती तेमज दूरवर्ती, सूक्ष्म तेमज स्थूल, सर्व
पदार्थोने तेना त्रैकालिक गुण पर्याय सहित एक
समयमां हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष जाणनार होवाथी
सर्वज्ञ, तथा अनंत आनंदमां पोताना गुणपर्या-
योमां निरंतर तल्लोन-स्थिर होवाथी अन्य कोइपण
द्रव्य पर्यायमां आपनो राग द्वेषरूप परिणाम थतो
नथी तेथी वीतराग छो, अने सर्वज्ञ तथा वीतराग
होवाथी आपनी दिव्य वाणीमां प्रत्यक्ष परोक्षादि
कोईपण प्रमाणवडे विसंवाद आवी शकतो नथी,
कोईपण प्रकारना रंचमात्रपण दूषणने अवकाश
मलतो नथी; माटे हे प्रभु ! आपज आ भीषण
भवससुद्रमांथी भव्य समूहने उद्धारवा समर्थ छो.
पण आपथी विमुख बुध कपिलादि अन्य तीर्थीओ
के जे तेओनां आचरण तथा वाणीवडे अज्ञान तथा

राग द्वेषादि दूषणोयुक्त भरपूर कलकित प्रतीत
 थाय छे, भवसमुद्रमां नेमत्र जणाय छे, अने तेथी
 तेओना वचनमां प्रत्यक्ष परोक्षादि प्रमाणवडे अनेक
 दूषणो-द्रष्टिगोचर थाय छे, तेओ भवसमुद्रमांथी
 केम उद्दारी शके ? “ जे नवि भव तर्या निर्गुणी
 तारशे किणपरे तेहरे ” माटे पोते बृडनार तथा
 आश्रितने बृडावनार पत्थरनी नावनो केम विश्वास
 रखाय ? तेथी हे त्रिलोक पूज्य ! आ भवसमुद्रमांथी
 मुक्त थवा माटे हुं स्वेचकने आपनोज विश्वास-आ-
 धार छे, माटे समतारूप अमृत समुद्रने वृद्धिगत
 करनार, तथा अव्यरूप कुमुद समूहने विकश्वर
 करनार, तथा कषाय तापने समाववामां, आत्म-
 वीयनी वृद्धि करवामां समर्थ एवी तत्त्वोपदेशरूप
 निर्मल चांदनीने आ भूमंडलमां फेलावनार हे जगत्
 चूडामणि चंद्रानन जिनेश्वर ! अज्ञान तथा कषाय
 जन्य दुःखथी भयभीत थएलो हु भवभीरु आप
 प्रति विनंती करुं छु ते कृपाकरी सांभलो-अवधारो.

भरतक्षेत्र मानवपणारे, लाध्यो दुःसम काल ॥

जिन पूरवधर विरहथीरे, दुलहो साधन चा-
 लारे ॥ चंद्रानन० ॥ २ ॥

अर्थः-मेरुपर्वत जेटला राइना ढगलामां पडी गयेलो सरसवनो दाणो मली शकवां जेम अस्यंत मशकलं छे तेमज मनुष्य भव पण आ भवसमुद्रमां अमण करतां पामवो अस्यंत दुर्लभ छे तंम छतां कदाच मनुष्य भवनी प्राप्ति थाय तो, आर्यक्षेत्र, लांबु आयुष्य, नीरोगता, उंचकुल विगेरे उत्तरोत्तर अतिशय दुःप्राप्य छे छतां ते सर्वे सामग्रीओ कोई माहरा महत् पुण्य प्रसादे आ दुःषमकालमां (पांच-मा आरामां) हे चंद्रानन प्रभु ! मने प्राप्त थइ पण केवलज्ञानी, चौद पूर्वधर, दश पूर्वधर, तथा प्रत्येक बुध के जेओ तत्त्वना यथार्थ ज्ञाना उपदेष्टा छे, जेनां वचनो प्रमाण भृत छे, निशंकपणे विश्वास पात्र छे, जेना वचनानुसारे सर्वेनां वचनो परखी शकाय छे, एवा गुण समुद्र पूज्य पुरुषोना वियोग वडे सहजा-नंदरूप मोक्षपद साधवानो साचो मार्ग अतिशय दुर्लभ थइ पड्यो छे. ॥ २ ॥

द्रव्य क्रिया रुचि जीवडा रे, भाव धर्म रुचि हीन ॥ उपदेशक पण तेहवारे, शुं करे जीव नवीनरे ॥ चंद्रानन० ॥ ३ ॥

अर्थः-हे भव्यो! अनादिकालथी आपणो आत्मा जे अज्ञान, मिथ्यात्व, अने कषाय वडे मलीन होवा-

थी आ भयानक भवसमुद्रमां भ्रमण करतां जन्म
जरा मरण रोग शोक वियोग ताडन तर्जन आदि
अनेक प्रकारनां शारीरिक तेमज मानसिक दुःखो
सहन करे छे, पोतानी अनंत आनंदमय दशाथी
दूरवर्ती थइ रह्यो छे, तेथी अज्ञान मिथ्यात्व अने
कषायादि दूषणोथी मक्त करी, अनंत ज्ञान दर्शन
सुख वीर्यमय परम निर्मल शुद्ध सिद्ध पदम वि-
राजमान करवो अर्थात् पूर्ण शुद्धात्म भाव प्रगट
करवो-प्राप्त करवो, एज आपणुं परम कर्त्तव्य छे
तथा एज आपणुं सर्वोत्कृष्ट अनंत सुखप्रद अवि-
नश्वर साध्य छे. पण मोहनिय कर्मना प्रबल उदय
बडे पोताना सर्वोत्कृष्ट साध्य साधवानी रुचिथी
पराङ्मुखपणे धर्मनुं मूल जे समकीत (सम्मत्तेणं
सुध्दो, सच्चसु किञ्चो हवइ सिवहेउ, संवर
वुद्धी तह निज्जरा य धम्म मूलं च सम्मत्तं)
ते प्राप्त कर्या वगर पोताना दुष्कृतो ढांकवा माटे,
अथवा मान पूजाने अर्थे, अथवा आ भव संबधी
कामभोगना पदार्थो मेलववा माटे, अथवा देवादिक
गतिना मनोहर विपुल भोगो प्राप्त थवा माटे घणा
जीवो सामायिक, प्रतिक्रमण, पञ्चखाण, तथा समिति
परिसहसहनादि अनेक द्रव्य क्रियाओ चि सहित

आदरे छे पण हे भगवंत ! ते सर्वे क्रियाओ शुद्ध साध्य निरपेक्ष अर्थात् परमार्थ विमुख होवाथी विष, गरल, तथा अन्यानुष्ठान रूपे आसव हेतु थइ पडे छे. यद्युक्तं श्री आचारांग सूत्रे "जे आसवा ते परिमवा, जे परिसवा ते आसवा" माटे ते बालकनी क्रियावत् निर्वाण पद आपवाने असमर्थ छे, उक्तंच परमदृष्टिदुःखदो जो कुणइ तवं वयंच धारेइ, तं सब्वं बाल तवं, बालवयं विति सब्वण्हू॥ वयणियमाणि धरंता, सीलाणि तथा तवंच कुव्वंता । परमदृष्टि बाहिरा जे, निव्वाणं तेण विंदंति ॥ तथा उपदेश मालायाम्-संसार सागर म्निगं, परिभमं-तेहि सब्व जीवेहिं । गहियाणि अ मुक्काणिय, अणंतसो दंठ्व लिंगाइं-अर्थः-अरे आ संसार ससुद्रमां परिभ्रमण करतां जीवोए द्रव्यलिंग अनंती-वार ग्रहण कर्या छोड्या पण ते द्रव्यलिंग, समकित रहित तथा साध्य निरपेक्ष होवाथी सिद्धिना हेतु थइ शक्या नहि. जेम घटनो ईच्छक कोइ कुंभार घट उत्पन्न करवानां साधनो जे दंड चक्रादि तेनो रात दिवस निरंतर घणो व्यापार करे पण साध्य जे घट ते सिद्ध करवा तरफ जो लक्ष आपे नहि

अर्थात् माटीने चक्र ऊपर सूकी तेमांथी स्थास कुशल बुध्नादि पर्यायो निपजावे नहि तो कोइ पण काले घट सिद्ध थाय नहि. पण जो ते घट सिद्ध करवा तरफ लक्ष स्थापी स्थास कुशल बुध्नादि पर्यायो उपजाववामां दंड चक्रादिनो योग्य व्यापार करे तो अवश्य घट सिद्धि करी शके अने त्यारेज तेनो दंड चक्रादिनो सर्वे व्यापार सफल कहेवाय तेमज भवभ्रमणथी उद्धिग्न थएल भव्य जीव शुद्धात्म भाव सिद्ध करवानी रुचि धरी ते तरफ पुरतो लक्ष आपी गुणस्थान प्रमाणे योग्य व्यवहार आदरे अर्थात् प्रथम समकीत गुण प्राप्त करवानो व्यवहार आदरे कारण के ते मोक्षनुं प्रथम पगथीउं छे “ जिन पणत्तं धम्मं, सदहंमाणस्स होई रयण मिणं ॥ सारं गुण रयणाणय, सोवाणं पढम मोरकस्स ” पछी देश बिरति सर्वविरती थवानो व्यवहार आदरे, पछी अप्रमत्तादि गुण स्थान प्राप्त थवानो योग्य (आगम प्रणीत) व्यवहार आदरे तो केवलज्ञानादि अनुपम लक्ष्मीनो स्वामी थाय, पोतानुं अजर अमर शुद्धात्म (निर्वाण) पद प्राप्त करे. अने तेम करतां तेनो व्रत तप पञ्चखाण प्रति-क्रमणादि सर्वे व्यवहार सफल कल्याणकारी कहे-

बाय. पण हे चंद्रानन प्रभु ! अनादि कालधी पुद्-
 गलद्रव्यनागुण पर्यायोने अनुभवता. तेसांज तल्लीन
 थएला संसारी जीवोने सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र
 रूप भावधर्मनी रुचि क्क्यांथी थाय ! जो कदाच
 एम पोतानी मेले थवी मुश्केल तो सद्गुरुना उप-
 देश वडे पण थइ शके पण आ निकृष्ट पंचम आ-
 रामां भावधर्मेनां स्थापन करनार परमोपकारी
 सद्गुरुना अतिशय विरलता अने भावधर्म एक
 कोरे मूकी साध्य शून्य द्रव्यक्रियामां लगाडनार
 उपदेशको घणा. ए विषे न्याय विशारद श्रीमद्
 यशोविजयजी कहे छे—“ ज्ञान दर्शन चरण गुण
 विना, जे करावे कुलाचाररे, लुंटीया तेणे जन देख-
 तां, किहां करे लोक पोकाररे ॥ काम कुंभादिक
 अधिकतुं, धर्मतुं को नवि मूलरे, दोकडे कुगुरु ते
 दाखवे, शुंथयुं एह जग शूलरे ॥ अर्थनी देशना जे
 दिये, ओलवे धर्मना ग्रंथरे; परम पदनो प्रगट चोरथी;
 तेहथी केम वहे पंथरे ॥ विषय रसमां गृही माची-
 यां, नाचीया कुगुरु मद पूररे; धूम धामे धमाधम
 चली, ज्ञान मारग रह्यो दूररे ॥ कलहकारी कदाग्रह
 भर्या, थापता आपणा बोलरे; जिन वचन अन्यथा
 दाखवे, आज तो बाजते ढोलरे ॥ केइ निज दोषने

गोपवा, रोपवा केह मत कंदरे; धर्मनी देशना पालटे, सस्य भाखे नहि मंदरे ॥” आचार्य कहे छे “ किं भणिमो किं करिमो, ताणह आसाण धिट्ठट्ठणं । जो दंसिऊण लिंगं, खिंचिति णरयम्मि मुद्धजणं ॥ ” तो हे भगवंत ! नवा जीवो जिन दर्शित शुद्धात्म धर्मने शीरीते पामी शके ? ॥ ३ ॥

तत्त्वागम जाणग तर्जारे, बहु जन सम्मत जेह । मूढ हठी जन आदर्यारे, सुगुरु क-हावे तेहरे ॥ चंद्रानन० ॥ ४ ॥

अर्थ:-वली हे प्रभु ! आपना भाखेला आगमनुं यथार्थ रहस्य जाणनारने तो आ पंचम कालमां मूढ पुरुषो तजी दे छे-उवेखे छे, अने तत्त्व ज्ञानथी विमुख, मूर्खना टोलाने संमत तथा मूढ अने कदा-ग्रही पुरुषोए आदरेला सन्मानेला एहवा कुगुरुओ, सुगुरु नाम धरावे छे, पण पत्थरनी नाव जेवा प्रगटपणे जिनशासनना वैरीरूप कुगुरुओ भवसमुद्र-मांथी केम उद्दारी शके ? मोक्षमार्गे शी रीते दोरी शके ? उक्तंच:-जिम जिमबहु श्रुतबहुजन संमत,

बहु शिष्ये परिवरिओ; तिम तिम जिनशासननो
 वैरी; जो नवि निश्चय दरिघोरे-तथा उपदेश माला-
 याम्: “ जह जह बहु सुअसमओ, सीम गण
 संपरिवुद्धोय; अविणीच्छओ असमए, तह तह
 सिद्धंत पडिणीओ. ”

आणा साध्य विना क्रियारे, लोके मान्यो रे
 धर्म । दर्शन ज्ञान चरित्तनोरे, मूल न जा-
 पयो मर्मरे ॥ चंद्रानन० ॥ ५ ॥

अर्थ:-दर्शन ज्ञान चारित्रनो मूल मर्म जाणयो
 नहि अर्थात् सत्ताए अनन ज्ञान दर्शन चारित्र मय
 सिद्ध समान सर्वे जीवो छे, पण अनादिधी कर्म
 मल संबधे अशुद्ध होवाथी ज्ञान दर्शन अने चारित्र
 रूप शुद्धात्म स्वभावथी विपरीतपणे मिथ्यात्व,
 अज्ञान, अने कषाय रूप परिणमे छे, पोताना आत्म-
 वीर्यने तेमां वापरे छे अने तेथी निरंतर सात आठ
 प्रकारनां कर्म बांधी भवसमुद्रमां परिभ्रमण करतां
 अनेक प्रकारनी शारीरिक तथा मानसिक असह्य
 वेदनाओ भोगवे छे. पण ते मिथ्यात्व, अज्ञान, अने
 कषायने तीव्र दुःख दातार तथा अखूट सहजानंदने

लूटनार महान् शत्रुओ जाणी तैमां पोताना आत्म-
वीर्यने नहि वापरतां जीवादि तत्त्वोना यथार्थ
श्रद्धानरूप सम्यक्दर्शन, तथा ते जीवादि तत्त्वोने
नयनिक्षेप पक्ष प्रमाणादि सहित संग्रह, विभ्रम
अने विमोह रहित श्रद्धान पूर्वक जाणवा रूप
सम्यक्ज्ञान, तथा रागादिक कषाय अने सावद्य यो-
गना परिहार रूप सम्यक्चारित्रमां प्रयुंजो संसार
समुद्रथी आपणा आत्मानो उद्धार करवो. यतः—

गाथाः-जीवादी सदहणं, सम्मत्तं तेसि मधि-
गमो णाणं; रागादी परिहणं, चरणं एसो दु
मोरकपहो) दश द्रष्टांते दुर्लभ, रत्न चिंतामणी
समान मनुष्य भव त्यारेज सफल जाणवो. का-
रणके पंचेंद्रिओना विषय भोग तो देवादि गतिमां
मली शके छे पण परमात्मपद-मोक्षपद तो आ
मनुष्य भवमांज साधी शकाय छे. माटे आपणा
आत्माने रत्नत्रयमां जोडवो, मोक्षमार्गमां प्रवृत्त
धवुं, एज आपणुं सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य छे, अने तेज
धर्म छे-यतः (सदृष्टीज्ञान वृत्तानि, धर्म धर्मेश्वरा
विदुः; यदीय प्रत्यनीकानि, भवन्ति भव पद्धतिः)
तेज जगत्त्वत्सल देवाधिदेव तीर्थकर भगवंतनी

आज्ञा छे- “ मोरक पहे अप्पाणं, ववेहि तं
 चेव झाहिं तं चेय, तत्थेव विहर णिच्चं, मा
 विहरसु अण दब्बेसु ” हे भव्य ! तुं मोक्षमार्ग-
 मां पोताना आत्माने स्थाप, तेज परमात्मपदनुं
 ध्यान कर, तेज परमात्म पदने अनुभवगोचर कर,
 अने तेज परमात्म भावमां निरंतर विहार कर,
 अन्य द्रव्य पर्यायमां विहार करीश नहि, तेमां
 इष्टानिष्ट बुद्धि वा राग द्वेष रूप परिणाम करीश
 नहि अर्थात् सर्वदा प्रमाद तजी परमात्मपदनी
 साधनामां मग्न था.

पण हे चंद्रानन प्रभु ! आ दुःषमकालमां ते
 परमात्म पदनुं यथार्थ स्वरूप जाण्यावगर तथा तेनी
 साधनारूप जिनेश्वरनी आज्ञानी अपेक्षा तरफ लक्ष
 राख्या शिवाय अनेक प्रकारनी बाह्य क्रियाओनेज
 धर्म मानी लीधो, तेमांज रत थया, तेज करी पो-
 ताने कृतार्थ समज्या अर्थात् बाह्य निमित्तने कार्य
 मानी साचा कार्यथी विमुख थई रह्या, पण जिने-
 श्वरनी आज्ञाथी विमुखपणे वर्त्ततां सिद्धि थाय
 नहि. कारणके जिनेश्वरनी आज्ञानी अपेक्षा वगरनां
 सर्वे क्रियानुष्ठान निरर्थक छे-श्रीमद् अभयदेव सूरि

कहे छे—“संजम रहियं लिंगं, दंसण भट्टं न संजमं
 भणियं, आणा हीणं धम्मं, निरत्थयं होइ सव्वंपि”
 तथा “जो पूइइइ देवो, तव्वयणं जे नरा विरा-
 हंति; हारंति वोहि लाभं, कुदिट्ठि राएण अन्नाणी”
 तथा “पूआ पच्चरकाणं, पोसह उववास दाण
 सीलाइ; सव्वंपि अणुट्ठाणं, निरत्थयं कणय कुसु-
 मव्व” तथा श्री धर्मदास गणी उपदेशमालामां
 कहे छे. “आणाइच्चिय चरणं, तभंगे ज्ञाण किन्न
 भग्गंति, आणं च अइक्कंतो, कस्साएसा कुणइ
 सेसं; निश्चये आजा एज चारित्र छे अर्थात् जिना-
 ज्ञानुं पालवुं एज चारित्र छे. तो जेणे जिनेश्वरनी
 आजा भांगी तेणे शुं न भांग्युं ? हे प्राणी, जो तुं
 जिनेश्वरनी आज्ञाने उलंघन करे छे तो तुं कोना
 आदेशथी क्रियानुष्ठान करे छे ? तथा उपदेश सिद्धांत
 रत्नमालायाम्—“जगगुरु जिणस्स वयणं, सयलाण
 जियाण होइ हिय करणं; ता तस्स विराहण्या,
 कह धम्मो कहणु जीवदया” जगत्गुरु श्री जिने-
 श्वरनुं वचन सर्वे जीवोने हित करनार छे तो ते
 वचनने विराधता केवो धर्म अने केवी जीव
 दया ? ॥ ५ ॥

गच्छ कदाग्रह साचवेरे, माने धर्म प्रसिद्ध;

आत्म गुण अकषायतारे धर्म न जाणे
शुद्धरे ॥ चंद्रानन० ॥ ६ ॥

अर्थ:-सम्यक्दर्शन सम्यक्ज्ञान सम्यक्चारित्र-
रूप शुद्धात्म गुणानो, क्रोध, मान, माया, लोभादिक
कषायो वडे घात न करवो, अकषाय भावमां, शुद्ध
परिणामीक भावमां वर्तवुं तेज साचो धर्म छे.
कारणक “ वत्थु सहावो धम्मो ” एवं श्री जिने-
श्वरनुं पच्चित्र वचन छे-तथा ते कषायोज कर्मबंधना
हेतु छे. “ जोग निमित्तं गहणं, जोगो मण वयण
काय संभूदो; भाव निमित्तो बंधो, भावो रदि राग
दोम मोह जुदो ” तथा अकषायमां वर्ततो-पोताना
ज्ञानादि भाव प्राणोनी रक्षा करनारो ज्ञानी अप्र-
मादी मुनि पोताना तथा परना द्रव्यभाव प्राणो
हिंसक केम थाय ? अने जे अशुद्ध अर्धवसायमां
वर्तं छे ते हिंसा नहि करता छतां पण हिंसक छे.
यतः-“अहणंतो विहु हिंसो, दुट्ठतणुओ मओ
अहिमरोव्व, बाहितो नवि हिंसो, शुद्ध तणुओ
जहा विज्जो ” माटे अकषायमां वर्तवुं तथा अ-
हिंसामां वर्तवुं ए वेनी परमार्थे एकताज छे. अने

अहिंसा धर्मनुं पालन करनार सर्वे धर्मनुं पालन करनार छे, कारण के सर्वे भहाव्रतो, तथा क्षमा-दिक दश धर्मो, तथा परिसह सहन, तथा तप, संयम विगेरे सर्वे धर्मो अहिंसानाज अंग छे, ते-नाज कारणो छे, माटे सर्वे धर्मो नो अहिंसामां समावेश थाय छे.

“ सव्वाओवि नइओ, जह सायरंमि निवडंति; तह भगवई अहिंसि, सव्वे धम्मा समिल्लन्ति, ” तथा बली “ अहिंसा सर्व जीवानाम्, सर्वज्ञैः परि-भाषिता, इदं हि मूलं धर्मस्य, शेषस्तस्यास्ति वि-स्तरः ” माटे अकषायमां वर्त्ततो मुनि, नवा कर्मबंधने अटकावतो, पूर्वे बांधेला कर्मनी निर्जरा करतो, जन्म अरणादि दुःखनो क्षय करी परमानंदपदने-मोक्षपदने प्राप्त करे छे. यद्युक्तं—आचारांग सूत्रे श्रीजा अध्ययने “ जे क्रोधने छोडे छे ते मानने छोडे छे; जे मानने छोडे छे ते मायाने छोडे छे; जे माया ने छोडे छे ते लोभने छोडे छे; जे लोभने छोडे छे ते रागने छोडे छे; जे रागने छोडे छे ते द्वेषने छोडे छे; जे द्वेषने छोडे छे ते मोहने छोडे छे; जे मोहने छोडे छे ते गर्भथी मुक्त थाय छे; जे गर्भथी मुक्त थाय छे ते जन्मथी मुक्त थाय छे; जे जन्मथी मुक्त थाय

छे ते मरणथी मुक्त थाय छे; जे मरणथी मुक्त थाय छे ते नरकथी मुक्त थाय छे; जे नरकथी मुक्त थाय छे ते तिर्यच गतिथी मुक्त थाय छे; जे तिर्यच गतिथी मुक्त थाय छे ते दुःखथी मुक्त थाय छे ” एहवा अकषायरूप शुद्ध धर्मने नहि जाणनारा, तेनी अपेक्षा नहि राखनारा, एकांते बाह्य क्रियानी हठ धरनारा पुरुषो मात्र बाह्य क्रियानेज मोक्षनुं कारण मानी, पोताना गच्छ प्रमाणे वर्ती ते बाह्य क्रियानेज परमार्थ ठराववा प्रयत्न करे अने कहे के आवुं पात्र, वा आवी मुहपत्ती, विगेरे राखवां अने आवीज रीते प्रतिक्रमणादि क्रिया करवी तेज मोक्षनुं कारण छे. अमाराथी प्रकारांतरे जे उपकरणो तथा प्रतिक्रमणादि बाह्य क्रियाओ आदरे छे ते मोक्ष पामी शके नहि. एम पोते आदरेल बाह्य लिंगने तथा बाह्य करणीने परमार्थ मोक्षनुं कारण मानी अमे साचो धर्म आराधीए छिये, अमारो धर्म प्रशंसनीय छे, एम जे पोतानी जीव्हाग्रे जल्पे छे अने ते माटे लांबा लांबा वितंडावादो मांडी बेसे छे, समतारूप अमृतने तजी कषायरूप हालाहल विषः ने भक्षण करे छे; एहवा एकांतवादी पुरुषोनो दुराग्रह नाश करवा माटे श्री जिनेश्वर प्रणीत शुद्धा-

गमन्तु रहस्य प्रगट करता श्री मद्भयशोविजयजी
 अध्यात्मसाग्मां कहे छे.-“ अतो रत्नत्रयं मोक्ष-
 स्तद्भवे कृतार्थता; पाखंडीगण लिंगैश्च, गृह लिंगै-
 र्गैश्च कापिन । पाखंडी गण लिंगेषु, गृह लिंगेषु ये
 रताः; न ते समयसारस्य, ज्ञातारो बाल बुद्धयः ।
 भाव लिंग रतायेषु, सर्वसार विदोहिते; लिंगस्था
 वा गृहस्था वा; सिध्यन्ति धूत कल्मषा । भाव-
 लिंगं हि मोक्षांगं, द्रव्यलिंग मकारणं; द्रव्यं नात्यं-
 तिकं यस्मान्नाप्येक्रांतिक मिष्यते । ” आवोज भाव
 दिगम्बर आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य समयपाहुडमां
 कहे छे-गाथा-

“ पाखंडी लिंगेषु व, गिहिलिंगेषु बहुप्प-
 यागेषु; कुर्वन्ति जे ममत्तं, तेहि ण याणं
 समयसारं-णवि एस मोरकमग्गो, पाखंडी
 गिहि मयाणि लिंगाणि; दंमण णाण चारत्ता-
 णि मोरक मग्गं जिणा विंति ” अर्थः-पाखंडि
 साधुलिंगमां वा गृहस्थ लिंगमां वा बहु प्रकारना
 लिंगमां जे ममत्व करे छे ते समय सारने जाणता
 नथी. पाखंडीसाधुनो लिंग. वा गृहस्थनो लिंग
 विगेरे मोक्ष मागे नथी पण श्रीजिनश्वर सम्यक्-

दर्शन ज्ञान चारित्र्यने मोक्षनो मार्ग कहे छे—“ तद्वा
जहित्तु लिंगं, सागार अणगारएहि वा गहिए,
दंसणणाण चरित्ते, अप्पाणं जुज मोरकपहे ”

अर्थः—ते माटे सागार अने अणगारना लिंगनुं
ममत्व तजी, पक्षपात तजी, दर्शन ज्ञान चारित्र्य
रूप मोक्षमार्गमां आत्माने लगाव—जोड. तेमज
वली श्री अमृतचंद्राचार्य कहे छे. “ येत्वेनं परिहृत्य
संवृति पथ, प्रस्थापि तेनात्मनाः लिंगे द्रव्यमये
वहन्ति ममतां, तत्वावबोध च्युताः । नित्योद्योत
मखंड मेक मतुला, लोकं स्वभाव प्रभा, प्राग्भारं
समयस्य सार ममलं, नाद्यापि प्रश्यन्ति ते ॥ ”

अर्थः—जे पुरुषो परमार्थ स्वरूप मोक्षमार्गने छोडी
याह्य व्यवहारमां पोताना आत्माने स्थापी द्रव्य
लिंगनी ममता धरे छे, तेनेज मोक्षनुं कारण माने
छे, ते पुरुषो तत्त्वज्ञानधी विमुख छे वली ते पुरुषो
नित्यादित, अखंड, एक, अनुपमं, अपराजित,
अतुल प्रकाशवंत अने पवित्र परमात्म स्वरूपने
अथवा जिनेश्वरना पवित्र समय सारने हजु सुधी
पण (सुनीनो वेष धारण कर्या छतां पण) जाणता
नधी, प्राप्त थता नधी. माटे एकांत याह्य क्रियानो

हठ छोडी, परमार्थ समजी, शुद्ध साध्य तरफ लक्ष
राखी शुद्धात्म पद जेथी सिद्ध थाय एहवो प्रशस्त
व्यवहार आदरी, आपणा आत्माने अत्यंत परमा-
नंदमय परमात्मपदमां स्थित करो ॥ ६ ॥

तत्वरसिक जन थोडलारे, बहुलो जन
संवाद ॥ जाणो छे जिनराजजीरे, सघलो
एह विवादरे ॥ चंद्रानन० ॥ ७ ॥

अर्थ:-हे चंद्रानन प्रभु ! आ दुषमकालमां
अमारा भरतक्षेत्रमां सद्गुरुनी विरलता बडे
शुद्धात्म तत्त्व साधवाने रसिआ पुरुषोनी संख्या
तो रत्न मणिनी पेठे अतिशय अल्प, अने पोतानो
मत कदाग्रह स्थापन करवाने तत्पर एहवा काचना
कडका जेवा पुरुषो घणा, एवी अमारी दयामणी
दशानुं वर्णन हे जिनेश्वर ! आप सर्वथा जाणो
छो ॥ ७ ॥

नाथ चरण वंदन तणोरे, मनमां घणो
उमंग ॥ पुण्य विना किम पामीएरे, प्रभु
सेवननो रंग रे ॥ चंद्रानन० ॥ ८ ॥

अर्थ:-देवाधिदेव श्री तीर्थकरनां चरणकमल के

जे शुद्धात्म अनुभवरूप सुगंधे भरपूर तथा विषय कषायनी चाह दाहने शमन करनार, मोक्ष लक्ष्मीनुं अतिशय प्रिय निवासस्थान छे. तेने वंदन करवानो- पूजवानो भ्रमरनी पेठे तैमां लीन थवानो, माहरा मनमां अतिशय उमेद-उमंग छे पण आ भबचक्रमां भ्रमण करतां अनेकवार मनुष्यभव पाम्यो, पण विषय कषायादिकमां मोहित रही रस्नचिंतामणी समान मनुष्यभव वृथा गुभावी दीधो, पुण्यानुबंधी पुण्यना वियोगे जिनेश्वरनी सेवामां रग लाग्यो नहि. तल्लीनता थई नहि. करीयातु कडवुं छतां जेम मोंढानी कडवासनो नाश करे छे तैम जिनेश्वरनी लोकोत्तर सेवारूप प्रशस्त राग, ते राग नाश करवानो तथा आत्मगुण प्राप्तिनो हेतु छे. यतः-गाथाः-

“नाणाइसु गुणेषु, अरिहंताइसु धम्म ख्वेसु धम्मोवगरण साहम्मीएसु धम्मथं जोय गुणरागो ॥ सो सुपसथ्यो रागो, धम्म संयोग कारणो गुण दो, पढमं कायव्वो सो, पत्त गुणे खवइ तं सव्वं ॥” भावार्थः-ज्ञानादि गुणो ऊपर, अरिहंतादि धर्मात्मा ऊपर, तथा धर्मना साधनो ऊपर, तथा साधर्मी ऊपर गुणावलंबने जे

राग करवो ते प्रशस्त राग, धर्म संयोगनुं तथा गुण
प्रगट थवानुं कारण छे. ॥ ८ ॥

जगतारक प्रभु वांदियेरे, महाविदेह मझार ॥
वस्तु धर्म स्याद्वादतारे, सुगि करिये नि-
रधार रे ॥ चंद्रानन० ॥ ९ ॥

अर्थ:-संसार समुद्रमांथी उद्धारवा माटे समर्थ,
महाविदेहमां विचरता श्री चंद्रानन प्रभुनुं निर्मल
भावे वंदन करिए. सूत्रमां “ वंदननुं फल श्रवण ”
एम प्रगट वचन छे, माटे भगवंतने वंदन करतां
अनंत धर्मात्मक वस्तुनुं स्वरूप स्याद्वादनये सांभल-
वानो लाभ मले, ते सांभली वस्तु स्वरूपनो निर्धार
करी शुद्ध धर्ममां प्रवृत्त थईए. ॥ ९ ॥

तुज करुणा सह ऊपरे रे, सरखी छे महा-
राय ॥ पण अविराधक जीवनेरे, कारण
सफलु थायरे ॥ चंद्रानन० ॥ १० ॥

अर्थ:-हे चंद्रानन प्रभु ! आप राग रूपी समुद्र
ने उलंघी गया छो, वीतराग भूमिमां विराजमान
छो तेथी आप तो शत्रुमां तेमज मित्रमां, सेवकमां
तेमज असेवकमां, निंदकमां तेमज स्तुतिकारमां

समान वृत्तिवाला छो, सर्वे जीवो ऊपर आपनी करुणा तो हीणाधिकता रहित एक सरखी छे, संसार समुद्रथी तारवा माटे सर्वेने एक सरखो उपदेश आपो छो. तो जे जीवो आपनी आज्ञाना विराधक होय ते न तरी शके ते तेमनोज दोष छे. “ पत्रं नैव यदा करीर विटपे, दोषो वसंतस्य किम; ने लूकोप्यवलोकते, यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं ” पण आपनी आज्ञाना आराधक जीवो आ संसार समुद्रथी तरी शके, आपनुं निमित्त तेओनेज सफल थाय. ॥ १० ॥

एहवा पण भवि जीवनेरे, देव भक्ति आधार ॥ प्रभु समरणथी पामीएरे, देवचंद्र पद सारेरे ॥ चंद्रानन० ॥ ११ ॥

अर्थ:-एहवा आराधक भव्य जीवोने पण देवाधिदेव हे चंद्रानन प्रभु ! आपनी भक्तिनोज आधार छे, संसार समुद्रमांथी तरवामां प्रवहण समान पुष्ट अवलंबन छे. माटे हे प्रभु ! देवमां चंद्रमा समान सर्वोत्कृष्ट परमात्मपद, आपना गुणनुं स्मरण तथा ध्यान करवाथी प्राप्त थशे ॥ ११ ॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ त्रयोदशम चंद्रबाहु जिन स्तवनम् ॥

॥ श्री अरनाथ उपासना ॥ ए राग ॥

॥ चंद्रबाहु जिन सेवना, भव नाशिनी तेह ॥

पर परिणतिना पासने, निष्कासन रेह ॥

चंद्र० ॥ १ ॥

अर्थः-अज्ञानादि अष्टादश दूषण रहित तथा अनंत चतुष्टय सहित तथा शुद्ध नये आत्मधर्मनो उपदेश आपी भव्य समूहने मोक्षमार्गे दोरनार, विदेह क्षेत्रमां विहरमान श्री चंद्रबाहु जिनेश्वरनी शुद्ध भावे (आलोक परलोक संबन्धी विषय भोगनी आकांक्षा रहित शुद्धात्म भाव प्रगट करवाना हेतु-रूप) करेली सेवा. सूर्य जेम अधकारनो शीघ्रमेव नाश करे छे तेम लीला मात्रमां भव अमणनो नाश करनार छे तथा “ पर परिणतिना पासने निष्कासन रेह ” जेम हरण शब्दना विषयमां मोहित थइ विविध प्रकारना वार्जीत्रना मधुर कोमल स्वरना राग वशे पारधीये नाखेली जालमां आवी फसे छे, पोतानी स्वतंत्रताने गुमावी पराधीन थइ जीव जोखममां आवी पडे छे. तेमज संसारी प्राणीओ

शब्दादिक विषयना राग वशी मोह पल्लीपतिए पाथ-
 रेली अतिशय विस्तीर्ण अने दृढ कर्मजालमां आवी
 फसे छे, पोताना सहज स्वतंत्र अव्याबाध आत्म
 भोगने गुमावी बेसे छे, पराधीन दीन थाय छे, पो-
 ताना शुद्ध ज्ञानादिक प्राणना जोखममां आवी पडे
 छे, कषायानिमां (दग्धमान) पच्यमान थाय छे,
 बलता रहे छे, एहवा पर परिणतिना रागरूप बंध-
 नने छेदवा माटे चंद्रबाहु जिनेश्वरनी सेवना ती-
 द्दणधारा समान छे, तेथी मुक्त करवा अत्यंत सा-
 मर्थ्यवंत छे ॥ १ ॥

पुद्गल भाव आशंसना, उद्घासन केतु ॥
 सम्यक्दर्शन वासना, भासन चरण समेत ॥
 चंद्र० ॥ २ ॥

अर्थ:-अनादिकालथी कर्म जालमां फसेलो
 पराधीन थएलो आत्मभोगना ज्ञान तथा आस्वा-
 दननो वियोगी पुद्गलना रूप रस गंध स्पर्शादि
 विषयभोगमां मग्न थएलो संसारीजीव निरंतर पुद्-
 गल विषयोनी आशंसना- तृष्णाने वश बर्ते छे.
 ते तृष्णाने छेदवाने चंद्रबाहु प्रभुनी सेवा केतु स-
 मान छे तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्

चारित्ररूप आत्मस्वभावमां वास कराववावाली
छे, आत्मगुणनी सुवासमां संतुष्ट करनार छे. ॥ २ ॥

त्रिकरण योग प्रशंसना, गुणस्तवना रंग ॥

वंदन पूजन भावना, निज पावना अंग ॥

चंद्र० ॥ ३ ॥

अर्थः-मन वचन अने काया ए त्रियोगनी शु-
द्धिए (कषायादि अप्रशस्त परिणाम रहित) देवाधि-
देव श्री तीर्थंकर भगवंतनो यशवाद बोलवो, तेमना
ज्ञानादिक पवित्र गुणनी स्तवना करवी, गुणानुराग
करवो, वंदन पूजन विगेरे करवुं. तेमना ज्ञानादि
शुद्धभाव अनुगत आप्णो आत्म परिणाम करवो,
ते सर्वे आपणा आत्माने ज्ञानावरणादि पापथी मुक्त,
पवित्र करवानां तथा शुद्धात्मपद प्राप्तिनां अंग छे ।३।

परमात्मपद कामना, काम नाशन तेह ॥

सत्ता धर्म प्रकाशना, करवा गुण गेह ॥

चंद्र० ॥ ४ ॥

अर्थः-केवलज्ञान, केवलदर्शनादि, अनंत गुण-
पिंड आपणा शुद्धात्मपदनी कामना, ते साधवानी
रुचि, ते पुद्गलादि अन्य द्रव्यनी कामना तृष्णाने

नाश करवानो हेतु छे, कारणके आपणो आत्माज परमात्मपदनुं उपादान छे, तेज परमात्म भावे परिणमनार छे माटे परमात्मपद क्षेत्रांतरे नथी अने क्षेत्रांतरे रहेली वस्तुनी कामनाज दुःखदायी छे माटे परमात्म पदनी कामना थवाथी अन्य सर्व कामनानो उच्छेद थाय छे. ते परमात्मपदनी कामनाना हेतु श्री जिनेश्वर भगवंत ॐ, तेथी तेमनी सेवा सत्तामां रहेली ज्ञानादि अनंत लक्ष्मीने प्रगट द्रष्टीगोचर करवाने तथा आपणा आत्माने गुण-निधान पूज्य पद आपवाने पुष्ट हेतु छे. ॥ ४ ॥

॥ परमेश्वर आलंबना, राच्या जेह जीव ॥
निर्मल साध्यनी साधना, साधे तेह सदीव ॥
चंद्र० ॥ ५ ॥

अर्थ:-जगत् चूडामणि तरण तारण परमेश्वरनो आश्रय जे भव्य जीवो र रुचि बहुमान पूर्वक ग्रहण कर्यो छे तेज पुरुषो निरंतर पोताना शुद्ध साध्यने साधवावाला छे. परमात्मपद जेमां प्रगटपणे छे एवा तीर्थंकर भगवंत परमात्मपद साधनाना पुष्ट हेतु थइ शके, पण अन्य कुदेवादिक जे पो - अशुद्ध

आत्मभावमां वर्त्ते छे ते मोक्षना हेतु केम बनी
शके ? ॥ ५ ॥

॥ परमानंद उपायवा, प्रभु पुष्ट उपाय ॥
तुजसम तारक सेवतां, पर सेवन थाय ॥
चंद्र० ॥ ६ ॥

अर्थः—ते कारणमाटे हे चंद्रबाहु प्रभु परमानंद
पद—मोक्षपद प्राप्त करवामां आपज पुष्ट उपाय छो.

‘ पुष्ट हेतु जिनेंद्रोयं, मोक्ष सद्भाव साधने ’

हे प्रभु ! आप जेवा पूज्य पुरुषनी सेवा करतां
अन्य जीव तथा पुद्गलनी आशा तृष्णा तथा सेवा
मटी जाय, करवी न पडे ॥ ६ ॥

॥ शुद्धात्म संपति तणा, तुम्हे कारण सार ॥
देवचंद्रं अरिहंतनी, सेवा सुखकार ॥
चंद्र० ॥ ७ ॥

अर्थः—अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख तथा
अनंतवीर्यरूप परमपवित्र, अविनश्वर अने स्वाधीन
अखूट लक्ष्मी प्रगट—प्राप्त करवाना, हे भगवंत !
आपज साचा कारण छो. कारण के ते केवल ज्ञा-

नादि लक्ष्मीने आप संपूर्ण प्रगट स्वाधीन करी नि-
 रंतर भोगवो छो, तज्जन्य परमानंदमां मग्न छो.
 एवं आपनुं स्वरूप द्रष्टि गोचर थतां मने पण एवं
 भान थयुं के ए अनुपम विभूतिना ईश्वर माहरी
 स्वजाति छे, तेथी हुं पण आप समान लक्ष्मीनो
 स्वामी थवाने सत्तावंत हुं, एम भासन थतां आप
 समान परमात्मपद साधवानी मने रुचि थह तेथी
 आप माहरी सिद्धिना साचा कारण छो. जो आ-
 पना परमानंदमय स्वरूपनुं मने दर्शन न थयुं होत
 तो मने परमात्म पद साधवानी रुचि पण थती नहि
 अने रुची थयाविना कार्य साधनामां उद्यम प्रवृत्ति
 थाय नहि अने साधना विना कार्य सिद्धि पण थाय
 नहि माटे न्यायद्रष्टिए जोतां आपनुं सिद्धपद माहरी
 सिद्धिनुं कारण प्रतित थाय छे ॥ उक्तंच विशेषा-
 वश्यकके ॥ “ सर्वेपि बुद्धो संकल्प्य कार्यं करोति
 इति ॥ व्यवहारस्ततो बुद्धाद्ध्यवसितस्य कुं-
 भस्य चिकीर्षितो मृन्मयःकुंभस्तह्बुद्ध्यालंबन
 तया कारणं भवति ” तथा बली ते परमात्म-
 पद साधवानो यथार्थ मार्ग बतावनार पण आपज
 छो तेथी पण आप माहरी सिद्धिना कारण छो माटे

सर्वे देवोमां चंद्रमा समान हे अरिहंत भगवंत !
 आपनीज सेवा सर्वे क्लेशथी मुक्त करी परमानंद
 परम सुखनी दातार छे । १ ॥

॥ संपूर्ण ॥

। अथ चतुर्दशम श्री भुजंग स्वामी जिन स्तवनम् ।

॥ देशी । लूअरनी ॥

पुष्कलावड विजये हो, के विचरे तीर्थपती ।
 प्रभु चरणने सेवेहो, के सुरनर असुर पती ।
 जसु गुण प्रगट्या हो, के सर्व प्रदेशमां ।
 आत्म गुणनी हो, के विकसी अनंत
 रमा ॥ १ ॥

अर्थः—पुष्कलावर्त विजयमां विचरता सम्यक्-
 ज्ञान दर्शन चारित्र रूप तीर्थना प्रगट करनार,
 फेलावनार तीर्थपति श्री भुजंग स्वामी प्रभुने कषाय
 तथा अज्ञानथी बिलकुल रहित, परम पवित्र परमानंद
 स्वरूप जाणी, मोक्ष मार्गमां गमन करबा कुशल
 तेमना पवित्र चरण युगलने महान् रिद्धि सिद्धिना
 धारक सुर असुर तथा मनुष्यना इंद्रो, विषय तथा

कषाय जन्य भव समुद्रथी सुक्त थवा, बहु सन्मान सहित सेवे छे. जे भगवंतना दरेक प्रदेशे रहेला ज्ञानादि अनंत गुणो संपूर्ण पणे निर्मल प्रगट थया छे, ते गुणनो व्याघात करनार ज्ञानावरणादि घाती कर्मनो सत्ता सहित नाश कर्यो छे अने तेथी ज्ञानादि आत्म गुणनी सहज, अकृत्रिम, स्वाधीन, अने अविनश्वर अनंत अनुभूति (लक्ष्मी) प्रगट प्राप्त थह छे, निरंतर तेना स्वामी तथा भोक्तापणें वर्ते छे-परमानंदमां निमग्न छे ॥ १ ॥

सामान्य स्वभावनी हो, के परिणति असहायी । धर्म विशेषनी हो, के गुणने अनुजायी ॥ गुण सकल प्रदेशे हो, के निज निज कार्य करे । समुदाय प्रवर्ते हो, के कर्ताभाव धरे ॥ २ ॥

अर्थ:-सामान्य स्वभाव विना वस्तुनी छती नहि अने विशेष स्वभाव विना कार्य नहि, पर्याप्त प्रवृत्ति नहि, माटे पंचास्तिकाय ते सदा सामान्य विशेष स्वभावमयी छे.

जे स्वभावमां एकपणुं, निस्थपणुं, निरवयवपणु, अक्रियपणुं, अने सर्वगतपणुं होय ते सामान्य

स्वभाव जाणवा (एगं निच्चं निरवयवमक्खियं
 सव्वग्गं च सामन्नं) एवा मूलंसामान्य स्वभाव
 छे छे-अस्तित्त्वं, वस्तुत्त्वं, द्रव्यत्त्वं, प्रमेयत्त्वं, सत्त्वं
 अने अगुरुलघुत्त्वं. तथा उत्तरसामान्य स्वभाव
 वस्तु मध्ये अनंता छे. ते सामान्य स्वभावो सर्व
 द्रव्यमां सर्वे समय निज परिणामीकताए परिणमे
 छे, तेथी हे भगवंत ! आपना सर्व सामान्य स्व-
 भावो सदाकाल असहाये परिणमे छे अने हे भग-
 वंत ! आपना सर्व विशेष धर्म पोताना परम गुणने
 अनुयायीपणे परिणमे छे. यद्युक्तं-भिन्न भिन्न
 पर्याय प्रवर्त्तन स्वकार्यं करण सहकार भूताः
 पर्यायानुगत परिणाम विशेष स्वभावाः ”
 वस्तुमां जे भिन्न भिन्न पर्याय छे तेनुं कार्य कारण
 पणे जे प्रवर्त्तन तेना सहकारभूत जे पर्यायानुगत
 परिणामी एवा जे स्वभाव ते विशेष स्वभाव छे.

जीव द्रव्यमां ज्ञायकता कर्त्तृता भोक्तृता
 ग्राहकता आदि अनंत विशेष स्वभाव छे, तेमज
 धर्मास्तिकायमां गमन सहकारतादि, अधर्मास्तिकाय-
 मां स्थिति सहकारादि, आकाशास्तिकायमां अवगाह-
 दानादि, पुद्गलास्तिकायमां पूरणगलनादि, एम

पंचास्तिकायमां अनंत विशेष स्वभाव छे.

वली हे भगवंत ! आप स्वतंत्रपणे पोताना ज्ञानादिक कार्यना हमेशां कर्ता छो माटे आप परमेश्वर छो कारणके जीव द्रव्य शिवाय अन्य कोई पण द्रव्यमां कर्तापणुं नथी (कर्तृत्वं जीवस्य ना न्येषाम्) कारण के “गुण सकल प्रदेशे हो के निज निज कार्य करे, समुदाय प्रवर्त्ते हो के कर्ता भाव धरे” आपना सकल प्रदेशे रहेला अनंत गुणो पोत पोतानुं कार्य करेछे पण ते सर्वे प्रदेशे समुदाय मलीने एकठी प्रवृत्ति करेछे माटे आप स्वतंत्र कर्ता छो ॥ २ ॥

जड द्रव्य चतुष्के हो के कर्ता भाव नहि, ॥
 सर्व प्रदेशे हो, के वृत्ति विभिन्न कही ॥
 चेतन द्रव्यने हो, के सकल प्रदेश मील ॥
 गुणवर्त्तना वर्त्ते हो, के वस्तुने सहज बले ॥ ३ ॥

अर्थ:-पण हे भगवंत ! जडद्रव्य चतुष्कमां कर्ता भाव ठरी शकतो नथी, कारणके जो के ते जड द्रव्यना धर्म प्रदेशे प्रदेशे वर्त्ते छे परंतु सर्वे

प्रदेशोनुं एक समुदायीपणे काय प्रवर्तन नथी, भिन्न भिन्न प्रदेशे भिन्न कार्य होई शके छे. जेम धर्मास्तिकाय कोई प्रदेश वडे अमुक पुद्गलने चलनसहायी थाय छे अने तेथी बीजा प्रदेशे बीजा पुद्गलने चलनसहायी थाय छे एम भिन्न प्रदेशे भिन्न वृत्ति होवाने लीधे जड द्रव्यमां कर्त्तापणुं ठरी शकतुं नथी.

पण हे भगवंत ! जीव द्रव्यनो सहज स्वभाव एवो छे के तेना ज्ञान दर्शनादि सर्वे गुणोना अविभाग पर्याय दरेक प्रदेशे छे, ते सर्वे प्रदेशना गुणाविभाग एक समुदाये आचीर्भावे थई कार्य करे अर्थात् एक कार्ये परिणमवामां सर्वे प्रदेशना गुणाविभाग सामर्थ्य पणे परिणमे, कोई पण प्रदेशना गुणाविभाग ते कार्यमां जोडाया शिवाय रहे नहीं, एम जीव द्रव्यना सर्वे प्रदेश मली एक समुदायि पणे एक कार्ये परिणमे छे. ॥ ३ ॥

शंकर सहकारी हो, के सहजे गुण वरते ॥
 द्रव्यादिक परिणति हो, के भावे अनुसरते ॥
 दानादिक लब्धि हो, के न हुवे सहाय
 विना ॥ सहकार अकंपे हो, के गुणनी वृत्ति
 घना ॥ ४ ॥

अर्थ:- एम दरेक सर्वे प्रदेशना गुणाविभागे एकत्र एक बीजाने सहकारीपणे सदा परिणमे, वली द्रव्य क्षेत्र कालनी प्रवृत्ति ते द्रव्यना परम-भावेने अनुसारै वर्ते छे, जेम जीव द्रव्यनो भाव चैतन्यता छे माटे चैतन्य गुण पर्यायनो एक पिंड ते जीव द्रव्य छे, अने चैतन्य गुणने रहेवानुं असंख्यात प्रदेशमय स्थानक ते जीव द्रव्यनुं क्षेत्र छे अने चैतन्य गुण पर्यायनी प्रवृत्ति ते जीव द्रव्यनो काल छे यद्युक्तं-“ गुण समुदाओ दव्वं, खित्त ओगाह वट्टणा कालो ॥ गुण पज्जाय पवत्ति, भावो नियवत्थु धम्मो सो ॥ ” दान लाभ भोगादि लब्धीओ ते वीर्य गुणनी सहाय विना वर्त्ती शके नहीं पण हे भगवंत ! आपनुं वीर्य क्षायिकपणे होवार्थी गुण वृत्तिना समूहने अकंपपणे सहकारी थई शके छे तेथी आप हमेशां अबंध तथा परमोत्कृष्ट अवस्थामां वर्त्ती छो, कारण के चलइ स फंदई ” ॥ ४ ॥

॥ पर्याय अनंता हो, के जे एक कार्यपणे ॥
वर्ते तेहने हो, के जिनवर गुण पभणे ॥

ज्ञानादिक गुणनी हो, के वर्तना जीव प्रते ॥

धर्मादिक द्रव्यने हो, के सहकारे करते ॥५॥

अर्थः—त्रिलोक पूज्य श्री जिनेश्वर देव एम कहे छे के एक कार्य पणे परिणमनारा अनन्ता छती पर्यायनो समुदाय ते गुण छे. जेस जाणवारूप सामर्थ्य छे जेमां एवा अविभागी पर्यायनो समुदाय ते ज्ञान गुण, देखवारूप सामर्थ्य छे जेमां एवा अविभाग पर्यायनो समुदाय ते दर्शन गुण, परिणामालंबन रूप कार्य सामर्थ्य छे जेमां एवा अविभागी पर्यायनो समुदाय ते वीर्यगुण, विगेरे एम दरेक द्रव्यना प्रति प्रदेशे पोतपोतानु एक कार्य करवानुं सामर्थ्य धरनारा अनन्ता अविभागरूप पर्यायनो समुदाय ते गुण छे. जीवद्रव्यना दरेक प्रदेशे जाणवा रूप कार्य करवानुं सामर्थ्य धरनारा अनन्ता अविभाग पर्याय छे तेनो समुदाय ते ज्ञान गुण. एम ज्ञानादि अनन्त गुणनी वर्तना जीव द्रव्यमां छे. यद्युक्तं—नय चक्र सारे—“ तत्रैकस्मिन् द्रव्ये प्रति प्रदेशे स्व स्व एक कार्य करण सामर्थ्य रूपा अनन्ता अविभाग रूप पर्याया स्तेषां समुदायो गुणः भिन्न कार्य क-

रणे सामर्थ्यरूपा भिन्न गुणस्य पर्यायाः एवं
 गुणा अप्यनन्ताः प्रतिगुणं प्रतिदेशं पर्याया
 अविभाग रूपाः अनन्ता स्तुल्याः प्रायीइति ते
 चास्ति रूपाः प्रति वस्तुनि अनन्ता स्ततोन्त
 गुणाः सामर्थ्य पर्यायाः ” अने धर्मादिक जड
 द्रव्यमां ज्ञान गुणथी अतिरिक्त चलनसहकारादि
 गुणो वर्त्ते छे ॥ ५ ॥

ग्राहक व्यापकता हो, के प्रभु तुम धर्म
 रमी ॥ आत्म अनुभवथी हो, के परिणति
 अन्य वमी ॥ तुज शक्ति अनन्ती हो, के
 गातांनै ध्यातां ॥ मुज शक्ति विकासन हो,
 के थाये गुण रमतां । ६ ॥

अर्थः—हे प्रभु ! भेदविज्ञाननी पूर्णता वडे आप
 निरंतर ज्ञानादिक शुद्धात्म गुणना ग्राहक छो. तेथी
 अतिरिक्त विषय कषायने ग्रहण करवाथी आप
 मुक्त थया छो, तेमज आपनी व्यापकता पण ज्ञाना-
 दिक शुद्धात्म गुणमांज निरंतर व्यापे छे पण विषय
 कषायमां कदापि काले व्यापे नहि तेथी आप सदा

परभावथी अव्यास छे तथा नित्य शाश्वत स्वाधीन
 अने एकांतिक सहज सुख पिंड शुद्धात्म द्रव्यनी
 अनुभूतिनो निरंतर आस्वाद लेनारा तथा तेमांज
 विलासी थइ पौद्गलीक विभूतीनुं कर्त्तापणुं भोक्ता-
 पणुं तथा रमणपणुं दमननी पेठे सर्वथा प्रकारे तजी
 दीधुं कारणके शुद्धात्म अनुभवरूप अमृतपानमां
 मग्न पुरुष, पौद्गलीक विषय कषायरूप हालाहल
 विष पीवाने केम इच्छे ? हे प्रभु ! “ अजडत्वा-
 त्तिका चितिशक्तिः; अनाकारोपयोगमयी दृशि-
 शक्तिः; साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः, अना-
 कुलत्व लक्षणा सुखशक्तिः, स्वरूप निर्वर्तन
 सामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः, अखण्डित प्रताप
 स्वातंत्र्य शालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः, क्रमा-
 क्रमवृत्ति वृत्तलक्षणोत्पादं व्यथ ध्रुवत्वशक्तिः”
 तथा कर्तृत्वशक्ति, भोक्तृत्वशक्ति, परिणामशक्ति,
 स्वधर्म ग्राहकत्वशक्ति, स्वधर्म व्यापकत्वशक्ति,
 तत्त्वशक्ति, एकत्वशक्ति, अनेकत्वशक्ति, कारण-
 शक्ति, संप्रदानशक्ति, अपादानशक्ति, अधि-
 करणशक्ति, संबंधशक्ति, ए आदि अनंतशक्ति
 आपमां, समवाय संबंधे रहेली छे ते शक्तिओनुं

स्मरण तथा ध्यान करतां तथा शुद्धात्मगुणमां रक्षण
करनां सत्तागते रहेली आप समान माहरी सर्वे
शक्तिओ प्रगट थाय, सहज शिवलक्ष्मीनी प्राप्ति
थाय ॥ ६ ॥

इम निजगुण भोगी हो, के स्वामी भुजंग
सुदा ॥ जे नित वंदे हो, के ते नर धन्य
सदा ॥ देवचंद्र प्रभुनी हो, के पुण्यभक्ति
सधे ॥ आत्म अनुभवनी हो, के नित नित
शक्ति वधे ॥ ७ ॥

अर्थः—एम शुद्धात्म गुण पर्यायने निरंतर भो-
गवनारा परमानंद समूह हे श्री भुजंग स्वामी !
पवित्र भाव वडे जे आपनुं नित्यवदन स्मरणादि
करे छे तेज पुरुषो आ जगत्त्रयमां धन्य छे ! तेज
पुरुषो स्तुति पात्र छे, तेज पुरुषो कृतार्थ छे, हे
देवाधिदेव ! आपनी भक्ति महत्पुण्यना योगेज
साधी शकाय छे वली आपनीज भक्तिना पसाये
धीजना चंद्रमानी पेठे आत्म अनुभवनी शक्ति

दिन प्रतिदिन वृद्धिगत थाय, आखरे पूर्णानंदनी प्राप्ति थाय ॥ ७ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ पंचदशम श्री ईश्वरदेव जिन स्तवनम् ॥

॥ काल अनंतानंत ए देशी ॥

सेवो ईश्वर देव, जिणे ईश्वरता हो, निज अद्भुत वरी; तीरोभावनी शक्ति, आवी-
भावे हो, सहु प्रगट करी ॥ १ ॥

अर्थः—महाविदेहमां विहरमान हे श्री ईश्वर-
देव ! आपे सर्व जगत् त्रयने आश्चर्य तथा परमा-
नंद पमाडे एवी ईश्वरता प्रगट—संप्राप्त करी छे. ते
ईश्वरता केवी छे—पोताना शुद्ध गुण पर्यायेमां वरते
छे तेथी पूर्ण पवित्र स्वाधीन तथा अविनश्वर छे.
परद्रव्यना रागधी रहित होवाधी राग द्वेष भय तथा
कामनाधी रहित छे माटे अत्यंत सुख समूह रूप
छे. परमानंदमय छे.

अनादि विभावने लीधे आत्मा राग द्वेष रूप
अशुद्ध भावे परिणमी ज्ञानावरणादि अनेक प्रकारना
कर्म बंधन वडे पोतानी ज्ञानादि अनंत विशेष

शक्तिओने आच्छादित करे छे, पोताना स्वाभाविक परमानंदथी विमुख रहे छे पण हे परमेश्वर ! आपे पोताना आत्मानुं तथा पुद्गलादि परद्रव्यनुं स्वरूप यथार्थ ओलखी पोताना स्वरूपने सुखनिधान जाणी तेना रसिया थई सम्यक्पराक्रम आदरी परकर्तृता, परभोक्तृता, परग्राहकता, परव्यापकता, पररमणता विगेरे अनंत विभावनो परित्याग करी, शुक्लध्याननी तीव्र अग्नि बडे ज्ञानावरणादिकर्ममलने भस्मीभूत करी, शुद्ध सुवर्ण समान परम प्रकाशमान् अनंत परमानंदमय पोतानी ज्ञानादि सर्व शक्तिओ “आवीर्भावे प्रगट करी” प्रगट, निरावरण स्वकार्य प्रयुक्त करी राग द्वेष मोह विगेरे नाश करी, सर्व दूषण रहित स्वसत्तामां विराजमान रहि पोताना ज्ञानादि शुद्ध अनंत गुणोनी ईश्वरता निष्कंटकपणे भोगवो छो. तेथी हे परमेश्वर ! आपमां साची ईश्वरता जोई परमाह्लादित थई पवित्र विनय युक्त आपनी द्रव्यभावथी सेवा करीए. द्रव्य भावसेवानुंस्वरूप—
 “द्रव्यसेव वंदन नमनादिक, अर्चन वली गुण ग्रामोजी । भाव अभेद थवानी ईहा, परभावे निःकामीजी ” ॥

अर्थ:-सर्व परभावनी कामना रहित जिने-
 श्वरना पवित्र गुणोमां बहु सन्मान धरी ते समान
 पवित्र गुणो प्रगट करी अरेहंत समान पोतानुं
 परमात्म-पद साधवुं ते भावसेवा छे. तथा ते
 भावसेवाना कारणरूप, भावसेवाने प्रशस्त, परम-
 पूज्य श्री जिनेश्वरना पवित्र गुणोनुं स्मरण तथा
 गान करवुं तथा ते जिनेश्वरनी परम पवित्र ज्ञान
 स्मृतिने वंदन नमनादि करवुं ते द्रव्यसेवा छे ॥ १ ॥

अस्तित्वादिक धर्म, निरमल भाव हो सहुने
 सर्वदा ॥ नित्यत्वादि स्वभाव, ते परिणामी
 हो जड चेतन सदा ॥ २ ॥

अर्थ:-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व,
 अगुरुलघुत्व तथा सत्त्व ए छ मूल सामान्यस्वभाव
 सर्वे द्रव्यमां सदाकाल निरावरणपणे वर्ते छे तथा
 सर्वे जड तथा चेतन द्रव्यो नित्यत्वादि स्वभावे
 निरंतर परिणमे छे. माटे ए सामान्यस्वभावनी
 निरावरणता बडे तथा साधारणधर्मना परिणाम
 बडे तो हे ईश्वरदेव ? आपने परमेश्वरपणानी पदवी
 प्राप्त थई शके नहि पण ॥ २ ॥

कर्ता भोक्ता भाव, कारक ग्राहक हो ज्ञान

चारित्रिता ॥ गुण पर्याय अनंत, पाम्या
तुमचा हो पूर्ण पवित्रता ॥ ३ ॥

अर्थः-कर्त्तापणुं, भोक्तापणुं, कारकपणुं, ग्राहक-
पणुं, ज्ञान, चारित्र, विगेरे अनंत गुणपर्याय ते पूर्ण
पवित्र थया छे, सदाकाल पूर्ण पवित्र पणे वत्ते छे,
ए कारणमाटे आप्तां परमेश्वर पदनी प्रतीत थाय
छे. अनादि अज्ञान वशे जीव परभावना कर्त्ता बने
छे अर्थात् में गंधर बनाव्युं, में नगर बनाव्युं, में
अमुक पदार्थने सुवर्ण बनाव्युं, अमुक पदार्थने
सुगंध बनाव्यो, अमुक पदार्थने सरस रसवालो
बनाव्यो, अमुक पदार्थने मनोहर स्पर्शवालो बना-
व्यो, विगेरे परभावना कर्त्तापणाना अभिमान वडे
ज्ञानावरणादि कर्मनो कर्त्ता बने छे. एम द्रव्यकर्म,
नोकर्मादिकनो कर्त्ता बनी पोताना शुद्ध ज्ञानादि
परिणामे परिणमवा रूप शुद्ध कर्त्तापणाथी वि मुख
रहे छे. पण ज्यारे सम्यक् ज्ञाननी प्राप्ति थाय,
तत्त्वरुची थाय, त्यारे परभावना कर्त्तापणाने तजी
स्वाभाविक कार्यमां पोतानी शक्तिने जोडे, शुद्ध-
ज्ञान दर्शन चारित्रनो कर्त्ता थाय, तेमज अज्ञान
वशे परभावना भोक्ता बने छे अर्थात् वर्ण गंध
रस स्पर्श स्त्री पुरुष वस्त्र खादिम स्वादिम पदार्थने

में भोगव्या, हुं भोगवुं हुं, हुं भोगवीश, एम पर-
 भावना भोक्तापणानुं अभिमान करे छे. पण ज्यारै
 सम्यक्ज्ञाननी प्राप्ति थाय त्यारै पोताना ज्ञानादि-
 शुद्ध गुण पर्यायने पोताना भोग उपभोग जाणी ते
 भोगववानो कामी थइ तेना भोगमां मग्न थाय,
 परभावनुं भोक्तापणुं दूर थाय. तेमज अनादि
 विभाव वशे अशुद्ध कारक प्रवृत्तिमां पोताना आत्म
 परिणाम ने गिर करे छे, तेमज परभावमां व्यापक
 अर्थात् तल्लीन-तद्गत थइ रहे छे, तेमज अशुद्ध
 ज्ञाने परिणामे छे अर्थात् देहने आत्मतत्त्व जाणे छे,
 पौद्गलीक भोगने आत्म भोग जाणे छे, पौद्गलीक
 विषय सुखमां सुख जाणे छे, शारीरिक वीर्यने
 आत्मवीर्य जाणे छे, तेमज पौद्गलीक परिणाममां
 पोताना आत्माने स्थित करे छे, एम अज्ञान वशे
 संसारी आत्मा पोताना सर्वे कर्तृत्वादि स्वभावने
 अशुद्धपणे परिणामावी अनेक प्रकारनां ज्ञानावरणादि
 कर्म बांधि पोतानी ज्ञानादिक अनंत संपदाना
 ईश्वरपणाथी दूर वर्त्ते छे. पण हे ईश्वरदेव ! आपे
 ते पोताना सर्वे कर्तृत्वादि स्वभावने शुद्ध भावे
 परिणामाव्या-पूर्ण पवित्र थया, हवे कोइपण काले
 अशुद्धताय परिणामशे नैहि माटे आप ओ एवंबभूत

नखे पोतानी ज्ञानादि निष्कलंक, अविनश्वर लक्ष्मी-
ना स्वामी-ईश्वर थया छो माटे आपज साचा
ईश्वर छो. ॥ ३ ॥

पूर्णानंद स्वरूप, भोगी अयोगी हो उपयोगी
सदा ॥ शक्ति सकल स्वाधीन, वरते प्रभुनी
हो जे न चले कदा ॥ ४ ॥

अर्थः-वली हे भगवंत ! आप पूर्णानंद स्वरूप
छो. जगत्वासी जीवो धन स्त्री आदि ईष्ट पदार्थोनी
अधिकतर प्राप्ति वडे पोताने पूर्णानंद माने छे; पण
ते समुद्रना कल्लोलनी पेठे अवास्तविक छे, क्षण-
भंगूर छे, तृष्णा रूपी आगने वधारनार छे, तथा
स्वाभाविक संपदानो घात करनार छे. पण आपनी
ज्ञानादिक संपदा ते आपथी प्रदेशांतरे नथी तेथी
ते दूर थवानो कदापि भय नथी, वली एक क्षेत्रा-
वर्गाही होवाथी चाह दाहथी अतीत छे, वली ते
ज्ञानादि संपदा सहज स्वाभाविक छे माटे ते
राखवानो अथवा मेलववानो प्रयास करबो पडे
तेम नथी, वली ते आपने सहज संबंधे छे तथा
परद्रव्यथी अग्राह्य छे माटे तेने कोइ भांगी लुंटी

शक तेम नथी तेथी हे भगवत ! आपज पूर्णानंद
छो. यद्युक्तं—

श्लोकः—“ पूर्णता या परापाधेः सा याचितक
मंडनं । या तु स्वाभाविकी सैव जात्यरत्न-
विभानिभा ॥ अत्रास्तवी विकल्पैः स्यात्
पूर्णतब्धे रिवोर्मिभिः ॥ पूर्णानंदस्तु भग-
वांस्तिमितोदधिसन्निभः ॥ ”

तथा हे भगवंत ! आप स्वरूप भोगी छो; मात्र
ज्ञानदर्शन चारित्रादि पोताना शुद्ध निरूपाधिक
गुण पर्यायने भोगववा वाला छो तेथी आप सदा
निष्कंटक छो, तथा हे भगवंत ! आप मन वचन
तथा कार्यानी क्रियाना अकर्त्ता थया छो, योगनुं
ममत्व सधदा दूर कीधुं छे तेथी आप अयोगी छो,
वली आप सदा उपयोगी छो, ज्ञानोपयोगनो घात
करनार ज्ञानावरणीय कर्म तथा दर्शनोपयोगनो
घात करनार दर्शनावरणीय कर्म ए बनेनो आपे
सत्ता सहित सर्वथा नाश कर्यो छे माटे हवे आपना
उपयोगने कोइ पण स्वलना पमाडनार नथी तेथी
आप सदा उपयोगी छो, सर्वे समय शुद्ध ज्ञान-
दर्शनोपयोगमां निरंतर वर्त्तो छो; एम हे भगवंत !

ज्ञानादि सर्वे शक्तिं आप पोताने स्वाधीन कर्त्तावो
 छो वली सर्वे कर्मनो अभाव करी आपे ते शक्तिं
 पोताने स्वाधीन करी छे माटे ते हवे आपथी कोइ
 पण काले क्षणमात्र पण प्रदेशांतरे थनार नथी, सदा
 काल आपमां अचल पणे रहेशे तेथी तज्जन्य आनंद-
 मां आप सदा मग्न छो ॥ ४ ॥

दास विभाव अनंत, नासे प्रभुजी हो तुज
 अवलंबने ॥ ज्ञानानंद महंत, तुज सेवाथी
 हो सेवकने बने ॥ ५ ॥

अर्थः—ज्यांसुधी आत्मा सचेत थयो नथी
 त्यांसुधी अनादि विभाव स्वभाव होवाने लीघे
 आत्मा सम्यक्ज्ञाने नहि परिणमतां अज्ञानपणे
 परिणमे छे, सम्यक्दर्शनपणे नहि परिणमतां
 मिथ्यादर्शनपणे परिणमे छे, स्वस्वरूपमां रमण
 नहि करतां विषय कषायमां रमण करे छे पंडित-
 भावे वीर्य नहि फोरवतां बाल दाघक भावे फोरवे
 छे, सूक्ष्म तथा स्थूल क्रियानो रागी थई कर्म बंधन
 करे छे शुद्ध स्वभावनो कर्त्ता नहि बनतां परभावनो
 कर्त्ता बने छे, शुद्ध स्वभावनो भोक्ता नहि बनतां
 परभावनो भोक्ता बने छे, शुद्ध ज्ञानादि गुणनो

ग्राहक नहि थतां परगुण पर्यायनो ग्राहक थाय छे,
 शुद्ध स्वभावमां नहि व्यापतां परभावमां व्यापे छे,
 एम ज्ञानादि अनंत गुणोने अशुद्धपणे परिणभाववा-
 रूप जे अनंत विभाव हुं सेवकने बलगेलो छे ते
 सैव विभाव हे परमेश्वर ! आपना अवलंबनवडे
 समूल नाश थशे. बली हे परमेश्वर ? आपनी पवित्र
 आज्ञामां विचरवारूप साची सेवाथी हुं सेवकने
 अखूद अचल अविनश्वर ज्ञानानंद प्राप्त थशे.
 ज्ञानानंद तेज साचो आनंद छे. विषय कषाय वडे
 मनायेलो आनंद ते अवास्तित्विक कल्पित तथा
 दुःख निदान छे ॥ ५ ॥

॥ धन्य ! धन्य ! ते जीव, प्रभु पद वंदी
 हो जे देशन सुणे ॥ ज्ञान क्रिया करे शुद्ध
 अनुभव योगे हो निज साधकपणे ॥ ६ ॥

अर्थ:- धन्य छे ते जीवोने ? धन्य छे ते जी-
 वोने ? के जे हे परमेश्वर ! आपना पवित्र चरण-
 कमलने वंदी सर्वे जीने सुखकारी संसार समुद्र-
 मांथी तारनार धर्मदेशना रुचि पूर्वक श्रवण करे
 महत्पुण्यना योगे आप श्रीनो दिव्यवाणीनो लाभ
 मले छे, रत्नचिंतामणी थी अत्यंत दुःप्राप्य अमूल्य

आपनी देशनानो यथार्थ रहस्य पामी पोतानां शुद्धात्म पदना साधकपणे शुद्धात्म अनुभव योगे ज्ञानशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि आदरे “ज्ञानशुद्धि”— संशय विभ्रम अने विमोह रहित शुद्ध तत्त्वतुं जाणवुं ते शुद्धज्ञान छे. ते शुद्धज्ञान सर्व दोषथी रहित केवलज्ञानदिवाकर श्री अरिहंतादिनासदुपदेशद्वारा तथा तेउंनैां प्ररुपेला सदागमद्वारा वाचना, प्रिच्छना, पर्यटना, अनुपेक्षा तथा धर्मकथा विगेरे साचा निमित्तथी शुद्धज्ञाननी प्राप्ति थाय छे माटे तेउंनुं अतिचार रहित निरंतर सेवन करवुं जेथी ज्ञानशुद्धि थाय. “ क्रियाशुद्धि ”—क्रिया वे प्रकारेछे. बाह्य-क्रिया अने अंतरंग क्रिया—शुद्धा हारादिकतुं ग्रहण करवु तथा तथा इर्या भाषादि समितितुं पालन करवुं विगेरे बाह्यक्रियाशुद्धि छे. तथा स्वसमय परसमय, स्वद्रव्यं परद्रव्यने भिन्न भिन्न यथार्थ जाणवामां वर्तवुं तथा शुद्धात्म स्वरूपनो घात करनार क्रोधादिक कषायोनो भेद विज्ञान रूप तीक्षण वाणवडे नाश करवो, तेओनो आत्म सत्ताभूमिमां प्रवेश थवा देवो नहि, एम शुद्धात्म स्वरूपनु रक्षण करवुं, शुद्धात्म अनुभवमां विचरवुं ते अंतरंग क्रियाशुद्धि छे. यद्युक्त—द्रव्यानुयोग

तर्कणायाम् “बाह्य क्रिया आवस्यकादि रूपा
 बाहिर्योगोस्ति च पुनः अंतरंग क्रिया च स्व-
 समय परसमय परिज्ञान रूपा ज्ञानक्रिया अपरो
 द्रव्यानुयोगोस्ति ” अंतरंगक्रियाशुद्धिनी प्राप्ति
 माटेज बाह्यक्रियाशुद्धि आदरणीय, प्रशसनीय छे.
 संवर हेतु छे, पण अंतरंगक्रियाशुद्धिनी अपेक्षा वगरनी
 बाह्यक्रियाशुद्धि ते बंध हेतु छे.—“ शुद्धात्म अनु-
 भव विना बंध हेतु शुभ चाल ॥ आत्म
 परिणामे रम्या, एहज आस्त्रव पाल ॥ ”
 माटे बाह्यक्रियाशुद्धिमां प्रवृत्त थतां अंतरंगक्रिया-
 शुद्धिथी चूकवुं नहि अने अंतरंग क्रियाशुद्धिनी
 कारणरूप बाह्यक्रियाशुद्धिनी उपेक्षा करवी नहि माटे
 क्रियाशुद्धि तथा ज्ञानशुद्धि ए बनेनुं जिनाज्ञा प्रमाणे,
 पालन करतो स्याद्वादमां कुशल एवो ज्ञानी शुद्ध
 निरामय निर्वाणपदने प्राप्त थाय छे.

यद्युक्तः—वसंततिलका “ स्याद्वाद कौशल
 सुनिश्चल संयमाभ्यां, यो भाव यत्प हरदः
 स्वामिहोपयुक्तः । ज्ञान क्रिया नय परस्पर,

तीव्र मैत्री, पात्री कृतः श्रयति भूमि मिमां
स एकः ।”

अर्थः—जे पुरुष स्याद्दोदमां कुशल अर्थात् जीवादि तत्त्वना शुद्ध ज्ञानपूर्वक समिति गुप्तिरूप संघम आदरतो शुद्धात्म स्वरूपे निरंतर भावे छे ते ज्ञानी पुरुष ज्ञाननय अने क्रियानयनी तीव्रमैत्रीनुं पात्र थतो शुद्धात्मभूमि-निरवाण पदने प्राप्त थाय छे. ॥ ६ ॥

वारवार जिनराज तुज पद सेवा हो होजो
निरमली ॥ तुज शासन अनुजाइ, वासन
भासन हो तत्त्व रमण वली ॥ ७ ॥

अर्थः—माटे स्याद्दोद वाणीना उपदेष्टा हे परमेश्वर ! आ भीषण भवसमुद्रमार्थी तारवाने समर्थ एवी आपना चरण युग्मनी सेवानो निरंतर मने लाभ मलजो, वली हे परमेश्वर ! आपना ज्ञान न्याय अने दया युक्त पवित्र शासननी रुची, ज्ञान तथा शुद्धात्म तत्त्वमां रमण ए सर्वे सदाकाल माहरा आत्म परिणाममां वास करजो ॥ ७ ॥

शुद्धात्म निज धर्म, सचि अनुभवथी हो

साधन सत्यता ॥ देवचन्द्र जिनचन्द्र, भक्ति
पसाये हो होशे व्यक्तता ॥ ८ ॥

अर्थ:-शुद्धात्म धर्म (सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यकचारित्रादि) नी रुची तथा अनुभव जे वडे थाय ते सर्वे साधनो सत्य छे, तथा हितकारी छे. शुद्धात्म धर्मना अनुभवना हेतुरूपे आदरेला सर्वे बाह्य योगरूप साधनो सत्य तथा हितकारी छे. श्री देवचन्द्र मुनि कहे छे के हे जिनचन्द्र ! आपनी भक्ति पसाये अर्थात् आपनी आज्ञानुं सेवन करवाथी (आणाकारी भक्तो, आणा छेइओ सो अभक्तोत्ती) मारी सर्वे शुद्धात्म संपदा प्रगट थशे. ॥ ८ ॥ (संपूर्ण.)



॥ अथ श्री षोडशम नमिप्रभ जिन स्तवनम् ॥
अरज अरज सुणोने रुडा राजीया हो जी ॥ ए देशी ॥
नमिप्रभ नमिप्रभ प्रभुजी विनवुं होजी,
पामी पामी वर प्रस्ताव ॥ जाणोछो जाणोछो
विण विनवे हो जी, तोपण दास स्वभाव ॥
नमिप्रभ० ॥ १ ॥

अर्थ:-हे नमिप्रभ ! आपने आ जगत्त्रयमां प्रभु अर्थात् मालिक जाणी अनि दुःप्राप्य आ मनुष्य भवरूप उत्तम अवसर पामी आप प्रति विनंती करुं छुं. हे देवाधिदेव ! आप अनंत ज्ञानयुक्त हुवाथी अमारा विनव्या वगर् पण अमारी त्रणे कालनी सर्वे हकीकत प्रत्यज्ञ पणे जाणो छो तोपण सेवकनो स्वभाव छ के स्वामी आगल पोतानुं दुःख दूर थवा माटे विनंति करे ॥ १ ॥

हुं करता हुं करता परभावनो हो जी, भोक्ता पुद्गल रूप ॥ ग्राहक ग्राहक व्यापक एहनो हो जी, रच्यो जड भवभूष ॥ नमि-प्रभ० ॥ २ ॥

अर्थ:-हे परमेश्वर ! अनादि विभाव योग हुं माहरा शुद्धात्म स्वरूपथी विमुंख रही, स्वाभाविक कर्तृता, स्वाभाविक भोक्तृता, स्वाभाविक ग्राहकता, स्वाभाविक व्यापकता विगेरेथी चूकी माहराथी विपरीत, विलक्षण, रूप रस गंध स्पर्शादि गुणमथ अचेतन जे पुद्गल द्रव्य तेने ग्रहण करवानो कासी तेने नवा नवा अनेक रूपे बनाववानो अभिमानी तेने भोगववानो इच्छक विगेरे थइ तेमांज निरंतर

व्यापी रह्यो, एम माहरा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावथी, विमुखपणे वर्त्ती जड संगते जडवत् वनी भवसमुद्रमां भ्रमण करवाने निरंतर उद्युक्त थइ रह्यो ॥ २ ॥

आतम आतम धर्म विसारियो हो जी, सेव्यो मिथ्यामाग ॥ आस्रव आस्रव बंधपणुं कर्युं हो जी, संवर निर्जरा त्याग, नमिप्रभ० ॥ ३ ॥

अर्थ:-राग द्वेषादि विभाव रहित स्वरूपने यथार्थ प्रत्यक्षपणे जाणवा रूप शुद्ध केवलज्ञान, निराकारोपयोग मधी केवलदर्शन, स्वरूपरमण-स्वरूप-स्थिरता मय सम्यक्चारित्र, ए आदिज्ञानानुयायी पणे वर्त्तना शुद्धात्म स्वभावो के जे आ संसार समुद्रमांथी मुक्त करी अव्याबाध स्वतंत्र अखूट परमानंद समूहनो निधान छे, ते शुद्धात्मधर्मने में न जाणथा, न चिंतव्या, न आदर्श्या पण ते शुद्धात्म-धर्मने मलीन करनार-दूषवनार, मिथ्यात्व अज्ञान, अने कषाय रूप मिथ्यामार्ग (विपरित आचरण) के जे घोर अनंत दुःखनुं निदान छे तेनुं में रुचि सहित हेवन कर्युं. ए मिथ्यामार्गने सेवतां आस्रव तथा बंधनो कर्ता थयो. मोक्षमार्ग रूप संवर

निर्जराने आदरी शक्यो नहि.

आस्रव—“ निरास्रव संवित्ति विलक्षण शुभाशुभ परिणामेन शुभाशुभ कर्मागमन मास्रवः ”—शुद्धात्म अनुभूतिथी विपरित जे शुभाशुभ परिणाम वडे ज्ञानावरणीयादि कर्मनु आगमन (आववुं) ते आस्रव छे. मिथ्यात्व अविरति कषायादि जो आत्माना अशुद्ध परिणाम ते भावास्रव छे अने ते भावास्रवना निमित्त वडे ज्ञानावरणीयादि कर्म दलनुं आववुं ते द्रव्यास्रव छे.

बंध—“बंधातीत शुद्धात्मोपलम्भ भावना च्युत जविस्य कर्म प्रदेशः सहसंश्लेषो बन्धः—मिथ्यादर्शनाऽविरति प्रमाद कषाय योगा बन्ध हेतवः ” मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अने योग वडे पूर्व कर्म साथे नवा कर्मनो संबंध (द्रव्यमलवुं) ते बंध छे. ते बंध चार प्रकारे छे—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग अने प्रदेशबंध. तमां योग वडे प्रकृतिबंध तथा प्रदेशबंध थाय छे अने कषाय वडे स्थिति बंध तथा अनुभागबंध थाय छे.

विशेष विवेचन—“ पिडिणीअत्तण निन्हव,

उवघाय पउस अंतराएणां ॥ अच्चासायणयाए,
आवरण दुगं जिउं जयइ ” ॥

सम्यक्ज्ञान सम्यक्दर्शन तथा सम्यक्ज्ञानी
तथा सम्यक्दर्शनीना प्रतिकुल आचरणथी, तथा
सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक्दर्शने ओलववाथी, गुस्त्ने
बुपाववाथी तथा तेउनो उपघात करवाथी, तथा
सम्यक्ज्ञान सम्यक्दर्शन तथा तेना स्वामी तथा
तेना कारणो उपर ढेष, मात्सर्य, ईर्ष्या करवाथी
तथा ज्ञान दर्शनमां अंतराय करवाथी, ज्ञान दर्शन
तथा तेना स्वामीनी आशातना करवाथी ज्ञानावरण
तथा दर्शनावरण कमेनो बंध थाय छे.

उन्मार्गनी देशनाथी तथा सन्मार्गनो घात
करवाथी ए विगेरे कारणोथी मिथ्यात्वमोहनीयनो
बंध थाय छे. क्रोधादिक कषाय तथा हास्यादि
नोकषायना सेवनथी चारित्रमोहनो बंध थाय छे.

महा आरंभ परिग्रहमां तल्लीनता, रौद्रध्यान
तथा उग्रकषाय वाडे नरकायु नो बंध थाय छे. गूढ
हृदय, मूर्खता, धूर्त्तता तथा मिथ्यात्वादि शल्य
वडे तिर्यच आयुनो बंध थाय छे. अल्प कषायता,
दानरुचि तथा मध्यम गुण वडे मनुष्य आयुनो बंध

थाय छे. सम्यक् दृष्यादि अविरति गुण वडे देवायुनो बंध थाय छे.

बालतप, अकामनिर्जरा, सरलता. अनागारी-पणुं, विगेरे गुण वडे शुभनामकर्मनो बंध थाय छे. एथी विपरीत आतरण वडे अशुभ नामकर्मनो बंध थाय छे.

गुणद्रष्टी, मद रहितता, तत्त्व भणवा भणाववा उपर रुचि, जिन भक्तिमां मग्नता विगेरे गुण वडे उंचगोत्रनो बंध थाय छे. एथी विपरीत आचरण वडे नीचगोत्रनो बंध थाय छे.

गुर्वादिकनी भक्ति, क्षमा, करुणा, व्रत, संयम याग, कषाय, विजय, दान, शीलादिक धर्ममां दृढता विगेरे गुणोथी शातावेदनीयनो बंध थाय छे. तेथी विपरीत आचरण वडे अशातावेदनीयनो बंध थाय छे-शंका समकीत, तप, संयम, क्षमा विगेरे थी आस्रव बंध केम संभवे ? उत्तर “ रत्नत्रय मिह हेतु-निर्वाणास्यैव भवति नान्यस्य ॥ आस्रवति यत्तु पुण्यं, शुभोपयोगस्य मपराध ॥ ” रत्नत्रय मात्र निर्वाण हेतु छे पण शुभाशुभ कर्मना हेतु नथी, देवादिक गतिना हेतु नथी. पण ज्यांसुधी

संपूर्ण वीतरागता प्राप्त थइ नथी, रत्नत्रयनी अपूर्णता छे त्यांसुधी सरागता वर्ते छे; ते सरागता-शुभेपयोगवडे कर्मास्रव थाय छे. जेम घृतमां बालवानो स्वभाव नथी परंतु घी साथे रहेली अग्निथी बलतां घीथी बल्यो एम बोलाय छे. तेम रत्नत्रयथी तो कर्मबंध थतो नथी लथापि ते रत्नत्रय साथ वर्त्तता शुभोपयोग (सरागता) वडे बंध थाय छे. माटे चोथा गुणस्थानथी मांडी संपूर्ण वीतराग गुणस्थान सुधी जे जे अंशे रत्नत्रय होय छे ते ते अंशे बंध नथी जेटला अंशे राग वर्ते छे तेटला अंशे बंध थाय छे.

एम शुद्धोपयोगथी चूकी अशुद्धोपयोगमां वर्त्ततां मोक्षमार्गरूप संवर तथा निर्जरा तत्वनो अनादर कर्यो.

संवर—“ कर्मास्रव निरोध समर्थ स्व संवित्ति परिणत जीवस्य शुभाशुभकर्मागमन संवरणं संवरः ” शुभाशुभ कर्मास्रवनो निरोध ते संवर छे. ते संवरना हेतु समिति, गुप्ति, परिसहजय, जतिधर्म, भावना तथा चरित्र छे.

निर्जरा—“ शुद्धोपयोग भावना सामर्थ्येन

नीरसीभूत कर्म पुद्गलानामेक देश गलनं
निर्जरा ॥ ” शुद्धोपयोग भावनाना सामर्थ्य वडे

नीरसीभूत कर्म पुद्गलानुं एकोदेश गलवु ते निर्ज-
रातेनो हेतु तप . “ तपसा निर्जरा च ” तथ,

सर्वे परद्रव्यनी इच्छानो निरोध ते तप छे “इच्छा
निरोध स्तपः” ते इच्छा निरोधरूप भावयुक्त तप

प्रकारे छे. अणसण “मूणोअरिया, विंत्ती
संखेवणं रसच्चाउ । काय किलेसो संलीणया
य षड्झो तवो होई ॥ पायच्छित्तं विणउ,
वेयावच्चं तहेव सड्झाउ । ज्ञाणं उस्सग्गोविय
अभिंभतगउं तवो होई ॥” एम छे प्रकारे बाह्य
तथा छे प्रकारे अभ्यंतर तप छ ॥ ३ ॥

जड चल जड चल कर्म जे देहने हो जी
जाण्युं आतम तत्त्व ॥ बहिरातमता बहि-
रातमता में ग्रही हो जी, चतुरंगे एकत्व ॥
नमिप्रभ० ॥ ४ ॥

अर्थः—जड अर्थात् अचेतन तथा चल अर्थात्
क्षणभंगूर पाणीना परपोटावत अस्थिर जे शरीर

तेने में आत्म तत्त्व जाणयुं एटले शरीरमांज अहं-
 बुद्धि करी शरीर तेज हुं छुं एम जाणयुं-शरीर वचन
 अने मननी क्रियाने में आत्मक्रिया जाणी योग-
 क्रियानुं ममत्व कर्युं, एम में बहिरात्मभावनुं ग्रहण
 कर्युं, आत्माथी अन्य जे अचेतन, जड, क्षणभंगूर
 शरीर तेमां अहंबुद्धि तथा धन, स्वजन, परिजना-
 दिकमां ममत्व बुद्धि करी आत्म स्वरूपथी अजाण
 रह्यो, माहरा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावने
 न जाण्या, पुद्गलना द्रव्य क्षेत्र, काल, भावमां
 अहं ममत्व मान्युं, जे भाव माहरा अस्तिधर्ममां
 नथी तेने में माहरा मान्या, आत्मप्रदेशथी बाहिरला
 परक्षेत्री भावने माहरा मान्या, अनंत ज्ञान, अनंत
 सुख, अनंत वीर्यथो रहित रह्यो. ॥ ४ ॥

केवल केवलज्ञान महोदधि हो जी, केवल-
 दंसण बुद्ध । वीरज वीरज अनंत स्वभावनो
 हो जी, चारित्त दायक शुद्ध । नमि० ॥ ५ ॥

अर्थ:-पण हे नमिप्रभ जगत्गुरु! आप तो
 बहिरात्मभावनो अत्यंत अभाव करी सर्वे द्रव्यने
 तेनां त्रिकालवर्ती पर्यायो सहित एक समये
 प्रत्यक्षपणे जाणवा समर्थ एवं जे केवलज्ञान तेना

महोदधि अर्थात् महान् समुद्रनी पेटे अखूट निधान
 थया छो, तेमज सामान्य सत्ता अवलोकन रूप
 केवलदर्शनना तथा कोइ पण काले जरा पण हीण
 क्षीण न थाय एवं सहज आत्मीय अनंत वीये
 प्रगट कयुं प्राप्त कयुं तथा क्रोधादिक सर्वे कषायोनो
 अत्यंत अभाव करी दायक चरित्र प्राप्त कयुं-प्रगट
 कयुं, अनंत आत्मीय परमानंदना भोक्ता थया ॥५॥

विश्रामी विश्रामी निज भावना हो जी,
 स्याद्द्विती अग्रमाद । परमात्म परमात्म
 प्रभु देखतां हो जी, भागी भ्रांति अनादि ॥
 नमि० ॥ ६ ॥

अर्थ:-तथा हे दयानिधान ! आप सर्वे परद्र-
 व्योना गुण पर्यायोमांथी रमण तथा आराम विश्रा-
 मनो त्याग करी पोताना केवलज्ञानादि शुद्ध
 स्वभावमां रमण करनारा स्थिरतापणे बिराजमान
 थया छो वली हे भगवंत ! आप स्याद्वाद धर्मयुक्त
 सदा छो अर्थात् स्यात्अस्ति स्वभाववंत छो,
 स्यात्नास्ति स्वभाववंत छो स्यात्एक स्वभाववंत
 छो, स्यात्अनेक स्वभाववंत छो, स्यात्वक्तव्य
 स्वभाववंत छो, स्याद् अवक्तव्य स्वभाववंत छो,

स्याद्नित्य स्वभाववंत छो, स्यात्अनित्य स्वभाव-
 वंत छो, स्यात्भव्य स्वभाववंत छो, स्यात्अभव्य
 स्वभाववंत छो, विगेरे अनंत स्याद्वाद धर्मयुक्त
 आप सदाकाल विद्यमान छो, तथा हे भगवंत !
 आप निरंतर अप्रसादभावमां वर्त्तो छो, क्षणमात्र
 पण पोताना शुद्धात्मधर्मथी च्युत तथी नथी, कारण
 के प्रसादना हेतु जे निद्रा विकथा विषय कषाय
 मद स्नेह विगेरे छे तेनो आपे सर्वथा नाश करेलो
 तेथी हे परमेश्वर ! आप परमात्म पदने संपूर्ण-
 पणे प्राप्त थया छो, एवा आप परमात्मानुं साची
 रीते दर्शन थतां माहरी अनादीकालनी अनात्मां
 आत्मपणानी भ्रान्तिनो नाश थयो ॥ ६ ॥

जिन सम जिन सम सत्ता ओलखी हो जी,
 तसु प्राग्भावनी ईह ॥ अंतर अंतर आत-
 मता लही हो जी, पर परिणति निरीह ॥
 नमि० ॥ ७ ॥

अर्थः—एम हे परमात्म प्रभु ! केवलज्ञान केवल-
 दर्शनादि अनंत शुद्धधमयुक्त आप स्वजातिनुं यथार्थ
 रीते दर्शन थतां में माहरी सत्ताने आप समान

जाणी, सहही, आपना केवलज्ञानादि शुद्धात्म धर्म मने रुच्या, ते प्रगट करवानी ईच्छा थई, परपरिणतिथी विरागभाव उपज्यो, अंतर आत्मतानी प्राप्ति थई. ॥ ७ ॥

प्रतिछंदे प्रतिछंदे जिनराजने हो जी, करतां साधक भाव । देवचंद्र देवचंद्र पद अनुभवे हो जी, शुद्धात्म प्राग्भाव ॥ नमिप्रभ० ॥८॥

अथे:-स्तुति-कर्ता श्रीदेवचंद्र मुनि कहे छे- हे भगवंत ! आप जेम मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगनो त्याग करी परमात्म अवस्थाने प्राप्त थया तेमज हुं जो आप प्रमाणे साधक भाव आदरुं तो हुं पण निःसंदेह देवमां चंद्रमा समान परमात्म पदनो आस्वाद लेनार भोगवनार थाउं; शुद्धात्म धर्मनी संपूर्ण प्रगटता थाय. ॥ ८ ॥

॥ संपूर्ण ॥

अथ सप्तदशम श्री वीरसेन जिन स्तवनम् ॥

॥ लाळलदे मात मल्हार ॥ ए देशी ।

वीरसेन जगदीश, ताहगी परम जगीश,

अजहो दीसरे वीरजता त्रिभुवनथी घणीजी ॥ १ ॥

अर्थः—अतुल्य आत्मीय वीरपणुं (प्राक्रम) स्फुरायमान करी, अत्यंत दुर्जय दुष्ट परिणामी मोह शत्रुनो लीला मात्रमां नाश करी पोताना नामने सार्थपणे आ जगत् त्रयमां प्रसिद्ध कर्युं छे, एहवा हे त्रिलोकपूज्य देवाधिदेव श्री वीरसेन प्रभु ! तमे ज्ञानावरणादि दुष्ट कर्मानो अत्यंत अभाव करी ज्ञानादि अनंत सर्वोत्कृष्ट संपदा पोताने स्वाधीन करी छे, तेना भोग-आस्वादमां निरंतर सप्रपणे परमानंद भोगवो छो. एवी आपनी ज्ञानादि लक्ष्मी आपथी अभेदपणे हांवाथी कोइ पण तेने नाश करी शके तेस नथी तथा मोहराजाने वश पडेला जगत्वासी जीवोमां एहवी ज्ञानादि अनंत लक्ष्मीनुं स्वामित्व नथी तेथी आपनी जगीश अर्थात् संपदा परम (सर्वोत्कृष्ट) पदने वास्तिकरीते योग्य छे.

वली जगत्वासी जीवोनुं वीर्य क्षायोपशमिक भावे होवाथी अल्प छे—अपूर्ण छे. अने वीर्यनी अल्पता तथा चलपणाने लीधे कमबंध करी पराधिन

थाय छे, पण हे भगवंत ! आपे वीर्यातरायनो समूह क्षय करी, अखूट, अनंत, अचल वीर्य संपूर्ण पणे पोताने स्वाधीन-प्रगट करी लीयुं छे; तेथी आ सर्वे जगत्वासी जीवोमां उत्कृष्ट वीर्यवंत आपज छो, एहवा आपना द्रढ स्थिर अने सतेज वीर्य सामे सोहराजा द्रष्टि करवाने पण समर्थ थई शकतो नथी तो नर्जाक आववानी शी चात ! माटे आपनीज वीरजता सर्वोपरी पद धरावे छे ॥ १ ॥

अगाहारी अशरीर, अक्षय अजय अति धीर
आज हो अविनाशी अलेशी ध्रुव प्रभुता
वाणीजी ॥ २ ॥

अर्थ:-शरीर ते अनंत पुद्गलोना समूह रूप अचेतन पदार्थ छे, अने जीव द्रव्य पोते एक तथा सचेतन पदार्थ छे. तेथी जीव द्रव्यथी शरीर तदन विलक्षण, वस्तुतः भिन्न पदार्थ छे. तथापि अनादि अविद्या वडे. भेद विज्ञानना अभावे संसारी आत्मा अनेक प्रकारनां कर्म बांधी, ते कर्मना उदय वडे प्राप्त थएला शरीरनेज आत्मपणे जाणे छे सदहे छे, तेथी मनुष्यना शरीरमां रहेला जीवने मनुष्य तथा देवना शरीरमां रहेला जीवने देव

विगेरे मनाय छे, अने तेथी संसारी आत्मा सशरीरी बने छे. पण हे भगवंत ! आप तो ते अविद्यानो नाश करी संपूर्ण भेद विज्ञान प्राप्त करी, स्वपर द्रव्यने तदन भिन्न भिन्न जाणी शरीरमांथी अहंममत्व उठावी शरीरथी सर्वथा अतीत थया छो माटे हे प्रभु ! आप अशरीरी छो.

शरीर अनंत पुद्गलोना संयोगथी बनेलुं होवाथी सचल तथा अस्थिर छे, तेथी तेमांथी केटलाक पुद्गलो स्थलांतरे जतां बीजा पुद्गलो आहारवानी (लेवानी) जरूर पडे छे. माटे शरीर-धारीने आहारनी जरूर पडे; परंतु हे भगवत ! आप तो अशरीरी छो माटे आपने आहारनी जरूर नथी. आपनुं अंग एकता धारी छे तेथी तेमांथी कोइ पण काले रंचमात्र पण घसावानो, क्षीण थवानो संभव नथी माटे निःसंदेह आप अणा-हारी छो.

अनेक पुद्गलोना मलवाथी जे वस्तु बनेली होय, तेज घसाई. भागी शके, पण एक पुद्गल परमाणुं आदि जे जे पदार्थमां एकत्व छे, असंयोगी छे, ते ते पदार्थ घसाई, भागी अथवा विणशी शके नहि. माटे हे भगवंत ! आप असंयोगी तथा

एकत्व महित होवाथी आपना आत्म अंगमां कोइ पण काले रंचमात्र पण क्षय थवानो संभव नथी, आप अक्षय पदमां नित्य विराजमान छो.

सर्वे द्रव्यो पोतानी सत्ताभूमिमां पोताना गुण पर्यायोना स्वामी पणे वर्त्तवाने सदा काल सत्ताधारी छे. कोइ पण अन्य द्रव्य तेमां प्रवेश करवानेज समर्थ नथी तो आपने जीतवानी शुं वात ? माटे हे भगवंत ! आप सदा अपराजित (अजय) छो.

वली आपनुं वीर्य क्षायिकभावे होवाथी आप अत्यंत धीर वीर छो. जेम सूर्यना प्रताप सामे अंधकार अस्यंत अभाव पामे छे, तेम आप श्रीना क्षायिकवीर्य जन्य धीर वीरताना. प्रतापथी आपना कर्म शत्रुं अस्यंत अभावने प्राप्त थई गया छे.

जो के सर्वे द्रव्यो वस्तुतः अविनश्वर छे. तथापि अनेक पुद्गलोथी वनेला शरीरमां ज्यांसुधी अहं ममत्व बुद्धि होय छे त्यां सुधी ते शरीरनो नाश थतां आत्मां पोतानो नाश मानी नाशपणाना दुःखने अनुभवे छे. पण आपे पोताना आत्म अंगमां आत्मपणुं जाण्युं स्वीकार्युं, पोताना एकत्व पिंडना अनुभवी थया. तेथी विनाशपणानो प्रसंग नाश

थयो माटे आप निरंतर अचिनश्वर पदमां परमानंद भोगवो छो.

लेश्याना हेतु कषाय, योग छे पण आप तो कषाय तेमज योगधी सर्वथा सुक्त थया छो माटे अलेशी छो.

बली हे भगवंत ! आपनी प्रभुता पण हवे ध्रुव (निश्चल) थई छे, संसारी जीवो अज्ञान वशे पोतानी सत्ताभूमिनी मर्यादा उलंघी परक्षेत्रे परगुण पर्यायीनी प्रभुता चाहे छे, एहवा अन्यायी पुरुषोनी कृत्रिम प्रभुता नाश पामे. परंतु आम न्याय शिरोमणी होवाथी परगुण पर्याय विषे पोतानी प्रभुता स्थापन करता नथी. निरंतर पोताना गुण पर्यायमां संतुष्ट छो. एम आपनी प्रभुता एक क्षेत्री, अप्रथग्भूत, तथा समवाय संबंधे होवाथी तेनो कोइ पण कारणे वियोग थवा संभव नथी माटे आपनी प्रभुता खरेखर ध्रुव निश्चल छे. आपनी प्रभुताने कोइ पण स्खलना करवा समर्थ थई शके तेम नथी. जे अन्यायी पुरुष पोतानुं घर छोडी पारके वेर चोरी करवा जाय तेनुं धन बीजा चोरो वडे पहेलां लूटाइ जाय, पण जे न्यायी पुरुष बीजाना. पदार्थनी आकांक्षा नहि राखतां पोतानी

विभ्रूतिमां संतोष पणे निरंतर सचेत रहे तेनी
विभ्रूति बीजो कोण लूटी शके ? ॥ २ ॥

अतींद्रिय गत कोह, विगत माय मय लोह ॥

आज हो सोहेरे मोहे जग जनता भणीजी ॥३॥

अर्थ: हे भगवंत ! आप अतींद्रिय छो. पांच
ईंद्रियोना स्पर्श, रस, गंध, रूप, अने शब्द ए पांच
विषयो छे, माटे ईंद्रियोनो विषय फक्त पुद्गल छे,
परंतु आप अरूपी द्रव्य होवाथी ईंद्रिय विषयथी
तदन भिन्न छो तेथी आप ईंद्रियो वडे अगोचर
(अतींद्रिय) छो.

शरीरादि परद्रव्यमां जेने अहं ममत्व बुद्धि
होय तेने क्रोध उपजवानो संभव छे कारण के ते
शरीरादि अनित्य अने परक्षेत्री पदार्थो होवाथी
कोई तेने बगाडे विणशावे अथवा वियोग करे
उपर तेने क्रोध उपजे छे. पण हे भगवंत ! आपतो
ते शरीरादि परद्रव्यनुं सर्वथा ममत्व तजी पोताना
नित्य, अभेद्य समवाय संबधी ज्ञानादि गुणोमां
पोतानुं स्वामित्व अनुभवो छो. तेने कोइ पण अन्य
द्रव्य रंचमात्र पण हरकत करवा समर्थ नथी तो
आपना परिणाममां क्रोधने अवकाश क्यांथी ?

क्षमा सरोवरमां निरंतर क्रीडा करता आप भगवंतनी पासे क्रोधाग्नि केम आवी शके ?

बली सर्प जेवी अविश्वास्य, जगत्मां फसा-
वधाने अत्यंत बलवत्तर जाल समान जे ग्या
परिणति, तेने आपे तीक्ष्ण धारवाली आर्यव रूपी
तरवार वडे छिन्न भिन्न करी नांखी छे.

बली जाति, लाभ, कुल, विद्या, अधिकार
विगेरे आठ प्रकारना मदरूप अतिशय द्रढ पर्वतने
आपश्रीए मार्दवरूप वज्रदंडवडे चुरेचुर करी
नांख्यो छे.

तथा परद्रव्यादिने ग्रहण संग्रह करवारूप
सूर्जाजले भरंला अतिशय विस्तीर्ण लोभसमुद्रने
आप निस्पृहरूप वहाणमां आरूढ थइ सहज लीला
मात्रमां तरी संतोष भूमिमां विराजमान थया छो.

एम आत्मगुणनो घात करनार तथा भवतरुना
सूल रूप क्रांथादिक कषायोने आप भगवंते समूल
क्षय करी क्षमा, मार्दव, आर्यव, निस्पृहता विगेरे
अनुपम गुणालंकार वडे आप सर्वोत्तम शोभाय-
मान छो, एवी आपनी निःकषाय परम शांत मुद्रा
अवलोकता जगद्वासी जी वो अत्यंत विस्मय
थाय छे. ॥ ३ ॥

अमर अखंड अरूप, पूर्णानंद स्वरूप । आज
हो चिद्रूपे दीपे थिर समता धणीजी ॥ ४ ॥

अर्थः—इंद्रिय, बल, आयु अने श्वासोश्वास ए
चार जीवनां व्यवहार प्राण छे अनेते प्राणना
विद्योगे मरण कहेवाय छे. पण हे भगवंत ! आपे
ते व्यवहार प्राणने पौद्गलीक परं द्रव्यथी निष्पन्न
साक्षात्पणे जाणी ते प्राण उपरथी. समत्व उठावी
पोताना शुद्ध चेतना प्राणवडे पोतानुं जीवन
स्विकायुं छे, ते चेतना प्राणनो आपथी कोइ पण काले
विद्योग थाय तैम नथी, माटे आप सदा अमर छो.

जे संयोगी पदार्थ होय तेमां संधि होय, अने
जेमां संधि होय ते भांगी तूटी शके. पण हे
भगवंत ! आप असंयोगी शुद्ध एक तत्व छो, आपना
अंगमां संधि नथी, तेथी आप सदा अखंड छो.

परम स्वभावने अनुयायीपणे द्रव्यना सर्वे
गुणो होय छे. जीव द्रव्यनो परम गुण चेतनत्व छे
माटे जीवना सर्वे गुणो चेतनानुगत होय, ए
शिवायना गुणो जीव द्रव्यमां होइ शके नहिं; माटे
रूप, रस, गंधादि गुणो चेतनानुगत नथी माटे
रूपादिगुणोनो जीव द्रव्यमां अत्यंताभाव छे तेथी

हे भगवत ! आप सदा अरूपी छो.

जगत्वासी जीवो इष्ट पुद्गलोनी प्राप्ति, प्रभुता, तथा भोगवडे आनंद माने छे, पण ते परद्रव्यना तावे होवाथी जगत्जीवनो आनंद पराधीन, अवास्तविक, तथा क्षणभंगुर छे. पण हे भगवंत ! आप त मात्र पोताना गुण पर्यायोनीज प्रभुता, तथा भोगवडे आनंद मानो छो तेथी आपनो आनंद निरूपचरित पूर्ण तथा नित्य छे, एम हे प्रभु ! आप पूर्णानंद स्वरूप छो.

तथा हे भगवंत ! आपनां आत्मोद्य ज्ञान प्रकाश किरणो के जे सर्वे द्रव्यना त्रैकालिक परिणामथी अधिक छे, ते अनंत ज्ञान प्रकाश वडे आप निरंतर सर्वोपरी देदिप्यमान छो. आपना ज्ञान प्रकाशनं आ जगत्त्रयमां कोइ उपमान नथी.

वली हे भगवंत ! आप सर्वज्ञ तथा वीतराग होवाथी पूर्ण समतावंत छो. इष्टानिष्ट विकल्पथी सर्वथा मुक्त छो. ते समता क्षायिक भाव जन्य होवाथी हवे कोइपण काले आपना परिणाममां विसमतानो संभव नथी तेथी आप पूर्ण निश्चल समताना स्वामी छो. ॥ ४ ॥

वेद रहित अकषाय, शुद्ध सिद्ध असहाय ।

आज हो ध्याय के नायकने ध्येय पदे
ग्रह्योजी ॥ ५ ॥

अर्थ:-नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, अने पुरुषवेद ए त्रणे
वेदनो नवमे गुणस्थाने तथा सर्वे कषायनो दशमा
गुणस्थानना अंतसुधीमां समूल क्षय करी दीधो छे,
तेथी हे भगवंत ! आप वेद तथा कषाय रहित छो;
तथा “ स्वय परिणामे सिद्धा ” ए सूत्र प्रमाणे
आपमां क्षायिक अने परिणामिक ए वे भावज वर्त
छे, सकल कर्मनो क्षय करी क्षायिकभाव पोतानु
शुद्धात्म स्वरूप संपूर्ण सिद्ध प्रगट कर्युं छे. अनंत-
ज्ञान, दर्शन, चारित्रना स्वामी थया छो. अने
पारिणामिक भाववडे अनंतकालसुधी आपना
ज्ञानादि गुणो असहायपणे निरंतर परिणमशे.
कोइपण काले कोइपण आपना ज्ञानादि परिणामने
स्खलना करी शकशे नहि माटे हे भगवंत ! आप
सादिअनंतकाल सुधी शुद्ध सिद्ध तथा असहाय छो.
उपर वर्णवेला गुणो सहित शुद्ध सिद्ध तथा
असहाय आप भगवंतने अवलोकी आप समान
सिद्धपदनो कामी हुं सेवक ध्याता, आप त्रिलोक-
पूज्य भगवंतने ध्येयपदे स्थापुं छुं, आपना पदनुं
ध्यान करुं छुं. ॥ ५ ॥

दान लाभ निज भोग, शुद्ध स्वगुण उप-
भोग । आज हो अजोगी कर्त्ता भोक्ता
प्रभु लह्योजी ॥ ६ ॥

अर्थ:-अंतराय कर्मना क्षयवडे हे भगवंत !
आपमां दानादिक लब्धिउ क्षायिक भावे वर्ते छे.

वीर्यगुणनी सहायवडे सर्वे गुणो परिणमे छे.
तेम ज्ञानगुणना उपयोग विना वीर्यगुण स्फुरायमान
थइ शके नहि माटे वीर्यने ज्ञानगुणनी सहायता छे
नथा शुद्धज्ञान परिणामने चारित्रनुं सहाय छे. वही
चरित्र पराचरण रूप न परिणमे ते चारित्रने ज्ञान-
गुणनो उपकार छे. एम एक गुणने बीजा गुणोनी
सहाय छे, ते सहायरूप दानना कर्त्ता हे भगवंत !
आपज छो. वली एबु दान आप निरंतर आप्यां
करो छो माटे आप अक्षय दाता छो. तथा ते
दानना प्रभाववडे सर्वे गुणो पोतानी शुद्ध परिणतिए
परिणमे छे, ते रूप लाभ लेनार पण आपज छो.
एम आपमां दाता पात्र अने देयनी अभेदता छे.
एम ज्ञानादि परिणाम हमेशां शुद्धपणे वर्ते छे.
तज्जन्य आनंदना वेदनारा छो तैथी ज्ञानादि
पर्यायना आप निःप्रयास पणे हमेशां भोक्ता छो.

जे एकवारज भोगववा योग्य होय ते भोग, अने जे अनेकवार भोगववा योग्य होय ते उपभोग कहेवाय छे माटे ज्ञानादि शुद्धगुणो सहभावी होबाथी हमेशा आपमां कायमपणे रहेनारा छे, माटे आपमां ते गुणोनो उपभोग छे.

वली हे भगवंत ! मन, वचन, काया तथा कोह षण पुद्गलयोग विना आप परकर्तृत्व तथा परभोक्तृत्व निवारी स्वभावना कर्ता भोक्ता बन्या छो, एहवा आप त्रिलोकपूज्य प्रभुनुं मनं कोह महत् पुण्यना पसाये आजे दर्शन मलयुं छे. इंद्रिय गोचर वस्तुनुं दर्शन तो सहजे सर्वे पामी शके.पण आप तो अरूपी निष्कर्म छो. आपना दर्शननी प्राप्ति तो विरलानेज थई शके छे. ॥ ६ ॥

दारिसण ज्ञान चरित्र, सकल प्रदेश पवित्र ॥ आज हो निर्मल निःसंगी अरिहा वंदियेजी ॥ ७ ॥

अर्थ:-आपनुं दर्शन थतां आपना सर्वे प्रदेश अत्यंत निर्मल ज्ञान दर्शन अने चारित्र वडे परिपूर्ण पवित्र जोह तथा आपनेज जगत् त्रयमां निर्मल तथा निःपरिग्रही अवलोकी कर्मशत्रुनो अंत आण-नार आप श्री वीरसेन प्रभुने कर्म क्षय निमित्ते त्रिकरण योगे षंडु छुं ॥ ७ ॥

देवचंद्र जिनचंद्र, पूर्णानंदनो वृंद ॥ आज
हो जिनवर सेवाथी चिर आनंदियेजी ॥ ८ ॥

अर्थ:-स्तुती कर्ता श्री देवचंद्र मुनि कहे के
सर्वे जिनोमां चंद्रमा समान वर प्रधान हे वीरसेन
प्रभु ! स्वाभाविक, निःप्रयासिक, अनंत आनंदना
ससूहरूप आप जिनेश्वरनी आज्ञा सेवनरूप सेवाथी
हुं पण आप समान अनंत परमानंदने प्राप्त थइश;
शिवकमलानो चित्तासी थइश. ॥ ८ ॥

॥ अथ श्री अष्टादशम श्री महाभद्र
जिन स्तवनम् ॥

तद यमुनानुरे अति रलीयामणुं रे ॥ ए देशी ॥
महाभद्र जिनराज, राज राज विराजे हो
आज तुमारडोजी । क्षायिक वीर्य अनंत,
धर्म अभंगे हो तुं साहिब षडोजी ॥ हुं
बलिहारीरे श्री जिनवर तणीजी ॥ १ ॥

अर्थ:-सर्वे जिनोमां शिरोमणी परमकल्याणना
निधान हे श्री महाभद्र प्रभु ! आपनुं राज्य
सर्वोपरी समाधि तथा अनंत विभूति युक्त निर्वि-
घ्नताए अलौकिक रीते शोभे छे, आपनुं राज्य

पराक्रम अज्ञय, अजय तथा अपरिसीम छे, आपे सर्वे कर्मशत्रुउनो सपरिवार नाश कर्यो छे, निर्वंश कर्यो छे तेथी हवे कोइपण आपना राज्यमां विघ्न करी शके तेमं नथी तथा आपनी अनंत पर्यायरूप प्रजा, अस्यंत सरल पंडित तथा सदाचरणी छे, आपना धर्मरूप कायदानो जरा पण भंग करे तेम नथी, आपना सर्वे धर्म कायदा संपूर्ण न्याय तथा दया युक्त होवाथी सदा सर्वत्र अभग छे; एम आप सर्वोत्तम राजापणे विराजो छो, आपना राज्यनी बलिहारी छे. ॥ १ ॥

कर्ता भोक्ता भाव, कारक कारण हो तुं स्वामी छतोजी । ज्ञानानंद प्रधान, सर्व वस्तुनो हो धर्म प्रकाशतोजी ॥ हुं० ॥ २ ॥

अर्थः—बली ते पर्यायरूप प्रजाना उत्पन्न कर्ता पण आपज छो तथा तेना उपादान कारणरूप पण आपज छो, तेना अधिकरणादि अन्य कारको पण आपमांज अभेदपणे शोभे छे तथा ते प्रजाने सदाचरण युक्त-न्यायानुसार गमन करनार निरखी तज्जन्य राज्यानंदना भोक्ता पण आपज छो.

ते सर्वे प्रजामां शिरोमणी, आदरणीय तथा

अत्यंत बल्लभ एषा ज्ञानानंद स्वदेशी शैठने आपे प्रधान पदे स्थाप्यो छे, ते ज्ञान प्रधान सर्वे प्रजाथी संपूर्ण रीते माहितगार छे, जेना हृदयमां सर्वे प्रजाना भाव निरंतर प्रकाशित रहे छे बली ते ज्ञानानंद प्रधान निरंतर आप समीप हाजर रहे छे समयमात्र पण दूरवर्ती नहि थतां सर्वे प्रजानुं सदैव निरिक्षण तथा संरक्षण करे छे तथा कोइने पण त्रास नहि आपतां अस्यन्त हर्षपूर्वकन्यायानुसार वर्त्तावे छे, लेशमात्र पण न्यायातिक्रम थवा देतो नथी, एवो अद्भुत चातुर्य तथा विवेकवंत छे. ॥ २ ॥

सम्यकदर्शन मित्त, थिर, निर्धारे अविस्वादताजी । अन्याबधि समाधि, कौश अनश्वरे रे निज आनंदताजी ॥ हुं० ॥ ३ ॥ देश असंख्य प्रदेश, निज निज रीते रे गुण संपत्ति भर्याजी । चारित्र दुर्ग अभंग, आतम शक्ते हो परजय संचर्याजी ॥ हुं० ॥ ४ ॥

अर्थः—अभिग्रहादिक पांच मिथ्यात्वने समूल नाश करी जेणे पोतानुं अंग निर्मल करेलुं छे तथा जे, सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्यता अने

अनुकंपादि लक्षणे युक्त, तथा कुशलता, तीर्थसेवा, गुरुभक्ति, दृढता तथा शासननी अनुमोदना विगरे भूषणोधी भूषित, शंका, कांक्षादि सर्वे विसंवाद टाली अविंसंवादताने स्थिर दृढपणे पोताना हृदयमां धारण करतो महा विनयवंत, आपना शासननो प्रभावक गुणनिधान एवो "सम्यक्दर्शन" नामे महाधीर वीर शुभट आपनो मित्रं छे, जेनी साथे आपनो सम्यक्ज्ञान प्रधान पण एटली तिब्र मैत्री राखे छे के क्षणमात्र पण तेथी छूटो पडी शकतो नथी, जेउनां अंग मात्र जूदा जणाय छे पण जीव तो जाणो एकज छे ।

एवा सम्यक्दर्शन अने सम्यक्ज्ञान छे महान् पुरुषो आपनुं राज्य अत्यंत चातुर्य, न्याय अने दया पूर्वक सर्व प्रजाने आनंदमां राखता निष्कंठकपणे खलावे छे तथा अव्याबाध समाधिरूप अनेक प्रकारना रत्नो-वडे आपना खजानाने सदा परिपूर्ण तथा अखूट राखे छे, निरंतर तज्जन्य परमानदमां आपु विलसो छो;

वली आप ज्यांनुं राज्य करो छो ते देश असंख्याते, प्रदेशवालो, जेन सीमामां कोइपण वधघट करी शके नहीं एवो छे तथा जेना सर्वे प्रदेश

अनंता गुणाविभागरूप संपत्तिवडे तथा पर्यायरूप प्रजावडे ? भरेला छे.

एवा आपना अनुपम देशना, तथा तेमां वसती सरल प्रजाना रक्षण निमित्ते आपना मित्र तथा प्रधाने मली पोताना अत्यंत बल तथा चातुर्यवडे चारित्ररूप अत्यंत मजबूत तथा अभंग किल्लो बांध्यो छे. हे भगवंत ! एवा अलौकिक राज्यना आप स्वामी बन्या छो. एहवुं अलौकिक राज्य के जे मोहराजाए अनादिथी पोताना कदजे करा राख्युं हतुं तेने आपे केवा रीते प्राप्त कर्युं ? — “ आत्म शक्त हो परजय संचर्याजी ” अन्यनी मदद शिवाय मात्र पोतानी आत्मशक्ति स्फुरायमान करी सम्यक्दर्शन मित्र, तथा सम्यक्ज्ञान प्रधानने सा राखी मोहशत्रुने पराभव करवा रणभूमिमां प्रवेश कर्यो ॥ ३ ॥ ४ ॥

धर्मक्षमादिक सैन्य, परिणति प्रभुताहो तुज बल आकरांजी । तत्त्व सकल प्राग्भाव, सादि अनंतीर रीते प्रभु धर्योजा ॥ हुं० ॥ ५ ॥

अर्थः--मोहराजाना लशकरने शीघ्रमेव नाश करनारा “ क्षांति, मार्दव-आर्जव, मुक्ति, तव,

संयम, सत्य, शौच, अकिंचन, अने ब्रह्मचर्य, एवा अपरिमित बलवाला सैन्य सज्ज कर्या अने ते सर्वे सैन्योनी प्रभुता (सेनाधिपति पणुं) शुद्धोप योगरूप महा अजीत अने निडर शुभटने आपी एवा अत्यंत तीक्ष्ण बलवडे मोहराजाना लश्करनो नाश कर्यो. क्षांति सैन्ये क्राध लश्करनो, मादवे मान लश्करनो, आर्यवे माया लश्करनो, मुक्ति लोभ-स्पृहा लश्करनो, तपे पराकांक्षानां, सयमे हिंसानो मत्ये असत्यतानां, शोचे मलिनतानो, अकिंचने पर संग्रहबुद्धिनां अने ब्रह्मचर्ये पररमणनां एम मोहराजाना सर्वे लश्करनो तथा परिवारनो नाश करी मोहराजाने प्राण रहित कर्यो अने सादिश्रान्त भांगे “ तत्त्व सकल प्राग्भाव ” पोतानो संपूर्ण राज्याधिकार प्रगट कर्यो ॥ ५ ॥

द्रव्य भाव अरि लेश, सकल निवारीरे साहिब अवतर्योजी । सहज स्वभाव विलास, भोगी उपभोगीरे ज्ञानगुणे भर्योजी ॥हुं० ॥६॥

अर्थ:-द्रव्य तथा भाव ए वने प्रकारना शत्रुनो समूल नाश करी आप शिवक्षेत्रना राजा बन्या छो

तथा पोताना नैरुपाधिक सहज स्वतंत्र भोगना विलासी थया छो, तथा आप ज्ञानानंदे परिपूर्ण सदा उपयोगवंत अर्थात् पोताना राज्यनी संभालमां निरंतर वर्त्तो छो ॥ ६ ॥

आचारिज उवझाय, साधक मुनिवर हो देश विरत धरुजी । आत्म सिद्धि अनंत, कारण रूपे रे योग क्षेमंकरुजी ॥ हुं० ॥७॥

अर्थः-ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार अने वीर्याचार, ए पंचाचारमां वर्त्तनार तथा शिष्यजनने तेषां वर्त्तावनार (जोडनार) एहवां छत्रीशं गुणवान् श्रीआचार्य, तथा सूत्रपाठना दातार श्री उपाध्याय, तथा पोताना शुद्धात्म-तस्वने साधनार श्री मुनिराज, तथा पंचम गुणस्थानवर्त्ती देशव्रत धारीऊं, ए सर्वे आप महाराजनी आज्ञामां वर्त्तनार, पोताना मनवचन कायायोगने सयममां वर्त्तावनार होवाथी अनंत आत्म सिद्धि-रूप आप समान राज्य भोग पामवाना कारण छे अर्थात् तेऊ अल्पकालमां आप समान शिवभूमिनुं राज्य प्राप्त करशे तथा ते आचार्यादिकोने शिव-भूमिनुं राज्य प्राप्त करवामां आप भगवंत कारणरूपे

अर्थात् मददगार छं । । ७ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव, आणारागी हो सहु जिन-
राजेनाजी । आतम साधन काज, सेवे पदकज
हो श्री महाराजनाजी ॥ हुं० ॥ ८ ॥

अर्थ:-बलीचतुर्थ गुणस्थानवर्ती उपशम क्षयो-
पशम वा क्षायिक सम्यक्दृष्टि सर्वे जीवो हे भगवंत
भवसमुद्रमां सेतु समान आपनी आज्ञानारागी छे,
आपनी आज्ञा पालवाने उत्सुक छे, तेउं पोतनुं
शुद्धात्म स्वरूप प्रगट करवा माटे आप भगवंतना
द्रव्यभाव चरणकमलने सन्माने छे ॥ ८ ॥

देवचन्द्र जिनचन्द्र, भगते राचो हो भवि
आतम रुचिजी । अव्यय अक्षय शुद्ध, संपत्ति
प्रगटे हो सत्तागत शुचिजी ॥ हुं० ॥ ९ ॥

अर्थ:-स्तुतिकर्ता श्रीदेवचंद्रमुनि मित्र भावनाना
आवेशमां पोताना मुखकमलमांथी परम कल्याण-
कारी उपदेश आपे छ के पोतानी शुद्धात्म सिद्धिना
इच्छु हे भन्यात्माउं ! शिवक्षेत्रना महाराजा श्री
जिनेंद्रभगवाननी आणा सेववामां लीन थाउं जेथी

तभारी सत्तामा रहेली पवित्र, अविनश्वर, अखूट,
अक्षय शुद्धात्म सपदा सहज प्रगट थडो ॥ ६ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ एकोनविंशतिम श्री देवजसाजिन
स्तवनम् ॥

॥ महाविदेह क्षेत्र सोहामणु ॥ ए देशा ॥

देवजसा दरिसण करो, विघटे मोह विभाव
लाल रे ॥ प्रगटे शुद्ध भवभावना, आनंद
लहरी दाव लाल रे ॥ देवजसा ० १ १ ॥

अर्थ:- सर्वकर्म कलकथी रहित अत्यंत पवित्र
तथा अनंत ज्ञान दशन आदि अंतातीत अभ्यंतर
लक्ष्मियुक्त विलोकी चार निकायना देव तथा
इंद्रादिना समूह जेनी अनुपम यशवाद बोले व्र
एवा श्री देवजसा प्रभुनुं हे भव्यात्माओ ! दर्शन
करो, ते पृज्य भगवंतना स्वरुपनुं सम्यक् प्रकारे
अचलोचन करो, जेथी अनादिथी बलगेला अज्ञान
मिथ्यात्व धोह विगेरे दुःखदायक विभाव समल

नाश पाये तथा जेमांथी निरंतर परमानदनी
कल्लोलो उठ्यां करे एवो संवर पूरे भरेलो पवित्र
रत्ननिधान शुद्धात्म स्वभाव प्रगट थाय. एवा
आपना प्रत्यक्ष दर्शननी हे प्रभु ! मने अत्यंत
अभिलाषा छे परतु ॥ १ ॥

स्वामी वसो पुष्करवरे जंबू भरते दास
लाल रे ॥ क्षेत्र विभेद घणो पड्यो, किम
पोहोचे उल्लास लाल रे देव० ॥ २ ॥

अर्थ:-हे भगवंत ! आप तो पुष्कलावर्त
विजयमां विचरो छो अने आपना दर्शननो अभि-
लाषी सेवक हुं जंबुद्विपना भरतक्षेत्रमां वसु छुं
एम आपना तथा माहरा स्थानकने घणुं अंतर छे
तेथी आपना प्रत्यक्ष दर्शननी मनोकामना शीगीते
पूर्ण थाय

प्रकारांतरे-हे भगवंत ! ज्यां कर्म कलंकनो
रंच मात्र पण प्रवेश नथी एवा पवित्र ज्ञानादि
लक्ष्मीना निवासरूप विदेह अर्थात् देह रहित
अरूपी सिद्धक्षेत्र आप विराजमान छो अने हुं
सेवक कर्मकलंक वडे मलिन, अज्ञान अने मोह अंधकार
वडे भरपूर संसार क्षेत्रमां परिभ्रमण करुं छुं; एम

आपना तथा माहरा क्षेत्रमां अत्यंत भेद (अंतर)
 पढ्यो छे तो आपना प्रत्यक्ष दर्शननी माहरी
 मनोकामना शीरीते पूर्ण थाय ? ॥ २ ॥

होवत जो तनु पांखडी, आवत नाथ हजूर
 लालरे ॥ जो होती चित्त आंखडी, देखत
 नित्य प्रभु नूर लालरे ॥ देव० ॥ ३ ।

अर्थ:-पण हे भगवंत ! जो माहरा शरीरे पांखो
 होत तो हुंते पांखो वडे उडी पूरकलावर्त विजयमां
 आप प्रभुना समीप आवी आपलुं दर्शन, वंदन
 करत अथवा जो मने चित्त आंखडी अर्थात् ज्ञान
 नेत्र अवधिदर्शन होत तो अहिंआं रहीने पण
 चोत्रीश अतिशय अने अष्ट महा प्रातिहार्यादिक
 विभूति सहित आपना तेजस्वी रूपने हमेशां,
 निरख्यां करत.

प्रकारांतरे-हे भगवंत ! जो माहरा आत्म अंगे
 सम्यक्चारित्र रूप प्रवल पांखो होत तो ते पंखे वडे
 चिदाकाशमां उडतो-विहार करतो आप ज्यां वसो छो
 एवा विदेह-देह रहित सिद्ध क्षेत्रमां आप समीप
 आवी हाजर थात अथवा जो कदाच चित्त आंखडी
 कहेतां केवलदर्शन होता तो आ क्षेत्रमां रहीने

पण अनंत ज्ञान दर्शन आदि अत्यंत अभ्यंतर
विभूति युक्त आपना लोकालोक प्रकाशक अनंत
प्रकाश युक्त महान् तेजस्वी स्वरूपने निरंतर
निरख्यां करत पण ते बंदे शक्तिओथी हुं रहित छुं
तो आपनुं दर्शन केस पासु ? ॥ ३ ॥

शासन भक्त जे सुरवरा, विनवुंशीष नमाय
लालरे ॥ कृपा करो मुज ऊपरे, तो जिन
वंदन लालरे ॥ देवजसा० ॥ ४ ॥

अर्थ:-ऊपर प्रमाणे माहरामां देवजसा प्रभुनुं
दर्शन पामवानी शक्ति नहि होवाथी जिनशासनना
भक्त हे महान् देवा ! हुं आपनी सहाय चाहुं छुं,
मस्तक नमावी विनति करुं छुं के जो आप माहरा
ऊपर कृपा करी जो अपना सामर्थ्य वडे देवजसा
प्रभु पासु मने लेई जाऊं तो ते प्रभुनां दर्शन
वंदननो मने लाभ मले .

प्रकारांतरे-ऊपर प्रमाणे सस्यक्चारित्ररूप पांखो
अथवा केवल दर्शनरूप आंखो मने नहीं होवाथी
देवजसा प्रभुनुं दर्शन वंदन प्राप्त करवामां जिन
शासन अर्थात् जिनेश्वरन आज्ञानुं पालन कर-
नारा तथा बीजाने तेमां जोडनारा हे सुरधरा
अर्थात् महान् आचार्यो हुं आपने मस्तक नमावी

अंतरंग बहु मन्मान (विनय) युक्त आपने
 विनंती करूं हूं के जो आप माहरा ऊपर कृपा
 करो, मने सम्यक् चारित्रमां जोडो तो हूं ते चारित्र
 रूप पांख वडे श्री देवजसा प्रभुनी समीप जई शकूं,
 ते प्रभुना प्रत्यक्ष दर्शननो मने लाभ मले ॥ ४ ॥

पूछूं पूर्व विराधना, शी कीधी ईणे जीव
 लाल रे ॥ अविरति मोह टले नहीं, दीठे
 आगम दीव लाल रे ॥ देवजसा० ॥ ५ ॥

अर्थ:-हे प्रभु ! आ माहरा जीवे पूर्वे आत्म
 धर्मनी केवा तीव्र विराधना करी छे के आत्म
 अनात्मनुं स्वरूप यथार्थ प्रकाश करनार जिनागम-
 रूप दीपकनी प्राप्ति थया छता, पण पंचेंद्रियना
 विषय जे पुद्गल परिणाम ते ऊपर रागकूप अवि-
 रति तथा स्वपर जीवना द्रव्यभाव प्राण हणवारूप
 हिंसा, तथा क्रोधादिक कषाय तिगोरे आत्म भावने
 अत्यंत अप्रशस्त तथा दुःखदायक परिणाम हजु-
 सुधी टलता नथी ॥ ५ ॥

आत्म शुद्ध स्वभावन, बोधन शोधन काज
 लाल रे ॥ रत्नत्रयी प्राप्तिणो, हेतु कही
 सहायज लाल रे ॥ देवजसा० ॥ ६ ॥

अर्थः—कर्म कलंक (सर्व विभावथी) रहित शुद्धात्म तत्त्वेन स्वरूप यथार्थ पणे जे वडे जणाय तथा अनादिथी बलगेला मिथ्यात्व अज्ञान कषायादि विभावना सर्वथा अभावार्थे जे वडे महरो आत्मा कर्म कलंकथी रहित परम पवित्र थाय ते सम्यक्ज्ञान सम्यक्दर्शन सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयनी प्राप्ति शीरीत थाय ते करुणा करी कहो ॥६॥

तुज सरिखो साहिब मिल्यो, भांजे भव भ्रम
टेव लालरे ॥ पुष्टालंबन प्रभू लही, कोण करे
पर सेव लालरे ॥ देवजसा० ॥ ७ ॥

अर्थः—समस्त दूषणोथी रहित परम पवित्र अनंत गुणनो निधान, लोकालोक प्रकाशक, रत्नत्रयनी प्राप्ति करावी अनादिथी लागेली भव भ्रमणनी टेवथी मुक्त करनार, भव समुद्रथी तारवामां पुष्टालंबनरूप आप भगवंतनुं दर्शन पास्या पछी अन्य कुदेवादिकनुं कोण सेवन करे ! कल्पवृक्षने त्यागी धंतुराने कोण सेवे ॥ ७ ॥

दीनदयाल कृपालुओ. नाथ भविक आधार
लालरे ॥ देवचंद्र जिन सेवना, परमामृत
सुखकार लालरे ॥ देवजसा० ॥ ८ ॥

अर्थ:-संसारमां भ्रमण करता अनेक प्रकारना दुःख सहता ज्ञानादिक लक्ष्मी रहित दीन कंगाल जीवो ऊपर अत्यंत करुणा करी मोक्ष मार्गे दोरनार होवाथी हे प्रभु ! आपज दीन दयाल छो तथा कृपालुओ कहेतां कृपाना आलय (निधान) छो, दीन अनाथ जीवोना नाथ छो, संसार समुद्रमां हूषता भव्य जीवोने उद्धारवा माटे आप पुष्ट अवलंबन छो, सर्वे देवोमां चंद्रमा सामन हे देवजसा प्रभ ! आपनी सेवना सर्वोत्कृष्ट अमृत समान परमानंद दातार तथा शिव सुखनी करनार छे ॥ ८ ॥

॥ सम्पूर्ण ॥

॥ अथ विंशति श्री अजितवीर्यजिन स्तवनम् ॥

अजितवीर्य जिन विचरतार, मन मोहनारे लाल ॥ पुष्कर अर्द्ध विदेहरे, भवि मोहनारे लाल ॥ जंगम सुरतरु सारिखारे, मन मोहनारे लाल ॥ सेवे धन्य धन्य तेहरे, भवि मोहनारे लाल ॥ १ ॥

अर्थ:-अतिशय दुर्जेय मोहराजानो जेणे लीला मात्रमां समूल क्षय करीनांख्योछे, तथा जेनुं वीर्ये हणवां कोइ पण समर्थ नथी एहवा अतिशय निश्चल

अनंत वीर्यवंत, पुष्कलावर्त विदेहमां विचरता हे
 श्री अजितवीर्य प्रभु ! जेम कमलने सुगंधलुं आवास
 जाणी भ्रमर तेमां मोही रहे छे, तेन शुद्धात्म
 अनुभव वडे भरपूर आपनी अस्थंत शांत मुद्रा
 विलोकी प्रशस्त राग वडे भव्य जीवोनुं चित्त
 आपमां मोहित रहे छे, एवी रीते आ त्रिलोकमां
 आप मनमोहन छो, तथा अज्ञानरूप अंधकार वडे
 आवृत धएला भव्य जीवोना हृदय कमलने विक-
 श्वर करनार छो, तथा कल्पवृक्ष तो स्थावर होवाथी
 हमेशां एकज ठेकाणे रही ईच्छित फल आपी चाके
 छे तो पण ते पौद्गलीक तथा विनश्वर छे पण आप
 तो अनेक स्थले विहार करी कोई पण काले नाश
 अथवा विरस न थाय एहवुं स्वाधिन तथा सर्व
 कामना जेथी पूर्ण थाय एहवुं रत्नत्रयरूप फल
 भव्यजीवोने निरतर प्रदान करी छो माटे हे भगवंत !
 खरेखर आपज आ जगत्त्रयमां अद्वितीय कल्प
 वृक्ष छो. तेथी हे भगवंत ! जे प्राणीउ आपना
 चरणकमलनी सेवामां लीनछे तेउने धन्य छे ! वली
 धन्य छे ! तेउने के जे आ अपार भवसमुद्रने
 गोपदनी पेठे सहज उलंघी जनारा छे. ॥ १ ॥

जिन गुण अमृत पानथी रे, मन ० । अमृत

क्रिया सुपसायरे, भवि ० ॥ अमृत क्रिया
अनुष्ठानधीरे, मन ० । आत्म अमृत थायरे
॥ भवि ० ॥ २ ॥

अर्थ :- जिनेश्वरना ज्ञानादि शुद्ध गुणोनुं
सेवन बहुमानरूप अमृतनुं पान करवाथी अमृत
क्रिया (अमृतानुष्ठान) नी प्राप्ति थाय, अने
अमृतानुष्ठान वडे सकल मोहनो क्षय थई आत्मा
अजर अमर अविनश्वर शुद्ध सिद्धपदने प्राप्त थाय,
अने अन्य जीवोने अमृत समान भव रोगथी मुक्त
करवानो हेतु थाय. अनुष्ठान पांच प्रकारनां छे--
विषानुष्ठान, गरलानुष्ठान, अनानुष्ठान तद्धेतु
अनुष्ठान, अने अमृतानुष्ठान.

विषानुष्ठान-आहारोपधि पूजर्द्धि, प्रभृत्या-
शंसया कृतं, शीघ्रं सच्चित्तहन्तृत्वा द्विषानुष्ठान
मुच्यते ॥ अध्यात्मसार पा. ४५६

अर्थ:-मिष्टान्न भोजननी लालचे, वस्त्रादिक
उपकरणनी लालने, पूजानी लालचे, रिद्धिनी
लालचे जे तप जपादि क्रिया करे ते क्रिया चित्त
शुद्धिनी हणनारी छे तेथी ते विषानुष्ठान कहेवाय
छे, आ भवमां पौद्गलीक भोगोनी प्राप्ति थवानी

कालचे ईच्छाए जे तपादि अनुष्ठान आदरवुं ते विषानुष्ठान छे.

गरलानुष्ठान-दिव्यभोगाभिलाषेण, कालांतर
परिक्षयात् । स्वादिष्ट फल संपूर्ते गरलानुष्ठान
मुच्यते ॥ यथा कुद्रव्य संयोग, जनितं गर
संक्षितं । विषं कालांतरे हन्ति तथेदमपि
तत्त्वतः ॥

अध्यात्म सार पा० ४५७

अर्थ:-परभवे देव इंद्रादिकना दिव्य भोग मले
एवी इच्छा, लालचवडे जे तपादि अनुष्ठान आद-
रवुं ते गरलानुष्ठान छे. जेम चंगडीचूर्ण प्रमुख
द्रव्यना संयोगे प्रगट थतुं विष ते गरल नामा विष
काहए, ते घणा दिवस कष्ट पमाडी मारे छे; तेम
गरलानुष्ठान पण अहितकारी कुगति आदिआपे छे.

अन्योन्यानुष्ठान-प्रणिधानाद्यभावेन कर्मान-
ध्यवसायिनः ॥ संमूर्छिम प्रवृत्त्याभ मननुष्ठान-
मुच्यते ॥ उघ संश्रात्र सामान्यं, ज्ञानरूपा-
निबंधन । लोक संज्ञा च निर्दोष सूत्र मार्गा-
नपक्षणी ॥ अध्यात्मसार पा० ४५७

अर्थः--सूत्र कथित निर्दोष मार्गनी अपेक्षा विना तथा शुद्ध प्रणिधानादिकने अभावे उपयोग शून्ये संसृद्धिमनी पेठे बीजाना देखादेखी जे क्रिया करवी तें अन्योन्यानुष्ठान जाणवुं-सूत्रनी शैली रहित पणे मतानुगतिक पणे ओघसंज्ञाए तथा लोक संज्ञाए जे करवुं ते अन्योन्यानुष्ठान छे ते उपयोग शून्य अर्थात् ज्ञान रहित होवाथी ते वडे सकाम निर्जरा थई शके नहि, आ विषादि त्रणे अनुष्ठानमां अशुद्ध क्रियानो आदर उपजे छे माटे आ त्रणे अनुष्ठान त्यागवा लायक छे.

यद्युक्तं सूत्रकृतांगे-“ जे अबुद्धा महाभागा,
वीरा असभत्त दंसिणो । अशुद्धं तेसि परकंनं,
सफलं होई सव्वसो ॥ ”

अर्थः-व्याकरणादिक लोकिक अनेक शास्त्रने जाणनारा पण जैन सिद्धांतना शुद्ध तत्वज्ञानथी अजाण अर्थात् सम्यक्त्व परिज्ञानथी रहित होवाथी अबुध, एहवा पुरुषो जो के शूरवीर होय तथा त्यागादि गुण वडे लोकमां पूज्य गणता होय तथापि तेओनो दान, तप, नियम आदिकने विषे उद्यम पराक्रम ते सर्व अशुद्ध जाणवो. कारण के

तेऽत्रोनुं तपादिक सर्वे, अनुष्ठान कर्मबंधना कारण
 विषे सफल थाय एतले नवा कर्मबंधननुं कारण
 थई शके नहि; कारण के सकाम निर्जरा तो
 सम्यक्ज्ञानेज थाय—“ जेय बुद्धा महाभागा,
 वीरा सम्मत्त दंसिणो, सुद्धं तंसि परकंत,
 अफलं होइ सव्वसो, ॥

अर्थ:—जे सम्यक्ज्ञान सम्यक्दर्शन सहित छे
 तेज बुधे पुरुष छे, जे पूज्य छे, जे साचा शूरवीर
 छे, अने तेऽत्रोनुज तपादिक अनुष्ठानमां उद्यम-परा-
 क्रम शुद्ध जाणवो, अने तेऽत्रोनुं अनुष्ठान नवां कर्म-
 बंधन अटकावी शके छे तथा सकाम निर्जरानो
 हेतु छे.

तद्धेतु अनुष्ठान—सदनुष्ठान रागेण, तद्धेतु-
 मार्गिगामिनां । ए तच्च चरमावर्त्तेऽनोभोगाव्यो
 देर्विना भवेत् ॥ धर्मयौवनकालोयं, भववाल-
 दशा परा ॥ अत्रस्यात् सत्क्रिया रागोऽन्यत्र
 चासत् क्रियादरः ॥

अर्थ—चरमपुद्गल परावर्त्ते धर्मना यौवनकाले
 बालदशा टले थके मार्गानुसारी पुरुष शुद्धानुष्ठाननां

राग वडे उपयोग सहित जे कई क्रिया आदरे ते तद्धेतुअनुष्ठान जाणवुं.

अमृतानुष्ठान-सहजो भाव धर्मोहि शुद्ध
श्रंदन गंधवत् ॥ एतद्गर्भमनुष्ठानममृतं
संप्रचक्ष्यते ॥ जैनीमाज्ञां पुरस्कृत्य, प्रवृत्तं
चित्त शुद्धितः । संवेग गर्भमत्यंतममृतं
तद्विदो विदुः ॥

अर्थ:-सहज भावधर्म ते शुद्ध चंदननी सुगंध
समान छे. अने ते भावधर्म सहित जे अनुष्ठान
ते अमृतानुष्ठान छे. अस्यंत संवेग गुण सहित
चित्त शुद्धिए जिनेश्वरनी आज्ञामां वर्तवुं तेने गण-
धरादिक अमृतानुष्ठान कहे छे तेज मोहनो संपूर्ण
क्षय करवा समर्थ छे. ॥२॥

प्रीति भक्ति अनुष्ठानथी रे ॥ म० ॥ वचन
असंगी सेवरे ॥ भवि० ॥ कर्ता तन्मयता
लहेरे ॥ म०॥ प्रभु भक्ति नित्यसेवरे ॥ भवि. ॥३॥

अर्थ:-सर्वे पुद्गल भावमांथी प्रीति उठाधी
मात्र एक जिनेश्वरना स्वाभाविक पवित्र ज्ञानादि
गुणोमां अस्यंत प्रीति भाव करवो तेमां चित्तनी

तल्लीनता करवी ते प्रीति अनुष्ठान छे.

तथा श्री जिनेश्वरने परम करुणाना निधान,
भवसागरमांथी भव्य जीवोने मुक्त करनार, धर्म-
धुरंधर, तीर्थना प्रवर्तक जाणी तेओना गुणलु बहु-
मान करवुं, अतिशय आदर विनय पूजा सेवना
विगेरे करवां ते भक्तिअनुष्ठान छे.

बली लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञानवडे सर्वे
तत्त्वना यथार्थ वेत्ता तथा उपदेशक परम वीतराग
आप्त श्री जिनेश्वरना वचननी यथार्थ श्रद्धा करवी
तदनुसार हर्षयुक्त आचरणमां प्रवर्तवुं ते वचना-
नुष्ठान छे.

हे प्रभु ! ए त्रण अनुष्ठान जे भावयुक्त सेवन
करे तेने सर्वे विभाविक क्रियाथी निवृत्ति तथा
सहज आत्मीक परिणामीकतानी प्राप्ति क्षय असंग
अनुष्ठान थाय.

एम ए चार अनुष्ठाननो कर्ता हे भगवंत !
आप स्वरूपने प्राप्त थाय. मांटे, हे प्रभु ! आपनी
भक्तिमां माहरुं चित्त निरंतर लीन रहे एम भावना
भावुं छुं ॥ ३॥

परमेश्वर अवलंबनेरे ॥ मन० ॥ ध्याता
ध्येय अभेदरे ॥ भवि० ॥ ध्येय समाप्ति हुवेरे ॥

मन० ॥ साध्य सिद्धि अविच्छेदरे ॥ भवि. १४।

अर्थः—हे परमेश्वर ! आपना अवलंबनथी आपना अनुकरणवडे ध्याता पुरुष पोताना शुद्ध सिद्ध समान परमात्मपदथी अभेद थाय अर्थात् पोते परमात्मा थाय. एम ध्येय जे परमात्मपद तेनी समाप्ति कहेतां संपूर्ण प्राप्ति थाय, निष्कंटकपणे अविनश्वर साध्यनी सिद्धि थाय. ॥४॥

जिन गुण राग परागथीरे ॥ मन० ॥ वासित मुझ परिणामरे ॥ भवि० ॥ तजशे दुष्ट विभावतारे ॥ मन० ॥ सरशे आत्म कामरे भवि. १५।

अर्थः—जेम भलयागिर चंदनना संसर्गवडे निंबादिक सुगंधमय थई जाय छे. तेम हे भगवंत ! आपना दिव्य स्तुति पात्र पवित्र गुणना रागरूप सुगंधीवडे जो माहरूं हृदय संश्लेषित थाय तो अनेक प्रकारनां असह्य दुःख आपनार परकर्तृत्व, परभोक्तृत्व, परग्राहकत्व, परव्यापकत्व विगेरे विभावना नाश थाय अने परमात्मपद पामवानो माहरो मनोर्थ पूर्ण थाय. ॥ ५ ॥

जिन भक्तिरत चित्तनेरे ॥ मन० ॥ वेधकरस गुण प्रेमरे ॥ भवि० ॥ सेवक जिनपद पाम-

शेरे । मन० । रसवेधित अय जेमरे । भवि । ॥६॥

अर्थः—कठोर अने कुरूप एवं अय कहेतां लीढुं ते रस वेधित थवाथी जेम सुंदर अने कोमल एहवा सुवर्णपणाने प्राप्त थई जाय छे. तेम जिनेश्वरनी भक्तिमां चित्त लीन थाय ते चित्तने ते जिनेश्वरना गुण रागरूप वेधकरसनो योग थाय तो ते चित्त पूर्ण निर्मलपणाने प्राप्त थाय. एम सेवक आप समान अरिहंत पदने प्राप्त करे. ॥ ५ ॥

नाथ भक्तिरस भावथीरे । मन० । तृण जाणुं पर देवरे । भवि० । चिंतामणि सुरतरु थकीरे । मन० । अधिकी अरिहंत सेवरे । भवि० । ६।

अर्थः—आ घोर भवाटवीमां भ्रमण करता अशरण प्राणीओने हे भगवंत! मात्र एक आपज शरण छो, शिवपुरीए दोरवावाला छो साटे आपज नाथ छो तथा हे प्रभु! आपनीज भक्तिरूपरसमां माहंरुं चित्त लीन थाय छे. विषय कषाययुक्त कुदेवो तरफ तृणनी पेटे त्याग भाव उपज छे. चिंतामणी तथा कल्पवृक्षथी पण प्रभनी सेवाने अत्यंत आदरणीय मानुं छुं. आपनी सेवा आगल ते चिंतामणी तथा कल्पवृक्षादि अतिशय तुच्छ पदार्थ भासन थाय छे. ६।

परमात्म गुण स्मृति थकीरे ॥ मन० ॥
 फरश्यो आत्म रामरे ॥ भवि० ॥ नियमा
 कंचनता लहेरे ॥ मन० ॥ लोह ज्युं पारस
 पामरे ॥ भवि० ॥ ७ ॥

अर्थ:-वली हे प्रभु ! संपूर्ण सम्यक्ज्ञान,
 सम्यक्चारित्र, अनंत निश्चल धी^१ विगेरे आप
 परमात्माना गुणोना चिंतनमां जो माहरो आत्म
 परिणाम सृष्ट थाय तो जेम पारस मणिना स्पर्श
 थकी लोढा जेवी कुधातु कांचन थई जाय छे; तेम
 बिषय कषायमां परिणमतो माहरो आत्मा ते पण
 कांचन समान शुद्ध परमात्म पदने प्राप्त थाय ॥ ७ ॥

निर्मल तत्व रुची थईरे ॥ मन० ॥ करजो
 जिनपति भक्तिरे ॥ भवि ॥ देवचंद्र पद
 पामशोरे ॥ मन० ॥ परम महोदय युक्तिरे ॥
 भवि० ॥ ८ ॥

अर्थ:-भावदयाना आवेशे मित्रभाषना युक्त
 स्तवनकर्ता श्री देवचंद्र मुनि भव्यजीवो प्रति
 सहुपदेश आपे छे के आभव परभव संबंधी विषय-
 भोग तथा मान पूजा विगेरे पौद्गलिक भावनी

आशंसा तजी, मात्र एक शुद्धात्म तत्वना रुचिवान
 थई, ओघसंज्ञा तथा लोक संज्ञा परिहरी, विधि
 विवेक पूर्वक सर्वे जिनमां शिरोमणि श्री अरिहंत
 भगवंतनी भक्तिमां आणा सेववामां लीन थजो
 तो सर्वे देवोमां चंद्रम १समान अरिहंत भगवंत
 सदृश परमात्म पदने पामशो. एज उत्कृष्ट स्वाधीन
 अविनश्वर महोदय प्राप्त करवानी युक्ति छे ॥८॥

॥ संपूर्ण ॥



॥ कलश ॥ राग धन्याश्री ॥

वंदो वंदोरे जिनवर विचरंता वंदो, कीर्तन
 स्तवन नमन अनुसरतां ॥ पूर्व पाप निकंदोरे
 जिनवर विचरंता वंदो ॥ १ ॥

अर्थः—विहरमान जिनेश्वरने हे भव्यो ! भाव सहित
 वंदो, तेओना सद्गुणोनुं कीर्तन करो, तेओनुं स्तवन करो,
 मार्दव परिणामी थई तरण तारण जिनेश्वरने नमो, तेओनी
 आक्षाने अनुसरो, जेथी पूर्वे बांधेलां अनेक प्रकारनां
 कर्मो निर्मूल थाय ॥ १ ॥

जंबु द्वीपे चार जिनेश्वर, धातकी आठ
आणंदो ॥ पुष्कर अर्द्ध आठ महामुनि, सेवे
चोसठ इंदोरे ॥ जिनवर० ॥ २ ॥

अर्थ—जंबुद्वीपमां चार, धातकीमां आठ अने पुष्कर-
गर्धमां आठ एम सर्वे मली वीश तीर्थकर विहरमान
जेने महारिद्धिना धारक एवा. चोसठ इंदो पण सेवे
छे ॥ २ ॥

केवली गणधर साधु साधवी, श्रावक श्राविका
वृंदो ॥ जिन मुख धर्म असृत अनुभवतां, पामे
मन आणंदोरे ॥ जिन० ॥ ३ ॥

अर्थः—श्री तीर्थकरना मुख कमलमांथी वहेता
अमृत समान वचनोने अनुभवतां तेनो आस्वाद लेतां
केवली गणधर साधु साधवी श्रावक श्राविका सम्यक्द्रष्टी
जीवो शद्ध आनंदमां मग्न रहे छे ॥ ३ ॥

सिद्धाचल चोमास रहीने, गायो जिनगुण
छंदो ॥ जिनपति भक्ति मुक्तिनो मारग, अनुपम
शिवसुख कंदोरे ॥ जिन० ॥ ४ ॥

अर्थः—सिद्धाचल क्षेत्रमां चोमासु रहीने जिनेश्वरना
पवित्र गुणोनु जेमां वखाण छे एवा छंदो (स्तवना)

वनाव्या-कारणके जिनेश्वरनी भक्ति तेज मृत्तिनो मार्ग छे
तथा तेज अनुयम अव्याबाध स्वाभाविक शिवसुखनु मूल
छे ॥ ४ ॥

खरतर गळ जिनचंद सूरिवर, पुण्यप्रधान
मुण्णिंदो ॥ सुमतिसागर साधुरंग सु वाचक,
पीधो श्रुत मकरंदोरे ॥ जिन० ॥ ५ ॥

अर्थः—हवे स्तवन कर्ता श्री देवचंद्र मुनि पोतानी
परंपरा वखाणे छे, जेणे जिनप्रणीत सूत्रनो शुद्ध आस्वा-
दन लीधो छे एवा खरतर गळमां श्री जिनचंद्र सूरि भट्टा-
रक नामे प्रधान आचार्य थया, तेओ श्रीना शिष्य प्रधान
पुण्यवान मुनिशिरोमणि श्री पुण्यप्रधान नामे महोपाध्याय
थया, तेओना शिष्य सुमतिना समुद्र जेवा श्री सुमतिसागर
नामे उपाध्याय थया, तेउना शिष्य मुनिपणामां जेने रंग
लाग्यो छे एवा साधुरंग वाचक थया ॥ ५ ॥

राजसार पाठक उपकारी, ज्ञानधर्म दिणदो ॥
दीपचंद सद्गुरु गुणवंता, पाठक धीरगयंदोरे
॥ जिन० ॥ ६ ॥

अर्थः—ते पछी आवश्यकोद्वार प्रमुख ग्रंथना कर्ता सुविहित सामाचारी धारक श्रीराजसारजी महोपाध्याय थया, ते पछी न्यायादिक ग्रंथ अध्यापक सूर्यसमान तपस्वी ज्ञानधर्म उपाध्याय थया, ते पछी माहरा सद्गुरु ज्ञान दर्शन चारित्र गुणना धारक, पंचाचारना पालक, उपसर्ग परिसह सामे गजेन्द्रनी पेठे निश्चल रहेवावाला महाधीर वीर दीपचंद्र पाठक थया ।

देवचंद्र गणि आत्म हैते, गाया वीश
जिणंदो ॥ रिद्धि वृद्धि सुख संपत्ति प्रगटे
सुजस महोदय वृंदोरे ॥ जिन० ॥ ॥६ ॥

अर्थः—एमना शिष्य में देवचंद्र गणिए आत्म पदार्थने कर्म कलंकथी मुक्त करवाना हेतुए विहरमान वीश तीर्थकरना गुण गाया जेथी कर्म कलंक वडे आछा-दित थएली आत्मानी ज्ञानदश नादि अनेक रिद्धिओ प्रगटे, वृद्धिने पामे तथा तजन्त्य सुख संपत्ति प्रगट थाय, अखूट निर्मल यश विस्तरे, आत्मीय गुण समूहनो महोदय थाय, सर्वत्र कल्याण वर्ते, सर्व जीव परमानंद ने प्राप्त थाय ॥ ६ ॥

॥ संपूर्ण ॥

बालावबोधकार प्रशस्ति

॥ कलश ॥ हरिगीत छंद ॥

विहरमान जिनंद मंगल, कंद ज्ञान दिनंद जे,
विकसावता नय कर समूहे, भव्य उर अरविंद जे;
उपशम सुधा सागर उलासन, पूर्ण अनुपम चंद जे,
भवदंद फंद निकंदि पायक, शुद्ध परमानंद जे ॥ १ ॥

मोह मदिरामां मचेला, कुमति मत मातंगना,
मह गंजवा बल भंजवा, बलवान ग्रथु पंचानना;
ते तीर्थनायक तत्त्वदायक, वीश जिनवर गुणमणी,

“ देवचंद्र गाणि ” पवित्र मतिए, स्तव्या गुणमाला
भणी ॥ २ ॥

ते स्तवन वीश विषे अतिशे, बोध अनुपम वरणव्यो,
त्यां चित रमण हित मुज मनोरथ, अरथ लखवानो थयो;
मधु मासमां अति मधुर स्वरथी, कोकिला जे गाय छे,
ते तो खरेखर आम्र तरुना, पुष्पनोज पसाय छे ॥ ३ ॥

तेम गुण निधि “ सद्गुरु, मनसुख ” तणो

आश्रय लही । ,

“ संतोष ” प्रेमे अर्थ आ, में लख्यो ‘दोहदमां’

रही;

उगणीश छासठ साल आसो, शुक्ल सातम शशि दिने,
जिनराज भक्ति पसायथी, पूर्ण थयो उलसित मने ॥५॥

हे भव्य शुभ मति विनति आ, मम क्षमायुत उरमां धरी,
गुण क्षीर ग्रहजो हंस पेठे, नीर अवगुण परिहरी;

भरपूर सुखप्रद ग्रन्थ आ, शशि स्वर सम शाश्वत रहो,
वांचन मनन अनुभव करी, भवि शशि रमा अनुपम

लहो ॥ ५ ॥

श्रीमद् देवचन्द्रजी रचित अप्रकाशित स्तवन संग्रह

संग्राहक—अगरचंद नाहटी

१ ऋषभ स्तवन ।

ढाल—मोरा आतमराम, कईयइ दरसण पास्यु ए देशी ॥

मोरा ऋषभ जिणंद, कईयइ दरसण पास्युं ॥ मो० ॥

सिद्धाचलनी पाजइ चढतां, मरु देवा सुत ध्यासुं ।

घणा दिवस नो अग षमाहो, ते पामी सुख भास्युं । १ मो०॥

निरमल नीरइ प्रभु नइ अगइ, कहीय(इ) न्हव्रण करास्युं ।

केसर चंदन मृगमद घसि नइ, तोरइ देह लगास्युं ॥ २ मो० ॥

पूज करी नइ आगलि वइसी, पांचे षंग नमास्युं ।

भाव धरीनइ मननइ रंगइ, नाभ नंदन गुण गास्युं ॥३ मो०॥

षार २ तुम्ह मुख निरखी, हीयडइ हरखति थास्युं ।

तोरो ध्यांन धरी अति सारो, सकल मिथ्यात विनास्युं ॥४मो०॥

आठ करमनो अत करीने, दुरगति दूरि गमास्युं ।

चंद कहइ इम मननै रंगइ, तुम्ह ध्यांनइ मन लास्युं ॥५ मो०॥ इति

(देवचंद्रजी लिखित पत्र में होने से उनका रचित संभव है)

ध्यान चतुष्क विचार गर्भित

शीतल जिन स्तवन

अथ ध्यान च्यार स्तवन ।

दूहा—

प्रणमी शीतलनाथ पय, सुख संपति दातार ।

विघन विडारण भय, हरण, धरि मनि भाव अपार ॥ १ ॥

श्री सदगुरु ना पय नमी, मन सूं करीय विचार ।

ध्यान भेद सखेप सू, कहिसुं मति अनुसार ॥ २ ॥

ढाल— रामचंद्र कइ वाग, एहनी ।

च्यार ध्यान विसतार, सुणिज्यो भाव धरी री ।

कहिस्युं श्रुत अनुसार, ग्रहि मनि टेक खरी री ॥ १ ॥

आर्त्त रौद्र बलि धर्म, चउथउ शुक्ल थुण्यउ री ।

कहिस्युं मति इक चित्त, जिम गुरु पास सुण्यउ री ॥ २ ॥

संका शोक प्रमाद, कलह चित भयकारी ।

अम उनमाद विशेष, धन संग्रह अधिकारी ॥ ३ ॥

काम भोग नी चीत, जे जन मन मइं राखइ ।

आर्त्त ध्यान तिण माहि, लहीयइ इम श्रुत साखइ ॥ ४ ॥

प्रथम ध्यान ना पाय, च्यार कहा श्रुत संगइ ।

प्रथम अनिष्ट-संयोग, बीजउ इष्ट-वियोगइ ॥ ५ ॥

तीजउ रोग-निमित्त, मन मइं चित धरइ री ।

चउथउ सुख नइ काजि, जीव नियाण करइ री ॥ ६ ॥

यत्त दैत्य विष साप, जल थल जीव सहू री ।
 सायण षायण भूत, गाजै सींह बहू री ॥ ७ ॥
 नयडइ आव्यइ दुक्त्र, जे मन क्रोध करइरी ।
 टालू दूरइ एह, मन मइ - एम धरइ री ॥ ८ ॥
 एहवउ दुष्ट स्वभाव, जिण रइ चित्त रहइ री ।
 आर्त्त अनिष्ट-संयोग, जिनवर तेथि कहइ री ॥ ९ ॥
 भोग सुहाग विशेष, चित वंछित सुह दाता ।
 बांधव मित्र कलत्र, ऋद्धि पितृ वलि माता ॥ १० ॥
 हुयइ इष्ट-वियोग, एहवउ ध्यान भिलइ री ।
 करुं कोइ उपाय, जिणसुं इष्ट मिलइ री ॥ ११ ॥
 इष्ट मिलेवा काज, मन संकल्प वहइ री ।
 ध्यान ए इष्ट वियोग, बीजउ आर्त्त कहइ री ॥ १२ ॥
 कास स्वास जर दाह, जरा भगंदर रोगा ।
 पित्त श्लेष्म अतिसार, कोष्ठादिक ना योगा ॥ १३ ॥
 एहवइ ऊपनइ रोग, मन मइ चित करइ री ।
 ओखध कर : अपार, सुख कारण विचरइ री ॥ १४ ॥
 क्रोध मोह मद लुद्ध, मन मइ दुष्ट धरइ री ।
 रोग चित्त इण नाम, तीजउ आर्त्त वहइ री ॥ १५ ॥
 राज रिद्धि सुख पूर, काम भोग नित चाहइ ।
 धन संतान निमित्त, देह कष्ट बहु साहइ ॥ १६ ॥
 वासुदेव चक्रवर्त्ति, सुर किन्नर पद काजइ ।
 इह लोक नइ परलोक, सुख बांछा मन छाजइ ॥ १७ ॥

करइ तपस्या नित्य, मन मइ जे पद चाहइ ।
 भण्यउ नियाणो नाम, आर्त्त अंत्य अवगाहइ ॥ १८ ॥
 ॥ इति आर्त्तध्यान ॥

दूहा—

सदा त्रिशूलउ शिर रहै, आंखे क्रोध अपार ।
 बोलइ इम कडूआ वचन, मखइ मुकार चकार ॥१॥
 दुष्ट परिणामी खल सदा, विनय हीन वाचा (ल)
 ॥ २ ॥
 ।

(पत्रांक २ नहीं मिलने से रौद्र ध्यान का शेष वर्णन व धर्म ध्यान का प्रारंभिक वर्णन अधूरा रह गया है)
 नवि करइ, प्रथम पायौ तिको जाण रे ॥ ३ ॥ ए० ॥
 एह मुक्त जीव अनादिनो, कर्म जंजीर संयुक्त रे ।
 पाडूआ कर्म कलंक थी, कीजस्यइ किण दिनइ मुक्त रे ॥ ४ ॥
 आत्मगुण परगट कदि हुसै, छोडि पर पुद्गल संग रे ।
 एह विचार अहनिशि करइ, यह बीजो ध्रम अंग रे ॥ ५ ॥
 जोव उदय सुभ कर्म रइ, पामइ छइ सुकख अपार रे ।
 अशुभ उदय दुकख ऊपजइ, एह निश्चय करि धार रे ॥ ६ ॥
 नरक मइ दुख जेतइं सहा, तेह आगे किसूं एह रे ।
 पाय तीजइ इसउ चींतवइ, इम करइ भव तणउ छेह रे ॥ ७ ॥
 शब्द आकार रस फरस सब, गध संस्थान संघयण रे ।
 रूप ध्यावइ वली आपणउ, तजीय मोहादि वलि मयण रे ॥ ८ ॥

जीव जग तीन मइ छइ किना, जीव मइ तीन जग सार रे ।
 जीव बडउ जगत्रय बडउ, जीव जग तीन सिणगार रे ॥ ६
 एह सरूप जगत्रय तरणउ, चीतवइ चित्त मइ नित्य रे ।
 तेथि संस्थान-विचय भलउ, पाय चउथउ धम कित्त रे ॥ १०

दूहा—

धरम ध्यांन ध्यायां पछी, सुख शिव पद दातार ।
 शुक्ल ध्यान ध्यावे भविक, आतम रूप उदार ॥११॥
 च्यार पाय तिण शुक्ल ना, पृथक्क-वितर्क विचार ।
 बीजउ शुक्ल सुहाभणउ, एक-तर्क अविचार ॥१२॥
 तीजउ शुक्ल श्रुतइ कह्यौ, सुदम-क्रिया प्रतिपाति ।
 चउथउ शुक्ल ध्यावइ सदा, छिन्न-क्रिया प्रतिपाति ॥१३॥

ढाल-मालीय केरे वांग मइ एह नी

एक द्रव्य परयाय सु, शुक्लइ मन लावउ लो ॥ अहो०
 उतपति थिति इम अंग सु, तिण माहि मिलावउ लो । अहो० १॥
 साते नय दो नय थकी, जग रूप विचारइ लो । अ० ।
 तीन योग इक योग सु, मन माहि उचारइ लो ॥२॥ अ०
 पृथक्क-वितर्क विचारते, शुक्ल ध्यांन कह्योवइ लो । अहो० ।
 निश्चय मन ध्यावइ सदा, ते चढतइ दावइ लो । अहो० ३॥
 एक वर्तु नय-सात सु, माहो माहि मिलावइ लो । अहो० ।
 एह मिलइ दो नय थकी, ए च्यार मिलावइ लो । अहो० ४॥
 केवल तदिपामी करी, ते ध्यांन ज ध्यावइ लो ॥ अ० ॥

एक-तर्क अविचार ते, शुक्ल वीजउ पावइ लो ॥ अहो ॥५॥

अंतमुँहुरत आयुप थकइ, ध्यान तीजइ आवइ लो ॥ अ० ॥

निज गुण मोक्ष आवी रखां, दोय योग रूंधावइ लो ॥ अ० ॥६॥

एक योग बादर अछइ, तेहिज पिण रोकइ लो ।

सूक्ष्म उसास नीसास सूं, निज रूप विलोकइ लो ॥ ७ ॥

सूक्ष्म उछास लेतउ थकउ, निश्चय पद धारइ लो । अ० ।

सूक्ष्म-क्रिया प्रतिपातीयउ, तीय शुक्ल संभारइ लो । अ० ॥८॥

शैलेशी करतां थकां, सब जोग खपाइ लो ॥ अ० ॥

पांच अक्षर परिणाम मइ, अद्भुत पद ध्यावइ लो ॥ ९ ॥

परबत जिम देह छोडि नइ, ते मोक्षइ जावइ लो ॥ अ० ॥

ह्रस्व वरण इम पांचमइ, चउथउ शुक्ल भावइ लो ॥ १० ॥

दोय ध्यान सब जीव तउ, निश्चय करि ध्यावइ लो । अ० ॥

धर्म ध्यान भव्य जीव जे, तेहिज ध्रुव पावइ लो ॥ ११ ॥

शुक्ल ध्यान पंचम अरइ, निश्चय करि नावइ लो ॥ अ० ॥

पहिलो संघयणनो धणी, शुक्ल ध्यान ज पावइ लो ॥१२॥

श्री शीतल जिन वंदतां, दोय ध्यान राखइ लो ॥ अ० ॥

धरम ध्यान मन भावीयइ, देवचन्द्र इम भाखइ लो ॥१३॥

पास जिणंद जुहारीयइ ए ढाल

ध्यान च्यार मइ वर्णव्या, श्री आगमनइ अनुसारइ रे ।

आर्त्त रौद्र नइ परिहरि, भविक धरम चित धारइ रे ॥१॥

श्री शीतल जिन वंदना, हुं करुं सदा वार वार रे ।

भवियण प्राणी जे हुवइ, ते तीजउ ध्यान संभारइ रे ॥२॥

शुक्ल ध्यानं हिवणां नहीं, इण पंचम दूसम आरइ रे ।
 धरम शुक्ल दोइ ध्यानं सूं, तिण प्रीति खणी मन माहरइ रे ॥३॥
 युग प्रधानं जिणचंद ना, शिष्य पाठक गुणे सवाया रे ।
 पुन्यप्रधान शिष्य गुण निला, श्री सुमतिसागर उवकाया रे ॥४॥
 साधुरंग वाचक वरु, तसु सीस पंडित विख्याता रे ।
 राजसार पाठक अछइ, जे जिनमत सूं अति राता रे ॥५॥
 ज्ञानधरम शिष्य तेहना, वाचक पदना घारी रे ।
 तासु सीस राजहंस × नउ, मुनि राजविमलां सुविचारी रे ॥६॥
 तिण ए ध्यानं तणउ रच्यउ, तवन शीतल जिन केरउ रे ।
 भणतां गुणतां संपदा, दिन २ उछव अधिकेरउ रे ॥७॥
 इति ध्यानं चतुष्क स्तवन ॥ पं० देवचन्द्र कृतं ॥

लिखतं पं० दुर्गदास मुनिना

(पत्रांक २ नहीं मिला) पत्र ४ पंक्ति ११ अ० ३६।४०
 × दीपचंद्रजी का दीक्षावस्था का नाम है ।
 † देवचन्द्रजी का दीक्षावस्था का नाम है ।

३ लींबडी शान्ति जिन स्थापना स्तवनम्

आवो सजन जन जिनवर वंदन, श्री शान्तिनाथ गुण वृंदा रे ।
 जस गुण रागे निज गुण प्रगटे, भाजे भव भय फंदा रे ॥१॥
 विश्वसेन अचिरा नो नंदन, पूरण पुन्ये लहीये रे ।
 ध्यानं एकत्वे तत्व विबुद्धे, शुद्धात्म पद प्रहीये रे ॥२॥

संवत अठारसैं सातैं वरसैं, फागुण सुदि बीज दिवसे रे ।
श्री शांति जिणोसर हरपैं थाप्या, (अति) बहु माने सिव सुख
वरसे रे ॥३॥

लीवड़ी नयरी मडण मनोहर, शांति चइत् प्रसिद्धो रे ।
वृद्ध शाख पोरवाड़ प्रगट जस, वोहरे डोसैं, की(ली?)घो रे ॥४॥
जिन भगते जे धन आरोपे, धन धन तुसी मत धारो रे ।
गुणी राग थी तनमय चितैं, पुद्गल राग उतारो रे ॥५॥
तीर्थकर गुण रांगी बुद्धैं, रत्नत्रयी प्रगटावो रे ।
'देवचन्द्र' गुणरंगे रमतां, भव भय सर्व मिटावो रे ॥६॥

इति शांति स्तवन सपूर्ण ।

(पत्र १८७ वां) आनंदजी कल्याणजी पेढी भंडार लीवड़ी ।

४ पार्श्वनाथ गीत

ढाल-सखी री प्यारउ २, एहनी

सखी री वामा राणी नदा, अश्वसेन पिता सुखकंदा ।
प्रभावती राणी इदा, दीजै मुक्त परम आणदा हो लाल ॥१॥
वीनती ए मुक्त धरियइ, पातक सगला हरीयइ ।
मुक्त उपरि महिर जकरीयइ, तिम केषल कमला वरीयइ होलाता ॥२॥
सखीरी तुम्ह सेवन पाई दुहली, योनि गई सहु-अहिली ।
हिष सेवा कीजइ सहिली, मुक्त इच्छा पूरउ वहिली हो लाल ॥३॥
सखीरी ते सहु पातक रोकइ, ते जय पामइ इण लोकइ ।
रिद्धि नहइ बहु थोकइ, जे तुम्ह पद पंकज धोकइ हो लाल ॥४॥

श्रीफलवधिपुर राया, जब तुम्ह दरसण मई पायां ।
 दुख दोहग दूर गमाया, हिष आणद थया सवाया हो लाल ।
 मइ योनि सहू अबगाही, तुम्ह सेवा कबहि न साही ।
 हिव मइ तुम्ह आण आराही, मुम्ह लीजइ बाह संभारी हो लाल
 जब तुम्ह मुख दरसण दीसइ, तब मुम्ह मन अधिकउं हीसइ ।
 गणि राजहंस सु सीसइ, कहे देवचंद सुजगीसइ हो लाल ॥७॥

इति श्री पार्वनाथ गीत (स्वयं लिखित, पत्र २)

प्रारंभ में दीपचंद कृत लोद्रीवा पार्व जिन स्तवन गा० १२
 पार्वस्तवन गा० ८ राजहंस (दीपचंद) कृत उसके बाद
 उपयुक्त स्तवन फिर चंदकृत स्तवन है जो प्रारंभ में जा चुका है

५ श्री मौनेकादशी नमस्कार

तिहुअण जण आणंद कंद, जय जिणवर सुखकर ।
 कल्याणक तिथि मांहि, जेह परमोत्तम सुन्दर ॥
 म्गसिर सुदी एकादशी, वसी सुगुण मन मांही ।
 आराधो पोसह करी, तो पामो सुख जाहि ॥१॥
 श्री अरजिन दीक्षा प्रधान, नमि केवल भासन ।
 मल्लिनाथ जनम, दीक्षा शुचि वासन ॥
 केवल नाण ॥ कल्याण, पंच श्री जबू भरते ।
 इम दश क्षेत्रे एक काल, जिन महिमा वरते ॥ २ ॥
 अतीत - अनातीत, वर्तमान, कल्याणक सतति ।

आराधो पंचास अहिय, इगक्षय शुभ परिणति ।
 काल अन्ते रीत एह, गुण गेह मनोहर ।
 परमात्तम सेवन, नमन, परमारथ सुखकर ॥ ३ ॥
 दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य, तप गुण आराधन ।
 अक्षय अव्यय शुद्ध सिद्धि, समता पद साधन ॥
 कल्याणक कल्याण कंद, सुरतरु जे भक्ते ।
 आराधै तसु आत्म भाव, थायै सवि व्यक्ते ॥ ४ ॥
 तीर्थे तीर्थकर साधु संघ, आराधन निर्मल ।
 जनम महोच्छव प्रमुख भक्ति, करतां हुवै शिवफल ॥
 देवचन्द्र जिनराय पाय, प्रणमो अति रीभै ।
 परम महोदय ऋद्धि सिद्धि, मन वंछित सीभै ॥ ५ ॥

॥ इति मौन एकादशी नमस्कार ॥

(नित्य-मणि-जैन लायब्रेरी, कलकत्ता से प्राप्त)



६ श्री पद्मनाभ जिन स्तवन

श्री वीरप्रभु उपगार थी रे, श्री श्रेणिक गुणधाम ।
 क्षायिक श्रद्धा गुण वशे रे, नीपायो जिननामो रे ॥
 प्रथम जिनेश्वरु, भावि भरत मभारो रे ।
 मुक्त्ते तारशे रे, भवी आशा अवधारो रे ॥ प्रथम० ॥१॥
 वस्तु स्वरूप प्रकाशता रे, ज्ञान चरण गुण खाण ।
 वांडुं प्रभुता ओतखी रे, तेहिज मुनि सुविहाणोरे ॥ प्रथम ॥२॥

पद्मनाभ प्रभु देशनारे, साधन साधक सिद्ध ।
 गौण मुख्यता वचन में रे, ज्ञान ते सयल समृद्धो रे ॥ प्रथम ३
 वस्तु अनंत स्वभाव छेरे, अनंत कथक तसुनाम ।
 प्राहक अवसर बोधथी रे, कहेवे अर्पित कामो रे ॥ प्रथम ४
 शेष अनर्पित धर्म ने रे, सापेक्ष श्रद्धा बोध ।
 उभय रहित भासन हुवे रे, प्रगटे केवल बोधो रे । प्रथम ५
 छती परिणति गुण वर्तना रे, भासन भोग आनंद ।
 सम काले प्रभु ताहरे रे, रम्य रमण गुण वृंदो रे । प्रथम ६
 निज भावे सीय अस्तित्ता रे, परनास्तित्ता स्वभाव ।
 अस्तित्पण्ये ते नास्तित्ता रे, सोयते उभय स्वभावो रे । प्रथम ७
 अस्तित्त्वभावते आपणो रे, रुचि वैराग्य समेत ।
 प्रभु सन्मुख वंदन करीरे, मागीस आतम हेतो रे । प्रथम ८
 करुणानिधि गुरु तारीअरे, दाखी शुद्ध स्वभाव ।
 मुज आतम सुख स्वादनो रे, बीजो कवण उपावो रे । प्रथम ९
 काल अनादिनो विसर्यो रे, माहरो आतमानंद ।
 प्रभु विण मुज कुण सीखवेरे, त्रिभुवन करुणा कंदोरे । १० ।
 मुजने तुज शासन तणी रे, छै मोटो उमेद ।
 निर्मल आतम संपदा रे, थाशे प्रगट अभेदोरे । प्रथम ११
 दीपचंद गुरु सेवतां रे, पाम्यो देव अभंग ।
 देवचंद ने नित होजोरे, जिन शासन दृढ़ रंगो रे । प्रथम १२

(सूचना—इस स्तवन की ३ सेद्वीं गाथा चौबीसी के अंतगत
 कुंथुनाथ स्तवन के सदृश है ।

७ अष्ट रुचि सज्जाय ।

सुरपति नतदेव अमित गुणी, श्री भाव प्रकाशक दिनमणी ।
शासनपति वीर जिनेश ना, गणधर सोहम शुचि मना ॥१॥
शुचिमना सोहम सीस जंबू, भणी सीख कही भली ।
सुणो आतमेतत्व रोचक, करी निज मति निरमली ॥
ए आठ कारण मोक्ष साधक, परम संवर पद तणी ।
करी आदर अतिहि उद्यम, यतन साधन अति घणी ॥
अभिनवा गुणनी वृद्धि थास्यै, दोष क्षय जोसै सबै ।
ते माटि सेवो सूत्र आणा, सुख लहौ जिम भव भवै ॥२॥

‘अनुभव रंगीले आतमा’—ए ढाल

पहिलुं कारण सेवियै, भाखै वीर जिणंद रे ।
नित नित नवुं नवुं सांभली, शुद्ध धरम सुख कंद रे ॥
थास्यै परम आणंद रे, जगै ज्ञान दिणंद रे, कलके अनुभव चंद रे ॥१॥
आणा रंगी रे आतमा, तजिसुं सर्व प्रमाद रे ।
करि आंगम आस्वाद रे, वसि निज तत्व प्रसाद रे ॥ आंकणी ॥
गीतार्थ श्रुत-धर मिलै, आणी अति बहु मान रे ।
नय निक्षेप प्रमाण थी, अभ्यासौ श्रुत ज्ञान रे ॥
भजितुं जिन वर आणरे, पामै सुख निरवाणरे, परममहोदय ठाणरे ॥२॥
बीजे थानक श्रुत तणी, लाघो तस्व विचार रे ।
स्व पर समय निरधार थी, चउ अनुयोग प्रकार रे ॥
ज्ञेय पणै सवि भाव रे, रह्यो आत्म स्वभाव रे, तजि पर
समय विभाव रे ॥३॥

आगम अर्थनी धारणा, थिर राखो भवि जीव रे ।
 ज्ञान ते आतम धर्म छँ, मोह तिमिर हर दीव रे ।
 श्रुत अमृतरस पीव रे, साधन एह अतीव रे, संवर ठाण
 सदीव रे ॥४॥

पूरव सचित कर्म नी, निर्जरा थायै जेम रे ।
 तिम तम संवर सेवज्यो, साधि घर्म धरि प्रेम रे ॥
 चिन्तवजो मनि एम रे, कर्म लहै हिव केम रे, मुक्त
 पद निर्मल केम रे ॥५॥

पंचम थानक आश्रयो, धर्म रुची जीव जेह रे ।
 तेहनी करवी रक्षण, बाधइ धर्म सनेह रे ॥
 निम करसण जल त्रेह रे, धरमावष्टंभ देह रे, तो लहस्यो
 निज ध्रुव गेह रे ॥६॥

छट्ट, चौविह संघनै, सीखाषी आचार रे ।
 क्रिया करता रे गुण वधै, सधै क्षमादि प्रकार रे ।
 नासै दोष विकार रे, थायै ध्यान विसतार रे आलय शुद्ध
 विहार रे ॥७॥

गुणवंत रोगी ग्लान नौ, वेयावच्च करौ रंग रे ।
 अनुकंपा सवि दीन नी, उत्तम भक्ति प्रसंग रे ।
 वाधै विनय तरंग रे, शासन राज (ग?) उमंग रे, सहज
 सुभाव उत्तंग रे ॥८॥

साधर्मिक जन सर्व में, कहवी थाय कसाय रे ।
 तजि सवि दोष अनुष्ठान नो, क्षमण कर्या सम थाय रे ।

इम जंपे जिनराय रे, समता शिव सुख दाय रे
समनिधि मुनि गुण गाय रे, सुरपति सेत्रै तसु पाय रे ॥६॥

तीजे अगेरे उपदिस्थो, ए उपदेश उदार रे ।

जिण आणा ए वर्त्तस्यै, ते गुणनिधि निरधार रे ॥

ज्ञानसुधा (जल) दिल धार रे, वरसै श्री गणधार रे,

पामै तसु सुख सार रे ॥१०॥ आ

रयण सिंहासन वैसी नै, दाखे जगत दयाल रे ।

देवचन्द्र आणा रुचि, होइज्यो बाल गोपाल रे ।

आतम तत्त्व संभाल रे. करज्यो जिन पति बाल रे, थास्यो

परम निहाल रे ॥११॥

८ पद

राग धन्यासिरी

मेरे जीउ क्या मन मइं तूं चीतइ ।

इक आवत इक जात निरंतर, इण संसार अनंतइ १। मेरे जीउ ।

करम कठोर करे जीउ भारीं, परत्रिय धन निरखंतइ ।

जनम मरण दुख देखे बहुले, चउगइ मांदि भमंते ।२। मे० ।

काम भोग क्रीड़ा मत करना, जे बांधे हरखते ।

वेर वेर तेहिज भोगवता, नवि छूटे विलवंतइ रे ।३। मे० ।

क्रोध कपट माया मद भूलइ, भूरि मिथ्याति भमतइ ।

कहै देवचंद्र सदा सुख दाई, जिन ध्रम एक एकंतइ ।४। मे० ।

६ मेरे प्रीउ क्यु न आप विचारो ।

कइसै हो, कइसै गुणधारक, क्या तुम लागत प्यारो ।१। टेक ।
 तजि कुसंग कुलटा ममता को, मानो वयण हमारो ।
 जो कछु भूठ कहे इन में तौ, भौकूं सुंस तुम्हारो ।२। मे ।
 यह कुनार जगत की चेरी, याकौ संग निवारौ ।
 निरमल रूप अनूप अवाधित, आतम गुण संभारौ ।३। मे
 मेटि अज्ञान क्रोध दसम गुण, द्वादश गुण भी टारो ।
 अक्षय अवाध अनंत अनाश्रित, 'राजविमल'पद सारो ।४। मे० ।

१० चरित्र सुख वर्णन द्वादश दोधक

पर गुण सै न्यारे रहै, निज गुण के आधीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१।
 इह नित इह पर वस्तु की, जिने परिख्या कीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।२।
 जिणहुं निज निज ज्ञान सुं, प्रहे परिख तत्व तीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।३।
 दस विध धरम धरइ सदा, शुद्ध ग्यांन परीवीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।४।
 समता सागर में सदा, भील रहे ज्युं मीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।५।
 आसा न धरै काहू की, न कबहूँ पराधीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।६।

स्व संयम पावस वसै, दहै प्रमाद दुख मीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।७।
 पुदगल जीव की सक्ति सब, जरत सप्त भय हीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।८।
 सप्तम गुण थानक रहै, कीयो मोह मसकीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।९।
 क्षपकोपशम पयड़ी चहै, आतमरस सुधीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१०।
 तूर्य ध्यांन ध्याते समे, कीयै करम सब छीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।११।
 देवचन्द्र वाचै सदा यह मुनिवर गुण वीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१२।
 (इति प्राकृत भाषया समस्या दोधक द्वादश, कृता पं० देवचंद्रेण)

११ हीयाली ।

॥ ढाल राय कुयरि वरि बाई भलो भरतार ए देशी ॥
 इक नारि रूपी रूयड़ी, जनमी ज साते तात ॥
 मलपती मानव भूलरइ, सगलां चित्त सुहात ।१।
 कहो रे चतुर नर ए हीयाली सार ॥
 जो तुम्है चतुर विचार ॥ क० ॥ आकणी ॥
 भरतार पासै नित रहै, बोलइ न भरता संग ।
 अवर पुरख आवी मिल्यां, वात करइ मन रंग ॥२॥ क०॥

दोई नेत्र पति सांघा सदा, देखै न पति-ने अंग ।
 वार्तालू- जीहा विना, मोटा कान अभंग ॥३॥ क०॥
 विचि विचै उज्जल नर मनोहर, भरि साख द्यो हुंकार ।
 पर कांधइ न चढे कदे, चरण विना चलै सार ॥४॥ क०॥
 इक नार सुं जासु वैर छै, वैवै न शीत न ताप ।
 देवचंद्र भाखइ तेहनौ, मोटां सू मेलाप ॥५॥ क०॥
 इति हीयाली संपूर्ण ॥

(हीयाली १ सुमतरंग १ दुर्गदास कृत सह । पत्र १)

(नं० ३-५ को छोड़ सभी रचनायें शाखा भंडार
 बीकानेर से प्राप्त हुई हैं)

उदय स्वामित्व पंचाशिका

बदित्तु वद्धमाणं, निणं च गुरु-राजसार-पय-कमलं ।
 गईआइएसु वुच्छं, समासत्रो उदय-सामित्तं ॥१॥
 धीणतिगं पुम इत्थी, नरतरि-सुर-निरय-आउगई पुन्वी ।
 वेउन्विदुगं जाई, चौ आईल्लाई - सउरत-दुगं ॥२॥
 आहार-दुगं संघयण-छक्क, आगई आइज्जल पंच सुभखगई ।
 थावर सुभग चउक्कं, आयव-उज्जोय-जिए-उच्चं ॥३॥
 मीसंसम मिच्छ अणचउ, दुहग-इग बीय कसाय चउ-परघा ।
 उसास पय पयही, अवहरणिज्जा उदय मज्जे ॥४॥
 धीणपण मणुय नवगं, एगिंदिय जाइमाइ दुगतीसं ।
 बलित्तु नरय ओहो, छसयरि, विणुमीस दुगमिच्छे ॥५॥

इम जंपे जिनराय रे, समता शिव सुख दाय रे
समनिधि मुनि गुण गाय रे, सुरपति सेत्रै तसु पाय रे ॥६॥

तीजे अंगेरे उपदिस्यो, ए उपदेश उदार रे ।

जिण आणा ए वर्त्तस्यै, ते गुणनिधि निरधार रे ॥

ज्ञानसुधा (जल) दिल धार रे, वरसै श्री गणधार रे,

पामै तसु सुख सार रे ॥१०॥ आ

रथण सिंहासन वैसी नै, दाखे जगत दयाल रे ।

देवचन्द्र आणा रुचि, होइब्बो बाल गोपाल रे ।

आतम तत्त्व संभाल रे, करज्यो जिन पति बाल रे, थास्यो

परम निहाल रे ॥११॥

८ पद

राग धन्यासिरी

मेरे जीउ क्या मन मइं तूं चीतइ ।

इक आवत इक जात निरंतर, इण संसार अनंतइ १। मेरे जीउ ।

करम कठोर करे जीउ भारीं, परत्रिय धन निरखंतइ ।

जनम मरण दुख देखे बहुले, चउगइ मांदि भुंते २। मे० ।

काम भोग क्रीड़ा मत करना, जे बांधे हरखते ।

वेर वेर तेहिज भोगवता, नवि छूटे विलवतइ रे ३। मे० ।

क्रोध कपट माया मद भूलइ, भूरि मिथ्याति भमतइ ।

कहै देवचंद्र सदा सुख दाई, जिन ध्रम एक एकंतइ ४। मे० ।

६ मेरे प्रीउ क्यु न आप विचारो ।

कइसै ही, कइसै गुणधारक, क्या तुम लागत प्यारो ।१। टेक ।
 तजि कुसंग कुलटा ममता को, मानो वयण हमारो ।
 जो कछु भूठ कहे, इन में तौ, भौकूं सूंस तुम्हारो ।२। मे ।
 यह कुनार जगत की चेरी, याकौ संग निवारौ ।
 निरमल रूप अनूप अबाधित, आतम गुण संभारौ ।३। मे
 भेटि अज्ञान क्रोध दसम गुण, द्वादश गुण भी टारो ।
 अक्षय अबाध अनंत अनाश्रिन, 'राजविमल'पद सारो ।४। मे० ।

१० चरित्र सुख वर्णन द्वादश दोधक

पर गुण सै न्यारे रहै, निज गुण के आधीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१।
 इह नित इह पर वस्तु की, जिने परिख्या कीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।२।
 जिणहुं निज निज ज्ञान सुं, प्रहे परिख तत्व तीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।३।
 दस विध धरम धरइ सदा, शुद्ध ज्यांन परीवीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।४।
 समता सागर में सदा, मील रहे ज्युं मीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।५।
 आसा न धरै काहू को, न कबहूँ पराधीन ।
 चक्रवर्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।६।

स्व संयम पावस वसै, दहै प्रमाद दुख भीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।७।
 पुद्गल जीव की सक्ति सब, जरत सप्त भय हीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।८।
 सप्तम गुण थानक रहै, कीयो मोह मसकीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।९।
 क्षपकोपशम पयड़ी चहै, आतमरस सुधीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१०।
 तूर्य ध्यांन ध्याते सम, कीयै करम सब छीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।११।
 देवचन्द्र वाचै सदा यह मुनिवर गुण वीन ।
 चक्रवर्त्ति तैं अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१२।
 (इति प्राकृत भाषया समस्या दोधक द्वादश, कृता पं० देवचन्द्रेण)

११ हीयाली ।

- ॥ ढाल राय कुयरि वरि बाई भलो भरतार ए देशी ॥
 इक नारि रूपी रुयड़ी, जनमी ज साते तात ॥
 मलपती मानव भूलरइ, सगलां चित्त सुहात ।१।
 कहो रे चतुर नर ए हीयाली सार ॥
 जो तुम्हे चतुर विचार ॥ क० ॥ आकणी ॥
 भरतार पासै नित रहै, बोलइ न भरता संग ।
 अवर पुरख आवी मिल्यां, वात करइ मन रंग ॥२॥ क०॥

दोई नेत्र पति सांम्हा सदा, देखै न पति-नो अंग ।
 वार्तालू जीहा विना, मोटा कान अमंग ॥३॥ क०॥
 विचि विचै उज्जल नर मनोहर, भरि साख छै हुंकार ।
 पर कांधइ न चढे कदे, चरण विना चलै सार ॥४॥ क०॥
 इक नार सुं जासु वैर छै, वैवै न शीत न ताप ।
 देवचंद्र भाखइ तेहनौ, मोटां सू मेलाप ॥५॥ क०॥

इति हीयाली संपूर्ण ॥

(हीयाली १ सुमतरंग १ दुर्गदास कृत सह । पत्र १)

(न० ३-५ को छोड़ सभी रचनायें शाखा भंडार
 बीकानेर से प्राप्त हुई हैं)

उदय स्वामित्व पंचाशिका

बंदित्तु वद्धमाणं, जिणं च गुरु-राजसार-पय-कमलं ।
 गर्ईआइएसु वुच्छं, समासत्रो उदय-सामित्तं ॥१॥
 थीणतिगं पुम इत्थी, नरतरि-सुर-निरय-आउगई पुन्वी ।
 वेउत्विदुगं जाई, चौ आईत्ताई - सउरज-दुगं ॥२॥
 आहार-दुगं संघयण-छक्क, आगई आइज्जल पंच सुभखगई ।
 थावर सुभग चउक्कं, आयव-उज्जोय-जिए-उक्कं ॥३॥
 मीसंसम मिच्छ अणचउ, दुहग-इग बीय कसाय चउ-परघा ।
 वसास पय पयही, अवहरणिज्जा उदय - मज्जे ॥४॥
 बीणपण मणुय नवगं, एगिदिय जाइमाइ दुगतीसं ।
 बज्जित्तु नरय ओहो, छसयरि विणुमीस दुगमिच्छे ॥५॥

मिच्छ निरयाणुपुव्वी, विणु सासारो संमी मीस-गुरो ।
 अणचउ विणु (दु) गहीणा, सयरी पुण सयरि सम्मत्ते ॥६॥
 सम्मनिरयाणु-पुव्वी, सहिया विणुमीसमोह-धम्माए ।
 वंसादिसु सम्मत्ते, निरयणु-पुव्वीविणा उदओ ॥७॥
 तिरतिग विणुमरनवगं, विउव्वी आहार तित्थ दुगहीणा ।
 सगहियं सय ओहो, तिरिपणु हिय मिच्छत्त सव्व वीए ॥८॥
 मीसादि सुसगन्नुवय, एगिंदिसो दयाइ पणु गई ।
 वियलतिय चिय अडविणु, पणुंदि तिरि ओह नवनवई ॥९॥
 मीस दुगहीण मिच्छे मिच्छ अपजत्त नाम विणु वीए ।
 अणतिरि-पुव्वी-विहूणा, मिसज्जामीसि इगनवई ॥१०॥
 सम्मतिरि पुव्वी सहिआ, अमीस सम्मे दुहग सग पुव्वी ।
 विणु देसे पज्जते, अणिच्छि अपजत्त सगनवई ॥११॥
 पुंमपज्ज नपुंविणु, जोणिमई सुओ हत्थन्नवई ।
 अपजत्ते तिरि परघा, मीस दुचौ सुभग उज्जोयं ॥१२॥
 सुह असुहखगई दुस्सरं, पज्जत्तय थीण पणुग सधयणा ।
 आगइ पणु आदित्ता, पणुंदिओहेसु वज्जेज्जा ॥१३॥
 मिच्छोहे एगत्तरि, भरे सुथावर दुगंच साहरणं ।
 आयव दुगतिरि पणुदस, विणुदुसयं ओह मिच्छत्ते ॥१४॥
 मीस आहार दुगतित्थ, विणु सासणि अपज्ज मिच्छविणु ।
 अण चउत्तर पुव्वि विणु, समीसमीसेतु इगनवई ॥१५॥
 सम्मनरं पुव्विखेवे, अमीस सम्मेय दुहगसग-पुव्वी ।
 विणुदेसे सपमाए, इगसी पचक्ख तीय विणु ॥१६॥

अपमादीये सुओ हृज्ज, पज्जनरेवी अपज्ज विणुओहो ।
 इत्थीसुय आहार दुगे, दुवेद अपज्ज विणु ओहो ॥१७॥
 अपजत्तयतिरि समनर, अपज्ज नाणतूण च नरतियगं ।
 उदओत्तिरिति गुणु उदओ, देवेतिय थीण न पुंवेओ ॥१८॥
 नरतिरि निरयाण नवं, एगिंदिय चउदस च संठाणा ।
 पण अंतिम थावर चऊ, अपवदुहगति दुस्सरय ॥१९॥
 कुखगई वज्जिहु, सगसयरी ओहमास दुगदीण ।
 मिच्छे मिच्छं वाए, उणुसुर पुव्वी विणा तइए ॥२०॥
 मीस जुआ संमत्ते, सुर पुव्वी सम्मजू अमीस विणा ।
 देवात्थी विणुदेवी, पुरिस विणा सेसओ उच्च ॥२१॥
 एगिंदिएसु पुंपुण, सुर एगिंदिहिण चौजाई ।
 उरलोवंगय पणदस, सुभगति जिण चौग दुस्सरयं ॥२२॥
 तसजखगई विणुओहे, मिच्छे अस्सीइ थाण सुहमतिगं ।
 परघायव दुगमिच्छ, वज्जिय गुणसयरि सासाणो ॥२३॥
 विणुसाहरणं पुढवी, साहरणायव विहिण आऊसुं ।
 आयव विणुवण आयव, दुग साहरणं विणातेव ॥२४॥
 वाव तसेयवज्जं, एगिंदिसोदयाइपण पगई ।
 सगलिंदिये सुचिवलं, वज्जियं ओहोइ ओहुच्च ॥ २५ ॥
 एगिंदिय ओहेपिव, ओराल उवग कुगइ छेवटुं ।
 तस्सदुस्सरय वज्जहु, थावर आयाव साहरण ॥२६॥
 सुहुम वियलस्सेहो, मणवय जोनेसु नव सयं ओहो ।
 पुव्वी चउ अपजत्तं, एगिंदिओहे सुधजिका ॥२७॥

अणुभयवयणे वियत्तं, खविज्ज सुर तिरि नरय विउन्वि आहारे ।
 दुगचौ पुव्वी अपज्जा, वकिय सामन्न मुरलंगे ॥२८॥
 चरलोहे थीण तिगं, सुस्सर दुस्सर पसत्थ अपसत्था ।
 गई आयव पणदुग, सीसं विणु अपज्ज जुअमीसे ॥२॥
 देवोहे नाययुग, दुहग तिग कित्ति कुखगईहुड ।
 सदनीय खेवहु, सुर पुव्वी हीण वेउव्वे ॥३०॥
 परघादुगसर दुस्सर, यगई सगई पमीस विणुमीसे ।
 संघयण छक्क संठाण, पंच अंतिम ओराल दुग पमत्तोहे ॥३१॥
 आहारे न पुमित्थि. थीणनिय कुगई दुसरयं ।
 वज्जहु तम्मीसे पुण, सुसर सुगई अपरघा दुगं ॥३२॥
 थावर चउजाइ आयम, नारय तियं च तित्थं च ।
 आयवपुंथीवेओ, विणु पुरसे ओह सत्तसयं ॥३३॥
 इत्थिसुइत्थिखेवो, हारगदुगपुरसवेअविच्छेओ ।
 सढे सुरतियहारग, पुंदुगतित्थ विणा ओहो ॥३४॥
 अन्नाण दुगे ओहे, मिच्छेपगईय मिच्छ पञ्चइया ।
 विव्भंगे चउजाई, थावर अणपुव्विहार दुग ॥३५॥
 मीस दुगायवतित्थं, विणुमिच्छोहे वि मिच्छ सासणि ।
 ताणतिगे समदिट्ठी, पञ्चइया आहार दुग सहिआ ॥३६॥
 कोहादिसु परवारस, कसायतित्थं विमुत्तु उहव्व ।
 वेयकसायतिपनव, लोभे दश गुणि सुगुणठाणा ॥ ३७ ॥
 समई एत्थेएपुण, पम्मत्त जुग्गा हवन्ति इगसीई ।
 संदित्थो हाण दुग, विणुमण नाणेय परिहारे ॥३८॥

सुहमेदेसेमिच्छे, सासाणमिसे सुनीय गुण ओहो ।
 समजिण जुगा जिणजुत्त, सट्टिपगइ अहक्खाए ॥ ३६ ॥
 अविरय किएहानीला, काउसु आहारतिथ विणु ओहो ।
 तेऊपम्हासु नारय, तियथावर- जाइ चउत्तिथ ॥ ४० ॥
 तिरि पुव्वी आयविणु, ओहुट्ट संयस जिण सुक्कोहे ।
 केवल दुग जोमीस, समओहदं सोहनाणव्व ॥ ४१ ॥
 जिणविणु अवरकुदसण, थावर दुग आयवं चजाईतिग ।
 साहरण विण चक्खु, अवरकुसमा जावलीण जिणं ॥ ४२ ॥
 चउसय अविरय जुगा, हारग दुग जत्तवेअगे ओहो ।
 सजिणाअसम्म कोहा, खायगे ओह पगईओ ॥ ४३ ॥
 सुरविणु पुव्वीतियग, आहार दुगं च सम्म मोहविणा ।
 अक्समओहो सयगं, भव्वे ओहुव्व उवयगई ॥ ४४ ॥
 मिच्छुच्चय भव्वियरो, सत्रीसु अतिथजाइ चउभावं ।
 थावर दुग साहरणं, विणुतेरसयं ओह पुव्विणव्व ॥ ४५ ॥
 नरतियगं देवट्टं, आहार दुगंसुभगतिग सुगइं ।
 संघयणागिइदसगं, आइल्लाणं जिणचउक्कं ॥ ४६ ॥
 वज्जितुससत्रीसुअ, ओहे मिच्छे असुहुमथीणतिगं ।
 आयवपरधा दुगमिच्छा, दुस्सरकुगई विणावीए ॥ ४७ ॥
 पुव्वी विणु आहारे, ओहुच्चय थीण तिगविउन्विदुगं ।
 ओरालिय सत्तरसं, आयव परघादुगं मीसं ॥ ४८ ॥
 सुस्सर दुस्सरपत्तेय, साहारण खगइ दुगं विणाओहो ।
 अणहारे कम्मणए निय निय गुण संभवं भणह ॥ ४९ ॥

दयवु दीरणापर, मयमत्ताइ गुणसुं मणु-आऊ ।
 वेभणिय दुग छेत्रो, अजोगि अणुदीरणो निच्चं ॥ ५० ॥
 सिरि "राजसार" पाया, वायगवर "नाणधम्म" सीसस्स ।
 "रायहंसस्स" सीसेण, "देवचंदेण" भणियमिणं ॥ ५१ ॥

॥ इति श्री उदय स्वामित्त्व पंचाशिका समाप्ता ॥

जयनगरीय भण्डारस्थ पुस्तिकायाः प्रतिलिपिकृता मुनिविनय
 सागरेण विक्रमाब्दे २००२ अ.श्विन शुक्ला पूर्णिमा ।

